



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26—अप्रैल 1, 2011 (चैत्र 5, 1933)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26—APRIL 1, 2011 (CHAITRA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

यूको बैंक

कोलकाता-700001, दिनांक 10 मार्च 2011

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ यूको बैंक (शेयर और बँडक) विनियमावली, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता है यथा :--

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ--(1) इन विनियमों को यूको बैंक (शेयर और बँडक) संशोधन विनियमावली, 2008 कहा जाएगा (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 2 और 4 में संशोधन--यूको बैंक (शेयर और बँडक) विनियमावली, 2003 में,

(i) विनियम 2 में, खंड (पी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, यथा --

“(पी) इसमें प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई हो किन्तु जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम या योजना में की गई हो, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खंड (सी) के उपबंधों के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों में की गई हों, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम या योजना या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी मामले हो, द्वारा उनको दिए गए हों।”

(ii) विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाए, अर्थात् :--

“4 (ए) (1) बैंक सार्वजनिक निर्गम या अधिमान आबंटन या ईक्विटी शेयरों या अधिमान शेयरों के निजी आबंटन के जरिए पूंजी जुट सकेगा।

(2) बैंक ऐसी पूंजी जुटाने से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार पूंजी जुटाने हेतु एक प्रस्ताव निरूपित करेगा।

(3) सार्वजनिक निर्गम द्वारा या अधिमान आबंटन द्वारा या अधिमान शेयरों के निजी आबंटन द्वारा पूंजी जुटाने के लिए ऐसे अधिमान शेयरों (स्थायी या अप्रतिदेय या प्रतिदेय) की प्रत्येक श्रेणी के अधीन जारी किए जाने वाले शेयरों की सीमा तथा उन शर्तों एवं नियमों जिनके अंतर्गत बैंक द्वारा ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी किए जाएंगे, का निर्धारण, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(ख) के खंड (ग) के उपबंधों में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(4) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की राय पर विचार करेगा।

(5) तदनंतर, अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों एवं नियमों, जिन्हें वह उचित समझे, के अधीन प्रस्ताव की मंजूरी दे सकती है।

(6) बैंक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के अनुसार पूंजी जुट सकता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

अरुण कौल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

चेन्ई-600034, दिनांक 3 जनवरी 2011

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

3एससीए(4)/2/2009-2010 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने विहित फीस का संदाय न करने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नामों को 1 अक्टूबर, 2009 से इस संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है :--

क्रम सं.	सदस्य का रजि. संख्यांक	सदस्य का नाम
1.	001236	श्री कृष्णास्वामी पी वी
2.	002504	श्री ठाकुर रामेश्वर
3.	002948	श्री गोपीनाथन एन
4.	003014	श्री कमेश्वरराव बुलुसु
5.	003544	श्री पदमनाभन एस
6.	004215	श्री तावकर बालाचन्द्र गोविन्द
7.	004389	श्री वर्गीस जान टी
8.	004680	श्री द्वारकानाथन आर्यातिल
9.	005098	श्री श्यामला राव सी वी
10.	005147	श्री नरसिंहामूर्ति एन
11.	005191	श्री वैकटस्मन आर
12.	006556	श्री पुवन्ना के सी
13.	006694	श्री सुब्बाशिव तुरलापति वैकट
14.	006843	श्री जगन्नाथन ए
15.	007140	श्री रोनाल्ड आइओर सल्वडोरे तेलिस
16.	007208	श्री कृष्णा जी ए
17.	007301	श्री नटराजन सी
18.	007356	श्री राघवइया पी
19.	007695	श्री शनमुघम वी
20.	007716	श्री शशि कुमार के
21.	007741	श्री सीतारमन ए
22.	008631	श्री मालिनी रमेश चंद
23.	009240	श्री सीतारामन एम एन
24.	009400	रत्नया राजा
25.	009565	श्री अनंतापदमनाभा शिनाय वाई
26.	009660	श्री सीतारमन जे

क्रम सं.	सदस्य का रजि. संख्यांक	सदस्य का नाम
27.	009726	श्री नारायणा एन
28.	009763	श्री बदरी नारायण एन
29.	009903	श्री जयारमन टी वी
30.	009910	श्री वासुदेवन नारायण
31.	009956	श्री वैकटकृष्णन वी के
32.	009970	श्री विजया कुमारा एल
33.	010085	श्री कुकील्लया एस सुरेश
34.	011452	श्री व्यथिस्वरण बी आर
35.	011610	श्री जोशी नारायण विश्वनाथ
36.	011705	श्री भंडारी रामेन्द्र
37.	011753	श्री सुदर्शन टी के
38.	011989	श्री राजन वैद्यानाथन
39.	012234	श्री विजया कुमार राव आई
40.	012410	श्री कृष्णन पी
41.	012462	श्री रामानाथन रामानाथन
42.	012481	श्री मुरलीकृष्णन वैददी
43.	012643	श्री गोपीनाथ सोनानहाली
44.	013261	श्री शिरीन सी वी
45.	013281	श्री वेकटपइया जे
46.	013292	श्री सतीश चंद्र खेमचंद के
47.	013438	श्री सुब्रमनयन के
48.	013503	श्री थंगासामी एस
49.	013554	श्री वासुदेवन पी के
50.	013677	श्री कृष्णामूर्ति के वी
51.	014112	श्री लक्ष्मी कांथन टी वी
52.	014425	श्री शंकरन एन पी

53.	014485	श्री प्रकाश राव टी
54.	014558	सुश्री मुरगन सी वी
55.	014631	सुश्री अंजनी एस वकील
56.	014799	श्री रामकृष्ण अनंतनारायण
57.	015038	श्री गोपालकृष्ण एस आर
58.	015184	श्री सुब्रमनियन टी आर
59.	015210	श्री रामा कृष्ण पी एस
60.	015346	श्री रामादास टी
61.	015714	श्री रंगामणि कोटी थथाचारी
62.	015772	श्री साई बाबू राव नंदूरी
63.	015804	श्री श्रीधरन डी आर
64.	016029	श्री निर्मल कुमार ए
65.	016148	श्री कृष्ण वी
66.	016439	श्री रघु जी
67.	016458	श्री विश्वनाथन वी
68.	016656	श्री बिपिनचन्द्रा जमनादास अंबानी
69.	018016	श्री आनंद राव सी
70.	018020	श्री श्रीमन नारायण चौधरी के
71.	018065	श्री झांवर एम एल
72.	018182	श्री शिवारामाकृष्णन एन
73.	018311	श्री शशिधरन नायर बी
74.	018366	श्री सुब्बा राव वी वी के
75.	018383	श्री श्रीनिवासन वी
76.	018435	श्री नित्यानंदन टी के
77.	018529	श्री सुधीर कुमार
78.	018550	श्री वेंकटा राव यू
79.	018564	श्री जयरामन पी एल ए
80.	018718	श्री सोमाशेखरन पी एस
81.	018778	श्री रघुनाथन आर
82.	018825	श्री जयाप्रकाश एम
83.	018905	श्री कृष्णा ए जी
84.	018959	श्री मोहन रेड्डी ए
85.	018981	श्री शेखर वी
86.	018985	श्री कुमार आर
87.	019033	श्री सुब्बा राव जी एस वी के
88.	019054	श्री जया कुमार आर
89.	019077	श्री राघवेन्द्र मईया यू
90.	019143	श्री गिरिजा शंकार जी
91.	019253	श्री पलानीस्वामी एम
92.	019255	श्री थनिगाराजु एस
93.	019497	श्री राजेन्द्रन सी डी
94.	019549	श्री राजशेखर के वी
95.	019582	श्री अजित कुमभट्ट

96.	019690	श्री रामामूर्ति सी
97.	019727	श्री वेंकटरत्न मेन्ता
98.	019746	श्री लोगानाथन आर
99.	019803	श्री राजाशेखरन ए एस
100.	019835	श्री सचिदानंदन टी वी
101.	019947	श्री रामानाथन आर
102.	019979	श्री कानन एस
103.	019984	श्री सैयद जलालुद्दीन
104.	020036	श्री नारायण नांबियार एन आर
105.	020047	श्री वैद्यनाथ एस
106.	020211	श्री बाबू नटराजन डी
107.	020236	श्री अलगिरीस्वामी एम
108.	020257	श्री गोपालकृष्णनमाचार्यरत्न जी
109.	020384	श्री नागेश के एस
110.	020433	श्री जयदेवा बी आर
111.	020447	श्री बालाकृष्णन के
112.	020518	श्री बालासुब्रमनियम आर
113.	020556	श्री विजयाराघवन वी के
114.	020567	श्री रामानाथन आर वी
115.	020704	श्री शरणम वेंकटा राव
116.	020715	श्री सेलवाराज एस
117.	020764	श्री श्रीवत्सन सी एस
118.	020768	श्री ललिथ कुमार एम
119.	020810	श्री अग्रवाल इंदर राज
120.	020817	श्री रामाकृष्णा वी
121.	020833	श्री सिंघवी पी सी
122.	020843	श्री बदरीनाथ वाई एस
123.	020852	श्री गौविंद गुरु आर
124.	020916	श्री सेल्वा कुमार एम के
125.	021030	श्री कुमार जी
126.	021056	श्री श्रीराम एस
127.	021149	श्री रविन्द्रनाथ रेड्डी पी
128.	021227	श्री सुंदरराजन वी
129.	021257	श्री राजा बी
130.	021349	श्री परमेश्वरन सी ए
131.	021355	श्री रामनन एस
132.	021362	श्री श्रीनिवासन आर
133.	021392	श्री शिवाशंकरा राव एस
134.	021410	श्री नागुर्जन आर
135.	021450	श्री धांडापानी टी जी
136.	021451	श्री बालाकुमार जी
137.	021496	श्री इतिचेरिया पी जोशुआ
138.	021505	श्री रामाचन्द्रन सी एन

139.	021542	श्री कृष्णन सास्थी
140.	021601	श्री वेंकट रमन डी
141.	021644	श्री शेशागिरी राव एम
142.	021721	श्री रमेश एस
143.	021737	श्री सीतारमय्या सी
144.	021758	सुश्री सुचरिता मैत्रा
145.	021825	श्री श्रीधर एस
146.	021878	श्री शशिकुमार सी पी
147.	021917	श्री एलबर्ट ए
148.	021970	श्री अलागा राजा टी वी
149.	022037	श्री रंगन एस वी
150.	022054	श्री मल्लिकार्जुन सी
151.	022085	श्री ललित नायक
152.	022153	श्री सतीश रमनाने
153.	022178	श्री सुदर्शन एम के
154.	022203	श्री पलानी अलगप्पन
155.	022209	श्री सुर्यनाराय बी एस एन
156.	022247	श्री जोसफ वर्गीस एम
157.	022319	श्री वेंकट वी एस
158.	022331	सुश्री सुगना कृष्णामूर्ति
159.	022365	सुश्री स्वर्णा एस वी
160.	022367	श्री गौतम पी
161.	022449	श्री सुब्रमनियम एम
162.	022512	श्री पदमनाभन एन
163.	022526	श्री रविन्द्रनाथ वी
164.	022538	श्री चन्द्रन टी
165.	022594	श्री श्रीनिवासन एस पी
166.	022644	श्री अनंत राव वी
167.	022689	सुश्री लता आर
168.	022695	श्री गुलाटी संजीव
169.	022747	श्री नरसिम्हन डब्ल्यू के
170.	022786	श्री दुर्गा शंकर एस
171.	022815	श्री पेट्रीक रोडरीगो जे ए
172.	022842	श्री वेंकटरमन मूर्ति वी
173.	022850	श्री प्रसाद पी वी एल एन
174.	022888	श्री गुप्ता चन्द्र शेखर बी
175.	023004	श्री मुरली एस
176.	023013	श्री रविन्द्रन एन
177.	023015	श्री पेटचियप्पन के
178.	023016	श्री भारत पी बी
179.	023018	श्री वेटरीवल एन
180.	023049	श्री मो. एहसादुद्दीन
181.	023079	श्री अनंता कृष्णा वर्मा एस

182.	023157	सुश्री लक्ष्मी विद्यासागर
183.	023175	श्री राजन पी बी
184.	023220	श्री वेंकटेशन आर
185.	023227	श्री एंथोनी जोसफ पी
186.	023274	श्री हरिकृष्णा राव के
187.	023284	श्री वर्धन वी
188.	023339	श्री अच्चिया एन डी बनाम लोकेश
189.	023350	श्री मल्लिकार्जुन बी वी
190.	023359	श्री दत्तात्रे
191.	023370	श्री राम प्रकाश
192.	023378	श्री पास्थासास्थी एस
193.	023380	श्री श्रीधर एन
194.	023416	श्री वेंकटरमन निवार्थी के
195.	023484	श्री चंद्र शेखर रेड्डी टी
196.	023539	श्री शिवा राम सी
197.	023553	श्री वेंकटेश्वर राव एम
198.	023582	श्री संजया सास्थी टी पी
199.	023585	श्री मोहिद्दीन खाजा बासा
200.	023594	श्री रेड्डी पी श्रीनिवासुलु
201.	023601	श्री बासिल मिरांडा
202.	023609	श्री रामाकृष्णन एस
203.	023620	श्री केशवन आर
204.	023658	सुश्री राजराजेश्वरी देवी ए
205.	023660	श्री राजा गोपालन एस
206.	023700	श्री गणेशन एन
207.	023765	श्री लक्ष्मी रतन एच
208.	023817	श्री मारीमुथु आर
209.	023868	श्री सेमसन सथ्यानाथन टी
210.	023908	श्री वेणुगोपाल बी
211.	023942	श्री वेंकटेश्वर राव टी
212.	023975	श्री राजशेखर वी
213.	023978	श्री श्रीवास्तव अजय
214.	024085	श्री रामासेशन एस
215.	024117	श्री मुरली आर
216.	024157	श्री अच्युता रामय्या के वी एन आर के
217.	024169	श्री चन्द्रा शेखर वी
218.	024277	श्री रामा मोहन के
219.	024299	श्री काशी रमन एस
220.	024300	श्री राघवन एम वी
221.	024356	श्री वैकुंठम टी एस
222.	024367	श्री गंगाधरन आर
223.	024460	श्री जयाराज चनप्पा हुबली
224.	024525	सुश्री सावित्री सुरेश

225.	024577	श्री नटराजन जी
226.	024583	श्री श्रीधर जी
227.	024627	श्री राजन के पी
228.	024746	श्री कुमार बी के
229.	024811	श्री लक्ष्मीनारायण वी आर
230.	024831	श्री विजयकुमार एन
231.	024834	श्री कुमारसामी टी के
232.	024870	श्री बालाभद्रापट्टरुनी लक्ष्मी नारायण
233.	025051	सुश्री भावनी हसन
234.	025070	श्री मीर हसन अली
235.	025075	श्री मेथिजागन वी
236.	025077	श्री कृष्णन एस
237.	025103	श्री नारायण राव डी एन
238.	025105	श्री रामाकृष्णन थम्पी एन
239.	025121	श्री सुरु रघुरामा
240.	025148	श्री जयारसन डी
241.	025149	श्री कृष्णमूर्ति टी
242.	025168	श्री बेनेट जी नजरथ
243.	025175	श्री वेमुरु वेंकटा कृष्णा प्रसाद
244.	025187	श्री वेंकटेश्वरा श्रीधर एल एन पी
245.	025195	श्री द्वारकानाथ एन
246.	025216	श्री रमेश गुप्ता एस
247.	025364	श्री विजया भास्कर राव पी
248.	025380	श्री पाउलपांडी जयसिंह एल
249.	025391	श्री पारथा सारथी जे
250.	025473	श्री स्वामीनाथन ए
251.	025485	श्री लक्ष्मी नारायण वाई
252.	025512	श्री सेलवम जे के
253.	025540	श्री जयरामन एम
254.	025573	श्री धनन्जय सी
255.	025696	श्री सुंदरम आर
256.	025743	श्री शशिकांत एन
257.	025769	श्री जयशंकर एस
258.	025786	श्री सुरेश सी
259.	025821	श्री सेतुसुमन एन
260.	025860	श्री शण्मुगम डी
261.	025882	श्री सुंदरामन एस वी
262.	025889	श्री भास्करेन्द्र राव आर
263.	025902	श्री गोपीनाथ रेड्डी वाई
264.	025920	श्री हरी किरन वी
265.	025986	श्री मुकुन्दन आर
266.	025997	श्री राजासुन्दर एस
267.	026007	श्री गिरीजन सी

268.	026017	श्री पुरुषोत्तम रथी एच
269.	026028	श्री विश्वनाथन एस
270.	026043	श्री श्रीधर एस
271.	026048	श्री यगाप्पा फिलोमिन राज टी
272.	026070	श्री मेथिजागन के
273.	026072	श्री ज्योति प्रकाश ए
274.	026176	श्री नारायण राघवन
275.	026180	श्री शशि के एस
276.	026249	श्री सतीश कुमार वी
277.	026259	श्री गोपाल जे
278.	026283	श्री श्रीधर राव पी
279.	026311	श्री रामबाबु बी
280.	026316	श्री रामालिंगम पी एम
281.	026338	श्री पदमप्रभा एन
282.	026349	श्री मदन मोहन कुप्पा
283.	026367	श्री प्रसाद एस
284.	026423	श्री चांको आई सी
285.	026474	श्री श्रीधर एस
286.	026499	श्री गुरुशरण वी
287.	026621	श्री रमेश पी
288.	026679	श्री मनोहर पी
289.	026774	श्री वेंकटा राघवन वी
290.	026776	श्री रियाज अहमद खान पी
291.	026790	श्री बालाजी एस
292.	026908	श्री रंगन वी
293.	026931	श्री श्रीनिवासन ए
294.	026965	श्री सत्या विश्वनाथन शास्त्री के
295.	027065	श्री श्रीराम पी वी
296.	027071	श्री कृष्णा वाई
297.	027072	श्री नागेश्वरा राव के
298.	027075	श्री सुरेश एन
299.	027082	श्री साई कृष्णन आर
300.	027095	श्री थॉमसन सैम
301.	027098	श्री अय्यर सुन्दर सुब्रमनियम
302.	027124	श्री श्रीकांत टी
303.	027158	श्री अजिजुल्ला सिदिकी एम
304.	027178	श्री गणेशन विश्वनाथन
305.	027179	श्री परमाशिवय्या एम सी
306.	027184	श्री वर्धाराजन आर
307.	027205	श्री वेंकटा रामनन वी एन
308.	027220	श्री रामादुरैई सी
309.	027272	श्री श्रीराम के वी
310.	027340	श्री रविशंकर टी

311.	027352	श्री पदमनाभन पी
312.	027401	श्री भास्कर वी वी
313.	027496	श्री दामोदर रेड्डी बी
314.	027537	श्री महेश रेड्डी आर
315.	027558	श्री पेरारेड्डी एम
316.	027602	श्री नागेन्द्र डी
317.	027695	श्री कृष्णा स्वामी के
318.	027754	श्री थियमपन्ना हेगड़े
319.	027757	श्री शिवाकुमार टी एस
320.	027796	श्री कृष्णा मोहन एल
321.	027924	श्री इयप्पन फिलिप
322.	027929	श्री विश्वनाथन एस
323.	027939	श्री रमेश बाबू एस वी
324.	027967	श्री सुब्रमन्या ए
325.	027983	श्री ब्रह्मय्या के
326.	027996	श्री बेन जेकब जी
327.	028001	श्री सुरेश के
328.	028042	श्री जेवियर ए एम
329.	028067	श्री नारायण वी रामानन
330.	028069	श्री थामस जार्ज पी
331.	028114	श्री श्रीकांत एन
332.	028119	श्री जयकुमार सी
333.	028127	श्री कृष्णा कुमार सीएच
334.	028166	श्री रामाकृष्णन एस
335.	028175	श्री सतीश एन आर
336.	028176	श्री वैकटेश्वरा राव एन
337.	028210	श्री गोपाकुमार के
338.	028215	श्री श्रीकांत ए
339.	028222	श्री एलेंगो एस
340.	028265	श्री वैकटेश्वरा राव वी
341.	028300	श्री रमेश एस
342.	028303	सुश्री भुवना स्वामीनाथन
343.	028329	सुश्री कृपागावल्ली एस
344.	028334	श्री वैकटारामन बी
345.	028347	श्री रामा शर्मा यामार्थी
346.	028369	श्री नटराजन एस
347.	028411	श्री. आनंद आर
348.	028422	श्री राजामन्नार एस
349.	028479	सुश्री गायत्री आर मालया
350.	028528	सुश्री सुधा राघवन
351.	028608	श्री अंतो एम पी
352.	028627	श्री रविकुमार जी राव
353.	028655	सुश्री चम्पकलता टी वी

354.	028673	श्री बासिल एंटोनी
355.	028706	श्री मनोहरन आर
356.	028796	श्री शायक मोलुली
357.	028834	श्री सत्या सूर्या श्रीनिवास वी
358.	028846	श्री बिन्दो एन
359.	028976	श्री धवला वैकटा सूर्या प्रकाश
360.	028990	श्री आनंदकुमार आर
361.	029017	श्री रविन्द्र नाथ आर
362.	029092	श्री प्रवीन शिर्नॉय के
363.	029128	श्री बालागोपाल सी एम
364.	029155	श्री कानन एस आर
365.	029185	श्री रामचन्द्रन एस
366.	029228	श्री अलवाला कोट्टी रेड्डी
367.	029326	श्री राथन कुमार
368.	029335	सुश्री माया एस
369.	029355	श्री शिवाराम कामथ वी
370.	029388	श्री अब्बावरम मोहन रेड्डी
371.	029419	श्री श्रीनिवासन जगन्नाथ
372.	029436	श्री सोन्दराराजन वी
373.	029438	सुश्री भारती शाह
374.	029479	श्री लक्ष्मी प्रसाद पी
375.	029489	श्री महेश एम
376.	029515	श्री चक्रधर वी
377.	029527	श्री वेन्नीमलाई आर
378.	029554	श्री वैकटा चन्द्रा गुप्ता ए
379.	029657	श्री नारायण राव सी
380.	029659	श्री सैमुअल राज जी
381.	029743	श्री हेमासुंदर एन
382.	029748	सुश्री सैयगीता एन
383.	029757	श्री मिल्टन जी
384.	029821	श्री माउज हसन एस
385.	029871	श्री रामानाथन आर
386.	029893	श्री मडाला गलिसवारा राव
387.	029897	श्री जयरामन वी
388.	029947	श्री मनी एस
389.	029952	सुश्री कोहिला आर
390.	029967	श्री कृष्णन वी
391.	029974	श्री राजागोपालन आर
392.	029977	श्री रविचन्द्रन के
393.	030251	श्री रामाचन्द्रन नतेसन
394.	030355	श्री थांडा कृष्णा राव गुप्ता गुडला
395.	030429	श्री मेहता धर्म चंद
396.	031462	श्री जैकब जी इबेनेजर विजय

397.	032044	श्री परमेश्वरन वी
398.	033412	श्री मोहन परमेश्वरन
399.	033879	श्री सुधारसनम सी आर
400.	034627	श्री विजयकुमार हरिवल्लभ शर्मा
401.	035911	श्री बोलर असित जयंत
402.	036508	श्री मनी जी सी एस
403.	037134	श्री रवि एस
404.	037349	श्री शिवाकुमार एम के
405.	037985	श्री नरसय्या मलमपति
406.	038668	श्री रविकुमार रामनन
407.	038695	सुश्री जयाश्री बालाकुमार
408.	039314	श्री भाटिया निपुन भुपेन्द्रनाथ
409.	039594	श्री देवेन्द्र प्रसाद अमेटा
410.	042615	श्री श्रीनिवासराघवन एस
411.	043431	श्री कृष्णा प्रसाद गाने
412.	043596	श्री लोकापुर संजय गुंडेराव
413.	043729	श्री लक्ष्मण सी
414.	043814	श्री आदिल बेहराम पटेल
415.	043880	श्री राजाराम वी वेंकटरमन
416.	044790	श्री गोपालकृष्णन ए वी
417.	044840	श्री विश्वनाथन टी वी
418.	044933	श्री वल्लुवन एम
419.	046523	श्री कृष्णन के वी
420.	046640	श्री राम कुमार के
421.	047115	श्री सुरेश कुमार राममूर्ति जांडलया
422.	047595	श्री वधवा बिपिन
423.	047840	सुश्री पारेख मोनिशा मदनमोहन
424.	047868	श्री सुरेन्द्रन एम
425.	047905	सुश्री माया भास्कर
426.	048055	श्री जैकब मणि कल्लुपुराकाल
427.	048501	श्री मिश्रा विनयकुमारवी
428.	048826	श्री पुरोहित लक्ष्मीनारायण कृष्णाचार्य
429.	048901	श्री दरीयाव सिंह राज पी
430.	050199	श्री संदीप कुमार
431.	050661	श्री तपन कुमार दास
432.	050967	श्री रामाचन्द्रन पी के
433.	051096	श्री मोर सुनील कुमार
434.	051963	श्री माधवन डब्ल्यू के
435.	052272	श्री सुब्रमनियन एस बी
436.	052545	श्री श्रीकृष्णन वी
437.	052850	श्री राजा दिलीप कुमार एन
438.	053408	श्री प्रदीप कुमार श्रेष्ठा
439.	053966	श्री हरी मेनन

440.	053991	श्री डे पलाष कुमार
441.	054082	श्री मित्रा सैबल
442.	054097	सुश्री अनिदिता सेन
443.	054585	श्री श्रीधर एन
444.	054895	श्री दुर्गावजुला शिवाजी
445.	055061	श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी
446.	055070	श्री कार्तिक जे
447.	055241	श्री हरिहरण आनंद
448.	055289	श्री रामाकृष्णन एस
449.	055717	श्री सज्जु के एस
450.	055738	श्री महेश्वरी अलोक
451.	056022	श्री नियोगी संदीप
452.	056225	श्री बिस्वास अरीजित
453.	056291	श्री हरुदानंद कौर
454.	056675	श्री चौधरी रवि कुमार
455.	056844	श्री गांधी संदीप
456.	056854	सुश्री चौधरी ममता
457.	056966	श्री रामाचन्द्रन वी
458.	057045	श्री जैन संजय कुमार
459.	057075	श्री पार्थ साखी नारायण
460.	057109	श्री दास सुमंता
461.	057113	श्री कृष्णन सदानंदन
462.	057218	श्री चक्रवर्ती राहुल
463.	057648	श्री पेद्रो टी प्रसन्ना कुमार
464.	057985	श्री प्रमोद बंधिया
465.	058119	श्री उदय प्रकाश
466.	058435	श्री पटनायक राजशेखर
467.	058835	सुश्री सुदेष्णा बंधोपाध्याय
468.	058879	श्री बीबुतरी सैनिक
469.	059475	सुश्री पोद्दार डोला
470.	059493	श्री विकास अग्रवाल
471.	060262	श्री रंगवाला मुर्तजा जुजेर
472.	060782	श्री खान मोहम्मद आसिफ
473.	060887	श्री डे सोविक
474.	061384	श्री भारद्वाज प्रवीन
475.	061407	श्री दोकनिया रामा कांत
476.	061836	श्री लोहिया कैलाश कुमार
477.	061895	सुश्री सोनु मुंद्रा
478.	062169	सुश्री राय चौधरी सराबंती
479.	062191	श्री दास अनामित्रा
480.	062319	श्री मेहरा कबीर
481.	062383	सुश्री खंडेलवाल श्रुति
482.	062505	सुश्री प्रीति शारदा

483.	062622	श्री साबु सौरव
484.	062788	सुश्री देवरा कविता
485.	063248	श्री अग्रवाल दामोदर प्रसाद
486.	063371	सीए. उमा शंकर कल्याणी
487.	063382	श्री जैन रितेश
488.	063644	सुश्री छाजेर स्मिता
489.	063688	श्री सिपानी बिकास कुमार
490.	063780	सुश्री यशोदा ए एन वी
491.	063885	श्री मोदी मनीष
492.	064056	श्री बागडी विशाल
493.	064062	श्री चटर्जी अमिताभ
494.	064672	श्री सौरभ जयसवाल
495.	065221	सीए. विनीत चतुर्वेदी
496.	065423	सीए. बिनित कुमार गुप्त
497.	065644	सीए. सुमित कुमार अग्रवाल
498.	065882	सीए. नुपुर अग्रवाल
499.	066066	श्री पीयूष शर्मा
500.	066401	सीए. संदीप मित्तल
501.	067072	सीए. आशा पी पिल्लै
502.	067347	सुश्री मंजरी सेनगुप्ता
503.	067379	श्री दीपांकर राय
504.	071502	श्री मेहता रमेश
505.	077312	श्री अग्रवाल विकास
506.	077888	श्री विवेक सक्सेना
507.	078326	श्री झावर अभिषेक
508.	078455	सुश्री यादव शालिनी
509.	078461	श्री अजय सिंह
510.	079648	श्री भोजवानी प्रमोद कुमार
511.	079780	श्री जैन मनीष
512.	079842	श्री मिश्रा सुयश
513.	080141	श्री सुब्रमनियम यू
514.	080143	श्री रघुनाथन के
515.	080771	श्री सुब्रमनियम जी
516.	082588	श्री रामामूर्ति एस
517.	083211	श्री मनोज जैन कुमार
518.	083602	श्री रामानी जे वी
519.	083622	श्री. गोंजालविस देव एंथोनी
520.	085296	श्री मलिकार्जुन के वी
521.	087239	श्री विश्वनाथन के
522.	088088	श्री वासुदेव आर
523.	088138	श्री रवि कुमार जी
524.	088845	श्री वैकटारमन एम एस
525.	088888	श्री शिवारामाकृष्णन सी आर

526.	088948	श्री कोशी पी जार्ज
527.	089156	श्री कनैडी रामु
528.	089233	श्री नारायणा राव चंथटी
529.	089239	श्री जोस मैथ्यु
530.	089408	श्री समीर शर्मा
531.	089549	श्री सोमशेखरा एस के
532.	089924	श्री राजीव दुआ
533.	090112	सुश्री गुलियानी सुमन
534.	091807	श्री बालाकृष्णा राव एस
535.	092190	श्री छलापति राव वी
536.	092198	श्री सबरवाल नमित
537.	093072	सुश्री संघ्या एस
538.	093256	श्री जोसफ जॉन
539.	095232	श्री नाथ शुभाशिष
540.	095351	श्री छिरीमर ललित किशोर
541.	095415	श्री त्रिपाठी प्रियाव्रत
542.	095829	श्री अग्रवाल कुंज बिहारी
543.	096182	श्री अग्रवाल हिमांशु
544.	097840	श्री पानीग्रही नरसिंह राजन
545.	097855	श्री मांगलिक अंकित
546.	098499	श्री गोपाल कृष्णा वी बी
547.	098856	श्री प्रत्युष
548.	098953	सुश्री रजनी वी रमन
549.	100605	श्री कुमार पी
550.	101162	सुश्री कश्मीरा कृष्णाकुमार जोबनपुत्रा
551.	101427	श्री गोगते श्रीधर श्रीकांतराव
552.	103009	श्री अंजाकुलथ अनिरुद्ध पंकजकसन
553.	103074	श्री अरुण कुमार जी आर
554.	103151	श्री नीरज कुमार जालान
555.	105173	सुश्री उमा कृष्णन
556.	106478	श्री धूत शरद श्यामसुंदर
557.	106551	सुश्री मोनिका जी शहादादपुरी
558.	106598	श्री गिरी वैकटारमानी
559.	106812	श्री नारायणन कृष्णन
560.	106822	श्री मेनन सुधीर
561.	106933	श्री अरुणा प्रसन्ना
562.	107679	सुश्री वृषाली नारायण भट्ट
563.	107937	सुश्री चितलंगिया शांति
564.	108772	श्री पवन कुमार अग्रवाल
565.	109436	सुश्री दीपा राधाकृष्णन मखीजा
566.	109561	श्री सिद्धार्थ शंभुनाथ नाग
567.	110166	सुश्री जयश्री एस लोकेश्वर
568.	110189	श्री राधाकृष्णन गोविन्दन

569.	112696	श्रीमती प्रिया मिथुन पुथरन
570.	112868	श्री हरिश उप्पली
571.	113905	श्री सुनील बजाज
572.	114647	सुश्री दिव्या सभापति
573.	115239	सुश्री अश्विन दिलीप कॉडिनया
574.	115603	सुश्री शीतल सतीश छाजेड
575.	116282	श्री तिवारी धीरज
576.	116287	श्री संजीत एच एम
577.	116571	श्री प्रांजल भगवान देशपांडे
578.	117089	श्री श्रीराम गोपालकृष्णन
579.	119279	श्रीमती दीपा दीपक लोहाना
580.	120068	श्री नवीन कुमार गाडिया
581.	120152	श्री रवि भट्ट
582.	120667	श्री दिवेश कुमार शर्मा
583.	121123	श्री इन्द्रजीत सिंह कृष्णा सिंह
584.	121840	श्री नवीद जैयुल खान
585.	123759	श्री आनंद विनायक जोशी
586.	125341	श्रीमती शाहिदा तब्बुसम मेहमुद राजा सोलंकी
587.	126491	श्री विशाल निरंजन भरुखा
588.	128721	सुश्री हरजीत कौर सलूजा
589.	129114	श्री विवेक अरुण मारने
590.	200001	श्री जोसफ जैकब
591.	200029	श्री कृष्णामूर्ति आर
592.	200065	श्री कुमार कृष्णन एस
593.	200110	सुश्री मालती नटराजन
594.	200130	श्री रामाचन्द्रन जी
595.	200166	श्री बालाजी आर एस
596.	200190	श्री शुभाकर पी आर
597.	200234	श्री आनंदा नायडु वी
598.	200294	श्री राजनारायन एस
599.	200298	श्री राजामनी एस
600.	200341	श्री गोपाला कृष्णा अदानकी
601.	200377	श्री जयकर सैमुअल
602.	200392	श्री सुब्रमनियम के
603.	200400	सुश्री अदुरै मिल्लर
604.	200401	श्री बालाजी जी वी
605.	200402	श्री प्रकाश राम लक्ष्मीनारायण
606.	200404	श्री भास्कर एल
607.	200408	श्री जितेन्द्र प्यारेलाल गांधी
608.	200440	श्री विश्वनाथन जी
609.	200499	श्री सत्यानारायणन पी वी
610.	200544	श्री नारायणन जी एस
611.	200582	श्री जार्ज चैरियन

612.	200603	श्री वेणुगोपाल एस
613.	200622	सुश्री राजेश्वरी एस
614.	200645	श्री श्रीधर नागाबंदी
615.	200698	श्री मादीवल्लपा
616.	200709	श्री नागेश बी
617.	200711	श्री वेंकटेश्वरल्लु के
618.	200722	श्री सेबेस्टियन मैथ्यु
619.	200723	श्री सैमुअल रेजी अब्राहम
620.	200748	श्री शिवा नागेश्वरा राव दोरादला
621.	200774	श्री रामा चंद्रदु वाई
622.	200802	श्री आनंद वेंकटेश्वरा अय्यर
623.	200804	श्री वेंकटरामन के
624.	200808	श्री बालासुब्रमनियन पी सी
625.	200823	श्री मधु मेनन के
626.	200837	श्री रमेश एन चेरी
627.	200844	श्री सैयद जिलानी
628.	200874	श्री शम्सुद्दीन ए
629.	200902	श्री पंडुरगानगराव बी
630.	200912	श्री सौरीराजन ए
631.	200933	श्रीश्रीनिवास जी
632.	200948	श्री कानन बी
633.	200956	श्री मूर्ति पी एस
634.	200966	श्री गुरुनाथन एस
635.	200994	श्री सुदर्शन एम सी
636.	201002	श्री प्रदीप आई आर
637.	201015	श्री देशपांडे बालाचंद्रा भीमराव
638.	201033	सुश्री अलामेलु एआर
639.	201044	श्री गोपालकृष्णन वी
640.	201115	श्री पाउली स्टेनली प्यापिल्लै
641.	201118	सुश्री सुधारानी एस
642.	201123	श्री सुमित्रा नंदन श्रीवत्सा के
643.	201127	सुश्री भारती एम वी
644.	201166	श्रीमती चेतना नीरवल
645.	201171	श्री बालाचंद्रा छाडगा पी आर
646.	201175	श्री सुंदरम के एस
647.	201178	श्री सुदर्शन एन
648.	201190	श्री अरविंद शिर्नॉय आई
649.	201217	श्री बहुलेयन एस
650.	201245	श्री सुंदरराजन जी
651.	201264	सुश्री लथा रमन
652.	201273	श्री टोमी मैथ्यु
653.	201482	श्री अब्राहम वी वारकी
654.	201507	श्री रमेश वी एस

655.	201556	श्री नारायणन के
656.	201557	श्री ओमप्रकाश के वी
657.	201572	श्री रामकुमार एस
658.	201625	सुश्री उषा विजयन
659.	201636	श्री संथली नाथन बाला सुब्रमनियम
660.	201645	श्री मोहना कृष्णन के
661.	201659	श्री मनी वर्गीस
662.	201702	सुश्री प्रभा दुरैराजन
663.	201783	श्री नरसिम्हन एस
664.	201807	श्री अब्दुल गफ्फार पी
665.	201867	श्री सुब्बा राव पी वी
666.	201868	श्री विजया कुमार आर
667.	201873	श्री साजे थामस
668.	201887	श्री चिदम्बर आर विश्वेश्वरन
669.	201960	श्री विन्सेंट के जी
670.	202009	श्री भोपाल एन
671.	202058	श्री गणपति भट्ट
672.	202066	सुश्री लीलावती राव ए
673.	202110	श्री श्रीनिवासरघवन आर
674.	202111	श्री शिबु अब्राहम
675.	202115	श्री रविचन्द्रन एल
676.	202154	श्री ओमप्रकाश एम एस
677.	202177	श्री श्रीधर एच
678.	202201	सुश्री धनलक्ष्मी
679.	202207	श्री रवि चन्द्रन आर
680.	202233	श्री जस्टिन राव पी
681.	202236	श्री पदमनाभन के
682.	202266	सुश्री कैलाशलेवी एम के
683.	202277	श्री सिद्धार्थन पी
684.	202304	श्री रूथुरुसामी आर
685.	202365	श्री कासा कोटी वैकटा श्रीकांत
686.	202435	श्री वैद्यनाथन आर
687.	202454	श्री प्रसन्ना एम वी
688.	202494	श्री सेलवा मनी वी
689.	202498	श्री रितेश पी
690.	202503	श्री जार्ज जोसफ
691.	202583	सुश्री जयश्री श्रीनिवासन
692.	202633	श्री नारायणा राव सीएच
693.	202699	श्री रविचन्द्रन वी
694.	202762	श्री प्रदीप सी
695.	202787	श्री किशोर कुमार के
696.	202816	श्री महालिंगम रामाकृष्णन
697.	202838	श्री रवि एस

698.	202857	श्री रागोथमन एस
699.	202866	श्री जयराम आर
700.	202875	श्री अशरफ अहमद शकीर
701.	202892	श्री मोहन राजागोपालन
702.	202928	श्री जलील वी पी
703.	202959	श्री रबी राज भट्टाचार्य
704.	203014	श्री रामसुंदर एस
705.	203037	श्री राजेन्द्रन एम पी
706.	203061	श्री वैकन्ना नल्लमिली
707.	203066	श्री शत्रुघ्न सरमा राचापुडी
708.	203067	श्री राजन एन
709.	203090	सुश्री अमूर्तवल्ली एस
710.	203132	श्री चंद्रा रेड्डी बी
711.	203147	श्री मोहम्मद सादिकी के एम
712.	203171	श्री सुब्रह्मनियम एम
713.	203221	श्री अब्राहम ए सी
714.	203258	श्री वैकटा रेड्डी सीएच
715.	203329	श्री सुब्रह्मनियम के
716.	203367	श्री विशालकशन पी
717.	203378	श्री आनंद राव टी वी
718.	203390	श्री बालाजी ए वी
719.	203404	श्री वैकटा ललिता प्रसाद केसीराज
720.	203450	श्री रविचन्द्रन टी
721.	203458	श्री अजीत पॉल
722.	203469	श्री रनजीत ए जी
723.	203479	श्री वैकटा रतनम देवजी सी
724.	203500	श्री वैकटा रमना आर
725.	203517	श्री लक्ष्मीनारायण आर
726.	203527	सुश्री सुदर्शन डी
727.	203531	श्री लंब घोज महात
728.	203546	श्री श्रीधर आर
729.	203564	श्री प्रशांत एम पी
730.	203596	श्री वैकटा रतना कुमार पी
731.	203617	श्री महेश एन
732.	203619	श्री श्रीनिवास मूर्ति बी एस
733.	203626	श्री श्रीनिवासन ए
734.	203676	श्री दीपक एस आर
735.	203680	श्री रामासुब्रह्मनियम जे
736.	203681	श्री देवनन्दा
737.	203711	श्री श्रीधर आर
738.	203733	श्री श्रीनिवास राव कोरुवा
739.	203751	श्री वावेल एल सिमोन्स
740.	203753	श्री राम कुमार भाटी

741.	203891	सुश्री शोभा रानी मांडवा
742.	203909	श्री अर्जुन अनंत
743.	203916	श्री महेश जी शिंदे
744.	203945	श्री वैकटेश्वरन एम पी
745.	203959	श्रीराधा कृष्णा कुमारगिरी वी बी
746.	204010	श्री वैकटा कृष्णन एस
747.	204016	श्री जगन्नाथ के एस
748.	204019	श्री संदीप खन्ना
749.	204023	श्री प्रमोद रमेश उदयवीर
750.	204042	सुश्री श्रीप्रिया आर
751.	204045	श्री लक्ष्मीनारायण आर
752.	204047	श्री थामस टी एम
753.	204069	श्री मारकण्डन टी वी
754.	204079	श्री वेणु पी
755.	204130	श्री शिवारामाकृष्णन सी एल
756.	204158	श्री अब्दुल हमीद ए
757.	204162	श्री बेनी थामस
758.	204164	श्री टोमी जोसफ
759.	204188	श्री पीटर कलेवर सलधाना
760.	204213	श्री माणिक्य प्रकाश बी
761.	204257	सुश्री उमा महेश्वरी ए
762.	204281	श्री वेणु माधवा के
763.	204377	श्री बालाजी आर
764.	204404	श्री श्रीनिवास राव सीएच
765.	204440	श्री श्रीराम टी
766.	204455	श्री राजशेखर बालासुब्रमनियम
767.	204456	श्री एकमबरम एम ई
768.	204460	श्री हरिहरन जी
769.	204477	श्री चंद्रमोहन एस
770.	204499	श्री बालाचन्द्रन एस
771.	204502	श्री विनोद मैथ्यु
772.	204527	सुश्री संध्या के
773.	204528	श्री रवि कुमार ढाबरा
774.	204548	श्री अनिल जोसफ
775.	204554	श्री शिवा रेड्डी वाई वी
776.	204597	श्री बेलागुर एच एच
777.	204630	श्री प्रवीन रंगनाथन एन
778.	204638	श्री गोविंदराजन वी जी
779.	204666	सुश्री गौरी जे चंद्र
780.	204694	सुश्री लक्ष्मी किरन स्वाथि डी
781.	204718	सुश्री आशा स्टेनली
782.	204741	श्री श्रीधर एस
783.	204798	सुश्री प्रभा रामादास

784.	204811	सुश्री लक्ष्मी रमेश
785.	204837	सुश्री नीरजा वी जे
786.	204839	श्री देवेन्द्र टी डी
787.	204856	श्री गणेश रमन अर्जुला जी
788.	204905	श्री सुंदरामूर्ति के
789.	204919	सुश्री जयंती एन
790.	204939	श्री महालिंगम एम
791.	204996	श्री हरि कुमार के जी
792.	205000	श्री बेनी पी एम
793.	205005	श्रीमती दीपा फिरोज
794.	205014	श्री श्रीनिवास राव वेडुला
795.	205069	श्री सुब्रह्मनियम पी एस
796.	205092	श्री शशिधर टी
797.	205111	श्री यादला मोहन रेड्डी
798.	205127	श्री थामस पी जार्ज
799.	205160	श्री गुरुनाथन आर
800.	205176	श्री नागेश्वरा राव कथामुरी
801.	205178	सुश्री हनदाथ बिचकथी मीरा शिनॉय
802.	205184	श्री तेन्नप्पन एम
803.	205247	श्री चिदंबरम आर
804.	205294	श्री रविकांत एम वी
805.	205308	श्री पुनाचा पी ए
806.	205331	श्री शाह नवाज टी
807.	205342	श्रीरवि श्रीनिवास प्रसाद
808.	205387	श्री शेख अब्दुल फरीद एस
809.	205422	श्री प्रशांत एम पी
810.	205485	श्री अनंतानारायण एस
811.	205488	श्री सुनील टी के
812.	205595	सुश्री कविता सुब्रह्मनियम
813.	205597	श्री राजेश खन्ना सी
814.	205672	श्री रामा मोहन एन ए
815.	205673	श्री वैकटा रमन के
816.	205720	श्री सालिक एम
817.	205739	श्री रामानाथन एल
818.	205759	श्री रामा कृष्णा बी वी
819.	205764	सुश्री पूर्णिमा साथी
820.	205840	श्री शेषाद्री एन
821.	205864	श्री संदीप देशपांडे
822.	205887	श्री वैकट रमन आर
823.	205905	श्री हरिनाथ रेड्डी ए
824.	205909	श्री वैकटासुब्रह्मनियम आर
825.	205918	श्री बालाजी आर
826.	205923	सुश्री हेमलता आर

827.	205924	श्री अनिस टी हैदरी
828.	205926	सुश्री अनु वीनू जॉन
829.	205933	श्री पदमाकुमार पी
830.	205978	श्री सुरेश आर
831.	205982	श्री राघवेन्द्र गुप्ता
832.	206015	श्री शिवाकुमार एम
833.	206041	श्री अरविन्द राव वी एन
834.	206070	श्री श्रीराम बी
835.	206090	श्री प्रसाद राव के वी डी
836.	206100	श्री श्रीनिवासन के टी
837.	206101	श्री राम एस प्रसाद
838.	206106	श्री हरिनदा रेड्डी वी
839.	206155	श्री रवि शंकर खंडारे
840.	206181	श्री राजीव फिलिप पी एन
841.	206192	सुश्री काला सुब्रह्मनियम
842.	206214	श्री बेंजामिन जान अब्राहम
843.	206228	श्री राजशेखर आर
844.	206231	सुश्री दीपा टी बी
845.	206237	सुश्री शर्मिला जी
846.	206249	श्री वेंकटेश पी ए
847.	206289	श्री श्रीनिवासन ए
848.	206293	सुश्री मरीना एंतोनी पिंटो
849.	206317	सुश्री जियोना एन जोश
850.	206324	श्री संजीव ए
851.	206356	सुश्री माधुरी एस
852.	206388	श्री ऐरिक सलवाडो मोरिस
853.	206395	श्री मधु प्रसाद बी वी
854.	206400	श्रीमती वसुंधरा जीवन गुजराती
855.	206410	श्री वेंकटरामन एस
856.	206435	श्री सौम्याजुलु डी वी एस एन
857.	206471	सुश्री शारदा यू
858.	206480	श्री वीरा नागा भास्करा राव चोलापुनेदी
859.	206511	सुश्री गीता एन
860.	206522	सुश्री सुमा के
861.	206552	श्री बदिया एस एस एन
862.	206560	श्री अनिल कुमार ओ एम
863.	206613	श्री. गणेश पी
864.	206623	श्री सैथिल कुमार आर
865.	206627	श्री कृष्णा पी एस एस
866.	206644	सुश्री हेमा एस
867.	206707	श्री सूर्याप्रकाश एस
868.	206726	श्री श्रीराम एस
869.	206737	सुश्री कविता क्रांति लक्ष्मी

870.	206758	श्री श्रीनिवासा आर
871.	206782	श्री प्रशांत कुमार एच आर
872.	206813	श्री विजयानंद श्रीनिवासरघवन
873.	206872	सुश्री मीरा शंकर
874.	206874	श्री मलिकार्जुन सेठी नेथी
875.	206956	सुश्री अश्वनी दिलीप आपटे
876.	206958	श्री सप्तर्षि आर
877.	206981	सुश्री सुमती एस
878.	207003	श्री श्रीनिवास राव डोपाला पुडी
879.	207042	सुश्री अरुणा पी
880.	207084	श्री हेमा प्रकाश रेड्डी के
881.	207111	श्री सत्यनारायण वी वी
882.	207112	श्री बारनीधरन बी
883.	207128	श्री श्रीराम श्रीनिवासन जे
884.	207147	श्री बिजोय जोसफ
885.	207158	श्री जामपानी अप्पाराव
886.	207250	श्रीराजेश आर
887.	207264	श्री गुणाशेखर
888.	207271	श्री श्रीनिवास रेड्डी पी
889.	207298	सुश्री यमुना जे
890.	207312	सुश्री जयश्री ओ के
891.	207319	श्री मार्टिन थामस पी
892.	207385	सुश्री शालिनी के एस
893.	207407	श्री शणमुगसुंदरम एन
894.	207409	श्री नागासुंदर पी
895.	207414	श्री कुमार जे एस
896.	207439	श्री रुपेश आर
897.	207467	सुश्री सीमा आर
898.	207479	सुश्री गोशला विजया
899.	207514	सुश्री शिल्पा जी गणात्रा
900.	207536	श्री रामा प्रसाद वी
901.	207562	श्री रोबिन रामाकृष्णा
902.	207575	श्री राजेश टी बी
903.	207583	श्री राम मनोज कुमार एसएस
904.	207623	श्री राघवेन्द्र एच
905.	207633	श्री सतीश के आर
906.	207634	श्री निखिल करण
907.	207652	श्री मारुति रघुराम जोनालागाडा
908.	207674	सुश्री मैथिली डी
909.	207771	सुश्री पदमजा चौधरी पी
910.	207775	श्री वर्धा चेरी एस
911.	207777	सुश्री फारुख अंजुम
912.	207778	श्री मुरलीधरन आर

913.	207788	श्री दिनेश कुमार ए के
914.	207790	सुश्री जयचित्रा आर
915.	207798	श्री टोमी जेम्स
916.	207849	श्री श्रीकांत जी
917.	207876	श्री तिरुमाला श्रीनिवास राव बालानागु
918.	207884	श्री नारायणन एस
919.	207888	श्री शिवारामाकृष्णन टी पी
920.	207902	सुश्री ममता सेतिया
921.	207909	श्रीमती सुमती गणेश
922.	207927	श्री शशिधर एन
923.	207963	श्री बालाजी आदिसेशन एस
924.	208049	श्री शिवाप्रिया एन
925.	208056	श्री सत्यानारायण मेढा
926.	208068	सुश्री ममता बाला
927.	208070	सुश्री प्रोदातुर श्रीलता
928.	208091	श्री श्रीधर जी
929.	208095	सुश्री माधवी बी
930.	208113	श्री रंगाविठ्ठल के
931.	208122	श्री देसाई जुल्फीकरहुसैन अब्दुलकरीम
932.	208151	श्री श्रीनिवास एम
933.	208153	श्री राजीव कौल
934.	208165	श्री नंदीशा पी एम
935.	208171	श्री रामवीरावन आर
936.	208191	सुश्री अरुणा एम
937.	208194	सुश्री राजेश्वरी बालाकुमार
938.	208195	सुश्री रुपा एन बुनियन
939.	208220	सुश्री बीनामा रेजी जोसफ मट्टम
940.	208254	श्री रामाकृष्णन वी
941.	208323	श्री बदरीनारायण एस
942.	208351	श्री मोहन आर
943.	208373	श्री बेलावेन्द्रिन वी
944.	208386	श्री शैलेश बाबु ओ वी
945.	208396	श्री पटनायक प्रशांत कुमार
946.	208437	श्री वीनु थामस
947.	208458	श्रीरामा कृष्णा डी
948.	208503	श्री मीनाक्षीसुंदरम वी
949.	208509	श्री रमेश एस
950.	208524	श्री सुधाकर रेड्डी डी
951.	208575	श्री राजा एम वी
952.	208592	श्री वैकटारमन कालीवारापु
953.	208628	श्री सोमनादन के
954.	208686	सुश्री राम्या जे
955.	208769	श्री कोथुरी रमेश

956.	208794	श्री सुधिंदरा जे
957.	208810	श्री कुमार जी
958.	208812	श्री धमेन्द्र आर
959.	208818	सुश्री विशाखा छावछरिया
960.	208825	श्री बीनु वर्गीस
961.	208869	सुश्री विनोदिनी मानीवनन
962.	208873	श्री हरि नारायणन जी
963.	208910	श्री अलपति एस पी प्रसाद
964.	208944	श्री पाई राजेश अनंत
965.	208963	श्री वैकटा नारायण याकांति
966.	208986	श्री पदमनाभ सी के
967.	209002	श्री निरंजन सतपति
968.	209034	श्री प्रशांत एन शाह
969.	209041	श्री रामाकांत पोन्नापल्ली
970.	209062	श्री शिवु सैमुअल एम
971.	209068	श्री कलप्पा के के
972.	209070	श्री सिमाचल मोहंती
973.	209167	श्री श्रवनन एस
974.	209172	श्री अश्विन शंकर
975.	209193	श्री बाबी कुरियन
976.	209204	श्री गणपति सुब्रह्मनियम वी
977.	209232	श्री विवेक श्रीवत्सन
978.	209244	श्री रवि शंकर प्रवेला
979.	209266	श्री लक्ष्मणन वी
980.	209270	श्री कुट्टी चन्द्रशेखर के
981.	209276	श्री वैकटेश्वरा प्रसाद बुलुशु
982.	209294	श्री रामानाथन एन वी
983.	209297	श्री वेणुगोपाल पी
984.	209312	श्री नवीन एस जति
985.	209321	श्री माता श्रीनिवास पेड्डा
986.	209330	श्री नटराज पी
987.	209332	श्री अकेला श्रीराम
988.	209342	श्री सुनील एगनेल जॉन सिकवीरा
989.	209399	श्री श्रीनिवासा राव चेवलम
990.	209401	श्री माइकल स्टीफन
991.	209403	सुश्री गीता चेल्लपा
992.	209425	सुश्री विनिता आर
993.	209454	श्री बालामुरगन आर
994.	209457	सुश्री श्री विद्या के वी
995.	209529	सुश्री शुभा बालाजी
996.	209542	सुश्री प्रीति जोसफ
997.	209588	श्री गोशला अनंता वैकटा रविकांत
998.	209594	श्री पेरुमहंती भुजंग प्रसाद

999.	209595	श्री जिनेश एन
1000.	209602	श्री रघुमन एस
1001.	209610	सुश्री आरती एन
1002.	209624	श्री राजेश आर
1003.	209650	श्री विष्णु वर्धन रेड्डी के
1004.	209652	सुश्री मुथु मागेश्वरी आर
1005.	209655	सुश्री माधवी वी
1006.	209675	सुश्री सीलु जोस
1007.	209692	श्री राघवेन्द्र एम
1008.	209706	श्री श्याम सुंदर के
1009.	209727	श्री प्रदीप ए
1010.	209753	श्री अशोक कुमार आर
1011.	209755	श्री सूर्यानारायण एस
1012.	209758	सुश्री दीपा सेतुमन
1013.	209774	श्री संजय कुमार राठौर
1014.	209811	सुश्री कविता नाहर
1015.	209850	श्री गिरी एम एस
1016.	209864	श्री गौरव गुप्ता
1017.	209868	श्री लसितानंदन सी
1018.	209878	श्री शानमुगासुन्दरम एस
1019.	209885	श्री सोनी अब्रहाम
1020.	209896	श्री कल्याण कृष्णन के
1021.	209898	श्री मोहम्मद अफजल खान
1022.	209935	श्री नारायणन आर
1023.	209947	श्री रत्नाकर शास्त्री डी
1024.	209952	श्री मुधुसूदन राव पुप्पाला
1025.	210073	श्री पालती राजा रंगा सुधीर
1026.	210079	श्री उषिली एस
1027.	210091	श्री मनदीप मल्होत्रा
1028.	210094	सुश्री नंदनी वी
1029.	210134	श्री सुब्रह्मनियन आर
1030.	210138	श्री सौनंदर राज सी
1031.	210139	सुश्री उमा शंकरी प्रकाश
1032.	210142	श्री ललित शर्मा
1033.	210145	श्री सुब्रह्मनियम वी
1034.	210169	सुश्री पवित्रा जी
1035.	210176	श्री संपत कुमार एस
1036.	210195	श्री श्रीपाल सेतिया
1037.	210260	श्री रक्षित एम वी
1038.	210266	श्री राजेश पी बी
1039.	210274	श्री बाबु पी
1040.	210306	श्री श्रीनिवास राव पोटनुरु
1041.	210346	श्री सुजीत कुमार एम

1042.	210365	श्री रवि चंद्रा जैन
1043.	210376	श्री श्रीधर मुक्का
1044.	210434	श्री आदर्श जलान
1045.	210462	श्री ईश्वरदास वी
1046.	210501	श्री वेंकटेश्वरा राव डी
1047.	210527	सुश्री लक्ष्मी प्रिया के आर एस
1048.	210595	सुश्री रिकी चक्रवर्ती
1049.	210609	श्री वेंकटेश्वरा राव डब्ल्यू डी
1050.	210639	श्री संपतकुमार पी
1051.	210652	श्री संदीप कुमार अग्रवाल
1052.	210686	श्री हरीश वी
1053.	210687	श्री मुरली कृष्णा जे एस
1054.	210708	श्री महेश जे पिल्लै
1055.	210734	श्री अश्विन पंचनदम के ए
1056.	210742	श्री श्रीराम एस
1057.	210753	श्री साईराम एस
1058.	210758	श्री किरन कुमार जी
1059.	210773	सुश्री नित्या प्रिया के
1060.	210782	श्री आचार्य निरंजन श्रीशा
1061.	210789	श्री वेंकट नाग साई सत्या विश्वन्दा कुच्ची
1062.	210807	श्री शशिकांत आर
1063.	210810	सुश्री प्रिया नरसिम्हन
1064.	210882	सुश्री अमोलिका आर फडके
1065.	210908	श्री उमेश बाबु जे
1066.	210947	सुश्री वीनाधरी सोमीसेट्टी एस
1067.	210950	श्री सुब्रह्मनियम के ई
1068.	210964	श्री वेंकटेश्वरा राव सुनकारा
1069.	211010	सुश्री काजल गुप्ता
1070.	211021	श्री प्रेम कुमार के
1071.	211025	श्री अनिल कुमार शारदा
1072.	211027	श्री नारायणन आर
1073.	211031	श्री सुदर्शन के
1074.	211037	श्री शिवाकुमार सी
1075.	211047	श्री अभिषेक जैन जी
1076.	211051	श्री श्रीनिवास वी
1077.	211065	श्री राघवेन्द्र कुमार एस
1078.	211066	श्री मधुसूदन राव जी
1079.	211097	श्री अंजीरेड्डी के
1080.	211104	सुश्री श्रीविद्या वी एस
1081.	211131	सुश्री श्रुति आर
1082.	211141	श्री गौतम अग्रवाल
1083.	211165	श्री करीम कमालुद्दीन रजनी
1084.	211169	श्री तुरलापति किरन कुमार

1085.	211179	श्री मोहनदास एस
1086.	211189	श्री रनजीथ बाबु पी
1087.	211195	सुश्री अनिता विट्ठल
1088.	211201	श्री विजयकृष्णा आर
1089.	211234	श्री वैकटेश्वरन एम
1090.	211235	श्री मधु गोगुला
1091.	211273	श्री जगन्नाथ प्रसाद आर
1092.	211303	सुश्री कविता एस
1093.	211307	श्री हबीब नजीर
1094.	211313	श्री सनत कुमार आर
1095.	211321	श्री विवेक धर्मा शंकरन आर
1096.	211353	श्री विकास पटवा
1097.	211354	श्री स्वामीनाथन के
1098.	211370	सुश्री सुजाता राजकुमार
1099.	211373	श्री संध्या सी
1100.	211380	श्री राघवेंद्र गुडुर
1101.	211382	सुश्री राधा श्री हरी राव वी
1102.	211401	श्री ज्योति स्वरूप एम
1103.	211431	श्री सुधीर आर
1104.	211437	श्री गोपाल रंजन पाधी
1105.	211443	श्री रामप्रसाद गट्टु
1106.	211459	श्री माइकल जोस
1107.	211462	श्री गोकुल तपडिया
1108.	211478	सुश्री निरुपमा मूर्ति
1109.	211512	श्री लक्ष्मी नरसिम्हन एल
1110.	211548	श्री रवि थाटावर्धी
1111.	211577	श्री किरन टी
1112.	211578	सुश्री निषिता नडेला
1113.	211618	श्री सुरेश कुमार कोमीरीशेट्टी
1114.	211630	श्री संजय कुमार झावर
1115.	211636	सुश्री स्मिता मोदी
1116.	211664	सुश्री कोमति के
1117.	211682	श्री कमेश आर
1118.	211683	श्री गंगाधरन वी
1119.	211743	श्री मोहम्मद असमाविल वाई एस
1120.	211761	सुश्री जैसी जोसफ
1121.	211768	श्री बश्यम ए एस
1122.	211769	श्री वैकटारमन के पी
1123.	211782	श्री खन्ना जे
1124.	211792	श्री राहुल ए शाह
1125.	211807	सुश्री राजेश्वरी के एम
1126.	211808	सुश्री कुर्तिका बी
1127.	211825	श्री विशाल एम शाह

1128.	211845	श्री होता मनोज कुमार
1129.	211852	श्री सरिता टी
1130.	211871	श्री रोहित नारायण काडनी
1131.	211874	श्री श्याम सुंदर एस
1132.	211876	सुश्री श्रीदेवी आर
1133.	211911	श्री बिकसम रेड्डी चिंता कुन्टला
1134.	211912	श्री श्रेयस एस
1135.	211971	श्री धर्मेन्द्रा पानी
1136.	211992	श्री सुरेश एस
1137.	212007	श्री विनय के स्वामी
1138.	212048	श्री सहजनंदा रेड्डी टी
1139.	212061	श्री सुमेश वी एस
1140.	212070	श्री लारेंस एस
1141.	212100	श्री अरुण मोहन
1142.	212101	श्री सतीश एम के
1143.	212111	सुश्री कुसुमदेवी आर एच
1144.	212153	श्री प्रमोद पालियात
1145.	212179	श्री आनंद के
1146.	212201	सुश्री उलगामई एम
1147.	212223	सुश्री मीनाक्षी आर
1148.	212267	सुश्री केलुर सुवर्णा शीदशमापा
1149.	212288	श्री विश्वनाथन सेन्थिल
1150.	212293	श्री जेम्स टी वी
1151.	212305	श्री चेतन धानुका
1152.	212318	श्री देवप्रसाद ए
1153.	212324	श्री अरविन्द्र एस
1154.	212352	सुश्री संध्या बी एस
1155.	212388	श्री गंगिया जी
1156.	212439	श्री गोकुल आर
1157.	212450	श्री कार्तिकेयन एस
1158.	212467	श्री पोयामोली वी
1159.	212479	श्री हरीश सी
1160.	212506	श्री सिद्धार्थ मोहन वी अनुमुकोंडा
1161.	212519	सुश्री अनुराधा आर
1162.	212522	श्री हरी बाबु कुनापानेनी
1163.	212524	श्री राजवीर सिंह
1164.	212528	श्री विजयाआनंद राव बी
1165.	212545	सुश्री ज्ञानप्रिया बी
1166.	212585	श्री वैकटा रमेश बाबु नुन्ना
1167.	212606	श्री बेंसी जोसफ
1168.	212611	श्री हरीश पुजारे
1169.	212616	श्री राज किरन अयागरी
1170.	212624	श्री अरुणागिरीनाथन एस

1171.	212648	श्रीजार्ज के मैथ्यु
1172.	212668	श्री मोहम्मद रफीक एस
1173.	212743	सुश्री लक्ष्मी जी ए
1174.	212751	श्री श्रीनिवास कल्याण चक्रवर्ती पुवाधा
1175.	212764	श्री श्रधेश एच दोसी
1176.	212772	सुश्री तृप्ती अग्रवाल
1177.	212789	श्री हरीश के एस
1178.	212809	सुश्री पद्माक्षी के वी
1179.	212819	श्री चन्द्रशेखरन एन
1180.	212854	श्री वासुदेव नाथन एल
1181.	212861	श्री पंडिया राजन आर
1182.	212863	श्री हुनागंड मलिकार्जुन पारप्पा
1183.	212896	श्री हरीश कुमार डी
1184.	212930	श्री राजेश आर के
1185.	212942	सुरी अनुष्का संजय कटारा
1186.	212977	श्री मुप्पाला श्रीधर
1187.	212986	सुश्री मधु कनकारिया एस
1188.	212988	सुश्री संगीता ए
1189.	212989	श्री विश्वनाथन वी
1190.	212991	श्री अकील ए कापडिया
1191.	212994	श्री राघवेन्द्र कुमार कोटला
1192.	212999	श्री कृष्णन वी
1193.	213009	श्री संतोष नायर आर
1194.	213022	सुश्री पुलवर्णी रुक्मणी देवी
1195.	213024	श्री समीर अहमद खान
1196.	213027	श्री रमेश गुंडा
1197.	213032	श्री मोहन कृष्णा जे एन वी
1198.	213040	श्री विशाल विज
1199.	213047	श्री संधानम टी आर
1200.	213052	श्री लालातेन्दु महाराणा
1201.	213054	श्री रंजक कुमार एस
1202.	213085	श्री उमा राघवेन्द्र राव एस
1203.	213087	सुश्री नंदनी तोशनिवाल
1204.	213121	श्री गुंतीरेड्डी रमेश चंद्रा
1205.	213143	श्री श्रीनिवास कुमार थातावर्णी
1206.	213165	श्री सुभाष कुमार टिबरेवाल
1207.	213175	सुश्री श्रीविद्या एस
1208.	213182	श्री वैकटेश के
1209.	213218	सुश्री गौरी विजय देव
1210.	213219	सुश्री ललिता एस
1211.	213250	श्री गोपानीथ मिश्रा
1212.	213254	सुश्री चित्रा एम
1213.	213267	सुश्री अंजना मैरी पेरुमल

1214.	213269	श्री विजय कौशिक पी आर
1215.	213292	श्री कौमुदी वैकटा सुधीर कुमार
1216.	213294	श्री देवकी लीला नागा श्रीनिवास
1217.	213301	श्री येल्ला रेड्डी ए
1218.	213311	श्री कालेपाली रविन्द्रा वर्मा
1219.	213315	सुश्री प्रतिभा बी
1220.	213324	सुश्री राजलक्ष्मी सी
1221.	213327	श्री नानी अरविन्द्र नालामुथु
1222.	213368	श्री राजेश शर्मा
1223.	213393	सुश्री अंजली प्रभु
1224.	213407	सुश्री सुधा एम एन
1225.	213415	सुश्री अनुपमा लक्ष्मी येनामन्ना
1226.	213432	श्री वैकटा रमना राव नीरेला
1227.	213433	श्री भट्ट संतोष शंकर
1228.	213450	श्री सुरेश के
1229.	213454	श्री अनुज जैन
1230.	213493	सुश्री फिरदौस केहकेशन
1231.	213581	श्री दिनेश कुमार एस
1232.	213585	श्री चन्द्रकांत पेडिया
1233.	213612	श्री जयाकृष्णा पी
1234.	213655	श्री मैथ्यु थामस
1235.	213665	श्री नरसिम्हा रेड्डी बी
1236.	213672	श्री सेबी जोस
1237.	213699	सुश्री मलिका जीवन
1238.	213721	श्री भास्कर कुमार बी
1239.	213729	श्री जेबी मैथ्यु जाचरिया
1240.	213739	श्री किशोर कुमार छालुवेदी
1241.	213750	सुश्री उमादेवी टी
1242.	213766	श्री विजया प्रताप मंडावा
1243.	213778	श्री हरिशंकर आर
1244.	213805	श्री प्रदीप कुमार गुंडेराव
1245.	213830	श्री श्रीधर अन्धावारापु
1246.	213845	श्री शिवाकुमार आर
1247.	213846	श्री विजय के आर
1248.	213857	सुश्री गायत्री एस
1249.	213902	श्री रंगनाथन आर
1250.	213909	श्री रंगनाथ के
1251.	213940	सुश्री सुचित्रा बनाला
1252.	213944	श्री त्रिलोक ललित रहेजा
1253.	213971	श्री दुश्यंत वी मेहता
1254.	213996	श्री विकास कोठारी
1255.	214000	श्री दारक गिरीधरगोपाल वेणुगोपाल
1256.	214003	श्री अनिलकुमार नकीरकांति

1257.	214019	श्री प्रसन्ना के
1258.	214025	सुश्री अनिता डी शिनाय
1259.	214028	सुश्री ममता ए पांड्या
1260.	214044	श्री सुधीर सत्यपाल एस
1261.	214059	सुश्री श्रीविद्या के
1262.	214072	श्री नागेश्वरा रेड्डी बोम्मावरम
1263.	214143	श्री विनोद आर
1264.	214148	श्री चैतन्य लिंगामालू वी आर के
1265.	214150	श्री सुधाकर के
1266.	214158	श्री रामा कृष्णा वी वी
1267.	214210	सुश्री राधिका बी
1268.	214225	श्री सुब्रमनिया पुराणिक बी एन
1269.	214387	सुश्री श्रद्धा अग्रवाल
1270.	214391	श्री कार्तिक भट्ट
1271.	214400	श्री रेबिन के पाल
1272.	214403	सुश्री आरती चेल्लामल एन
1273.	214441	श्री सुनील राव ए
1274.	214449	श्री रामा कृष्णा के
1275.	214475	श्री रामा कृष्णा बातिनेनी
1276.	214508	श्री कुलकर्णी संग्राम सुधीर
1277.	214511	श्री सैयद सिराज
1278.	214514	श्री गौरव आर सिंघवी
1279.	214564	श्री रेणी पी चेरियन
1280.	214583	श्री शिवलंका कल्याणराम
1281.	214584	सुश्री मीतू सुराना
1282.	214585	सुश्री अश्वनी एस
1283.	214588	श्री बंडारु रामबाबू
1284.	214624	श्री सौरभ अग्रवाल
1285.	214629	श्री राजेश जी
1286.	214646	श्री जौली के एस
1287.	214649	श्री रामा चंद्रा राव पी
1288.	214655	सुश्री देबांशि बाबू
1289.	214665	सुश्री कृष्णा प्रिया डी
1290.	214668	श्री सुरेश विमुला
1291.	214683	श्री उमा शंकर के
1292.	214698	श्री नारायण वेमुलुरी ए एल एल
1293.	214710	श्री जगन मोहन के जे
1294.	214712	श्री कमलेश सिंह
1295.	214719	श्री प्रेरणा सचदेव
1296.	214745	सुश्री रेखा आर
1297.	214754	श्री नजील ए
1298.	214762	श्री विष्णु कुमार शर्मा
1299.	214764	श्री रामप्रसाद टी ओ

1300.	214795	श्री सुरेश के
1301.	214849	श्री सतीश मांडवाली
1302.	214940	श्री दोमिती रतनाकर राव
1303.	214998	श्री रायकर विनय सुरेन्द्र
1304.	215000	सुश्री सुहासिनी रंगनाथन
1305.	215043	श्री दीपक जे एस
1306.	215055	श्रीमती संध्या वी पठांगे
1307.	215061	श्री सतीश सीएच वी वी जाडु
1308.	215070	सुश्री अनुशा आर
1309.	215071	श्री मुरली कृष्णया सी वी एम
1310.	215075	श्री श्रीनिवासा कुमार स्वरु
1311.	215077	श्री सेल्वाविनायगम पी
1312.	215086	श्री युगन्धर नेतयम
1313.	215092	सुश्री मीरा ए एस
1314.	215100	सुश्री लिशा जान
1315.	215110	श्री अनिल पोडेल
1316.	215124	श्री कस्तुरी रंगन बी
1317.	215187	श्री दीपक कुमार ए
1318.	215198	श्री हंस वर्गीस
1319.	215219	सुश्री रेखा के
1320.	215290	श्री उमेश हेगडे के
1321.	215299	श्री मैथ्यु अगस्तीन
1322.	215302	सुश्री नित्या नारायण
1323.	215334	श्री अराली विश्वनाथ चन्द्रकांत
1324.	215342	श्री मोहंती संतोष कुमार
1325.	215351	श्री श्रीवात्सा एस
1326.	215372	श्री देव दीप एम
1327.	215399	श्री रवि कुमार बेल्दी
1328.	215401	श्री वीनु ई जामी
1329.	215416	श्री उमा शंकर पेट्रो के
1330.	215454	श्री जौहर अली बेटरीवाला
1331.	215456	सुश्री रानी एस
1332.	215472	श्री अभय शंकर वी
1333.	215512	श्री सुरेन्द्र कुमार पोडेल
1334.	215522	सुश्री चित्रा के युराल
1335.	215593	श्री हरी कृष्णा देसु
1336.	215606	श्री सनिधी शिवा सुधीर
1337.	215607	श्री राघव चैरी टी
1338.	215614	श्री संतोष ए सी
1339.	215666	श्री सतीश पशुपुलेती
1340.	215682	सुश्री प्राप्ति जी
1341.	215745	सुश्री धन्य अजयकुमार
1342.	215765	श्री वैकटा सुरेश अप्पला

1343.	215768	श्री कृष्णामूर्ति शिबरिया
1344.	215779	श्री शेषाद्रि वी
1345.	215918	श्री श्रीराम पी एस
1346.	215942	सुश्री नित्या गोविंद
1347.	215969	सुश्री अश्वनी जे खटवाटे
1348.	215989	सुश्री छाया गोखले
1349.	216020	श्री बालामुरगन बी
1350.	216044	श्री सूर्यानायण मडाला
1351.	216050	श्री कपुगन्ती रमेश
1352.	216057	श्री रवि प्रकाश प्रातुरी
1353.	216070	श्री रामा नागा वारा प्रसाद राव पुली
1354.	216073	सुश्री कृष्णा प्रशांति के
1355.	216106	सुश्री सूर्या कुमारी वाई
1356.	216110	श्री आनंद राव
1357.	216129	श्री सत्यानारायण के वी एस एस एन पी
1358.	216143	सुश्री राजेश्वरी आर
1359.	216146	सुश्री अनुषा रघुनाथन
1360.	216151	श्री संजय माहेश्वरी
1361.	216158	श्री विशाल पी अग्रवाल
1362.	216162	श्री सुरज लमिचने
1363.	216227	श्री रमेश बाफना
1364.	216242	श्री अनु अब्राहम
1365.	216269	सुश्री महालक्ष्मी ए
1366.	216289	श्री श्रीनिवासु चेका
1367.	216304	श्री धर्मान्धु राउत
1368.	216366	श्री शिहाबुद्दीन थंगल सी ए
1369.	216367	सुश्री रेवती
1370.	216379	श्री वीराशेखरन पी
1371.	216382	श्री अमपुरन जे के
1372.	216387	सुश्री कल्पना टी
1373.	216400	श्री सुब्रह्मनियन के एस
1374.	216443	सुश्री नंदनी एम
1375.	216470	श्री पात्रो बेनुधर
1376.	216471	श्री विनय गुलाटी
1377.	216474	श्री शांतिलाल सी
1378.	216485	श्री थंगराज पी
1379.	216494	श्री शुभांकर दास
1380.	216509	श्री सुरेश गोपाल पाटिल
1381.	216515	सुश्री परवीना के आर
1382.	216599	श्री कार्तिक कोलुरी
1383.	216612	श्री उमेश बी जी
1384.	216633	श्री तारिणी प्रसाद पटनायक
1385.	216634	श्री सौरव राज थापलिया

1386.	216659	सुश्री माधवी लता रचापल्ली
1387.	216665	श्री श्याम प्रसाद ए
1388.	216668	श्री प्रभाकरन वी
1389.	216678	श्री रामाचन्द्र राव दुमला
1390.	216689	श्री रोहित मथन
1391.	216711	श्री जोबिन सेबेस्टियन एम
1392.	216750	श्री प्रमोद कुमार टी
1393.	216762	सुश्री सोनाली वेंकटेश
1394.	216767	श्री अमित अच्युत प्रभु
1395.	216779	श्री आदर्श के जी
1396.	216790	सुश्री शिरीन मैरी चेरियन
1397.	216798	श्री गुरुदत्त यू पाई
1398.	216818	श्री वेंकटा रमन डी
1399.	216846	श्री राघवेन्द्र राव पोगुला
1400.	216858	श्री प्रकाश आदिगा बी
1401.	216866	सुश्री मीनाक्षी एन
1402.	216900	श्री प्रियासामी एस
1403.	216942	श्री राजेश बी
1404.	216954	सुश्री सृजना शंकर पोलावारापु
1405.	217011	श्री राजेन्द्र प्रसाद तालुरी
1406.	217013	सुश्री अंजली एस राव
1407.	217025	सुश्री रंजनी आर
1408.	217028	सुश्री सरनया वी
1409.	217059	सुश्री चित्रा सी
1410.	217080	श्री कार्तिकेयन के
1411.	217114	श्री प्रेमकुमार एस
1412.	217195	सुश्री उमावल्ली एम
1413.	217220	श्री अनीश जार्ज
1414.	217236	श्री एजो कनोथ जोसफ
1415.	217241	श्री श्रीधर बाबु जी
1416.	217244	श्री श्रीरेश प्रकाश
1417.	217261	श्री सैथिल कुमार एस
1418.	217285	श्री संबथ कुमार ई एम
1419.	217295	श्री वंजीनाथन एम
1420.	217301	सुश्री भारती के
1421.	217305	सुश्री प्रियंका मनपुरिया
1422.	217313	सुश्री दीपा जीवन
1423.	217325	श्री गौरव गुप्ता आर
1424.	217368	श्री हशीर ई वी
1425.	217373	श्री वेंकटरमन जी
1426.	217404	श्री गणेशन एस
1427.	217407	सुश्री राधिका प्रागलापति
1428.	217450	श्री वाराणासी महेश्वर राव

1429.	217451	श्री तेजवीर सिंह
1430.	217456	श्री सतीश कुमार आर
1431.	217475	सुश्री सुकन्या नाथ
1432.	217480	श्री नागाप्पन एम
1433.	217487	सुश्री बिन्दुगायत्री वाई
1434.	217493	श्री मोहनकृष्णन टी
1435.	217494	श्री वैकटेश प्रभु
1436.	217542	श्री नवीन कुमार वादी
1437.	217555	सुश्री कृपा भटाड
1438.	217563	श्री रोशन पोखरियाल
1439.	217585	श्री सुब्बासायुदु सी
1440.	217588	सुश्री मानसी त्रिपाठी
1441.	217604	श्री मदन मोहन रेड्डी एस
1442.	217613	श्री वैकटा नेहरु कुमार टी
1443.	217622	सुश्री पायल कोठारी
1444.	217639	श्री अजीत कुमार धीर
1445.	217647	श्री अमित कुमार तातेर
1446.	217658	सुश्री अमनिक तलवार
1447.	217707	श्री जयकृष्णन जी
1448.	217780	श्री उदाय कुमार गाती एम
1449.	217825	सुश्री जैकलिन प्रीती वाई
1450.	217844	श्री राजेन्द्र कोइराला
1451.	217884	श्री सुधाकर डी
1452.	217903	श्री अभिषेक जैन
1453.	217905	श्री अहमद हाशिम
1454.	217918	श्री निषीत कुमार एम मेहता
1455.	217928	सुश्री रेणुका चन्द्र श्रीयन
1456.	217930	श्री सानिल चाको
1457.	217992	श्री गोपाल रेड्डी एस
1458.	218030	सुश्री प्रदीपा के
1459.	218051	श्री जार्जकुट्टी कोलाडी
1460.	218061	सुश्री अबिरमासुंदरी पी
1461.	218073	श्री श्रीनाथ भरतम
1462.	218173	सुश्री कृतिका के
1463.	218190	श्री भंडारी आनंद सेरमल
1464.	218204	श्री कुन्दुरु नरसिंह रेड्डी
1465.	218205	श्री प्रेम कुमार एल
1466.	218226	श्री जेनसिल फिल फिलिप
1467.	218244	श्री आनंद पानीकर एन
1468.	218265	श्री मुरली यान्दुरी
1469.	218272	श्री रमेश बाबु पल्लापाली
1470.	218285	श्री खालिद खान ए
1471.	218290	श्री रामबाबु वाराणसी

1472.	218303	श्री रमेश कुमार ए
1473.	218383	श्री मनाफ पी के
1474.	218424	श्री मनोज कुमार साहु
1475.	218466	श्री योगेश के जे
1476.	218474	श्री जीवन कुमार
1477.	218496	श्री सैयद विकारुद्दीन हुसैन
1478.	218501	श्री नागा राजु कुंदाकारला
1479.	218509	श्री विष्णु वर्धन रेड्डी आर
1480.	218537	श्री विनय एन एस
1481.	218540	श्री अब्दुल ख्याम शाइक
1482.	218546	श्री मैथ्यु पी एम
1483.	218556	श्री गणेश आर
1484.	218564	श्री ऋषि कोठारी
1485.	218640	सुश्री महालक्ष्मी पी
1486.	218662	श्री साजिद रिजवी एल एम
1487.	218672	सुश्री लक्ष्मी वी
1488.	218683	श्री श्रीवात्सन आर
1489.	218687	श्री लक्ष्मी नारायणन एस
1490.	218692	श्री अंजु जैन
1491.	218700	श्री प्रवीन कुमार जलान
1492.	218734	श्री अतालुरी वी फानी किशोर
1493.	218741	श्री दीपक अवतार गुप्ता
1494.	218759	श्री राघवन सी एन वी
1495.	218765	सुश्री श्री रश्मि
1496.	218784	श्री जनार्दन रामचन्द्रा हेबर
1497.	218796	श्री अरविन्द कुमार वी ए
1498.	218855	सुश्री अर्चना कोमनदुरु
1499.	218892	श्री जावेद परवेज
1500.	218935	श्री श्रीनिवासन एस
1501.	218965	श्री नवीन कुमार ए
1502.	218967	श्री नटराज शेखर थुनुगुन्दल
1503.	218976	श्री वर्गीस सी पी
1504.	219027	सुश्री जबीना बाबु
1505.	219033	श्री गुरु संधानम जी
1506.	219039	श्री कालेब श्रीरेश जैकब
1507.	219041	श्री वैकटा पवन कुमार मालेला
1508.	219045	श्री साई प्रवीन पी
1509.	219098	श्री रमेश ए
1510.	219108	श्री बैदिक सरकार
1511.	219118	श्री कोटेश्वरा राव एम
1512.	219134	सुश्री प्रीती मैरी जॉनसन
1513.	219144	श्री विजय कुमार बोयिना
1514.	219197	श्री बदरीनारायण एस

1515.	219203	सुश्री आसिफा बानु शेख
1516.	219206	श्री रामचन्द्रा रेड्डी के
1517.	219243	सुश्री रत्नावनी के
1518.	219246	सुश्री मधुचंदा एस चोगुला
1519.	219254	श्री प्रताप आर
1520.	219298	श्री तेनेती सुधाकर
1521.	219301	श्री ज्योतिर्लिंगम एस
1522.	219306	श्री पेडी रेड्डी टी
1523.	219317	श्री गोपाला रतनम आत्माकुरी
1524.	219354	श्री देवेला वीरा वेंकटा अप्पा राव
1525.	219358	श्री कनकादास एल
1526.	219405	श्री उग्रसेन मुदुली
1527.	219436	सुश्री सत्य प्रिया बी
1528.	219440	श्री सिद्धार्थ एस
1529.	219502	श्री अब्दुल कलीम बी एच
1530.	219552	श्री प्रदीप बी
1531.	219577	श्री वेंकटेश्वरा राव कोंडावेती
1532.	219585	श्री नीरज कुमार मादी
1533.	219595	श्री पवन के पी
1534.	219626	श्री नागराज चेशी पी
1535.	219627	श्री रवि एच एस
1536.	219635	श्री राजेन्द्र गाडे
1537.	219663	सुश्री दिव्या
1538.	219664	श्री श्रीधर कुडेली
1539.	219675	सुश्री नीनु सारा सिरियक
1540.	219676	श्री रोहित नायर आर
1541.	219701	श्री टेक नाथ आचार्य
1542.	219736	श्री लोकेश बच्चु
1543.	219779	सुश्री सुकन्या तमराकर
1544.	219814	श्री रामा प्रसाद जामी
1545.	219825	श्री कल्याण चक्रवर्ती के
1546.	219847	श्री कोलीपारा श्रीनिवास एन पी
1547.	219862	सुश्री अनु जोश
1548.	219869	श्री अनिल डिसुजा
1549.	219891	श्री अजित नरसिम्हन वी
1550.	219962	श्री प्रधान प्रिया दास
1551.	219992	श्री सुब्बा राव चिंता
1552.	219994	श्री श्रीनिवास राव पी
1553.	220010	श्री मुरली कृष्णा बोनागिरी
1554.	220025	सुश्री प्रतिभा लोहानी
1555.	220035	श्री मुकेश गुप्ता
1556.	220061	श्री विद्यानाथन जे
1557.	220071	श्री किशोर कुमार बी

1558.	220078	सुश्री अश्विन जे
1559.	220086	सुश्री लक्ष्मी वी एस
1560.	220132	श्री इलाह डॉंगरी
1561.	220149	श्री अशरफ अली मुसबा
1562.	220172	श्री सोमा शेखर गोलापुडी
1563.	220215	श्री प्रभु सी
1564.	220217	सुश्री सुधा रानी यासापतरुनी
1565.	220232	श्री आइनापुडी बाबी
1566.	220237	श्री विक्रम कौंदुरु
1567.	220255	श्री सिकन्दरसाद सीतारमन
1568.	220260	सुश्री अदिती अश्विन कोटनिस
1569.	220284	सुश्री रामादेवी खारिदु
1570.	220287	श्री प्रकाश राव एम वी एस
1571.	220313	श्री राजेशकुमार के
1572.	220342	श्री कमलेश के
1573.	220387	श्री मानव रामप्रसाद
1574.	220413	श्री शिरीश आनंद जी
1575.	220487	श्री अनिल कुमार अरे
1576.	220488	सुश्री विजया लक्ष्मी गुप्तेना
1577.	220492	श्री रामाकृष्णा रेड्डी बोरा
1578.	220518	श्री प्रिंस के अब्राहम
1579.	220535	श्री नवीन कुमार एम
1580.	220585	श्री मलिकार्जुन एम एस
1581.	220588	श्री सचिन सी
1582.	220618	श्री श्रीनिवासन वी आर
1583.	220633	श्री सुरेन्द्र कुमार के वी पी एस एन
1584.	220673	श्री कार्तिक कुमार के वी
1585.	220717	सुश्री विजयालक्ष्मी ए
1586.	220725	श्री महेश मनीचेकम के
1587.	220728	श्री शशिधरन टी
1588.	220729	सुश्री सोनु जैन
1589.	220755	श्री देश सव्यसाची
1590.	220801	श्री रंजन कुमार पति
1591.	220816	सुश्री पूनम साहु
1592.	220852	श्री वेंकटेश्वरा राव तोताकुरा
1593.	220865	श्री कृष्णा स्वरूप डी जी वी जी
1594.	220875	सुश्री उन्नामलाई एआर
1595.	220894	श्री कोला भास्कर राव
1596.	220904	श्री पारेख जिमी रजनीकांत
1597.	220911	सुश्री नीलम हरीकृष्णन शर्मा
1598.	220951	श्री राजागोपालन वी
1599.	220955	श्री भास्कर जी
1600.	220956	श्री रवि कुमार टी

1601.	220972	सुश्री सुजाता बी
1602.	220975	श्री नागेन्द्र जनप्पा रेड्डी वी
1603.	221011	श्री जान सैमुअल सी
1604.	221024	सुश्री रंजीता मुनागाला
1605.	221061	श्री उमेश
1606.	221073	सुश्री अलमित्रा जी रेगो
1607.	221084	सुश्री सौम्या आनंद
1608.	221088	सुश्री शुभा वी मेनन
1609.	221091	श्री वैकटेश्वरन एम
1610.	221095	श्री पोथी माधवन टी
1611.	221117	श्री रामु जामी
1612.	221127	श्री किरन कुमार कस्मशेट्टी
1613.	221132	श्री गुहन वी
1614.	221139	श्री मोह. हमीद अली
1615.	221153	श्री इपारी विकास
1616.	221182	सुश्री मैरी कविता कटकम
1617.	221188	सुश्री दीप्ति माथुर
1618.	221200	सुश्री मेघना टी हिंदोचा
1619.	221207	सुश्री एन जो मामपिल्लै
1620.	221237	श्री सेबेस्टियन फिलिप
1621.	221240	श्री अमर अब्राहम
1622.	221274	श्री थमय्या एम के
1623.	221290	श्री राजेश बाबु जयसवाल
1624.	221291	श्री अरविंदन डी
1625.	221293	श्री बोगावरापु रामा कृष्णा सुब्रमनियम
1626.	221304	श्री गोविंद राजु जे
1627.	221305	श्री सुधीरकुमार पी
1628.	221321	श्री रमेश रेड्डी अनाम
1629.	221338	श्री कृष्णा किशोर नामा
1630.	221342	सुश्री चन्द्रकला एच एच
1631.	221392	श्री लक्ष्मी पुरना चन्द्र राव चेल्ला
1632.	221394	श्री सुनील कुमार बिल्लापति
1633.	221431	श्री सौरभ नीलखा
1634.	221434	श्री वैकटारमना टी
1635.	221486	श्री कालीप्रसाद पतनाना
1636.	221523	श्री पराग किशोर हरवाडेकर
1637.	221544	श्री ललित मसकारा
1638.	221554	श्री मलादी कृष्णा मोहन
1639.	221615	श्री कुमुदा चन्द्रा महाराणा
1640.	221616	श्री एडरियन लसराडो
1641.	221626	श्री रजनीश आर
1642.	221660	श्री गोपालकृष्णन एस
1643.	221662	सुश्री जीना एलिजाबेथ जार्ज

1644.	221679	श्री सुनील दिगम्बर पंतवाने
1645.	221727	सुश्री शुजा नायर
1646.	221738	श्री दिनेश जे
1647.	221747	श्री किरन एन
1648.	221756	श्री शिवा कृष्णा आई वी एस एन
1649.	221762	श्री गुणाशेखर एन
1650.	221780	श्री नवीन कुमार पी
1651.	221793	श्री सुशील कुमार चितगोपकर
1652.	221806	सुश्री मीना नारायणन
1653.	221811	सुश्री शैलजा सी
1654.	221826	सुश्री शिवाकामी एस
1655.	221829	श्री सुरेश कमुर राघापुरी
1656.	221837	श्री नवल किशोर सासमल
1657.	221841	सुश्री मीना बाला देवी कुमारी वी
1658.	221887	श्री सासनापुरी गुरुनंदा राव
1659.	221894	श्री शिवा नागेश्वरा राव गुमदल्ली
1660.	221908	श्री रामा कृष्णा एम
1661.	221909	श्री सचिन्द्र देवन
1662.	221919	श्री योगेन्द्र तमन्ना
1663.	221922	श्री मनोहर बाबु अरवापल्ली
1664.	221927	श्री नागामल्लिकार्जुन पोटलुरी
1665.	221932	सुश्री प्रावल्लिका येन्दापुरी
1666.	221951	श्री रश्मिकांत स्वान
1667.	221971	सुश्री हीमा बिन्दु कंचरला
1668.	221972	श्री तिरुकुमारन वी
1669.	221981	सुश्री अरुणा बी
1670.	221983	सुश्री आशा विन्सेट
1671.	221985	श्रीविनोद एच एन
1672.	221997	श्री रोहित रवि
1673.	222004	श्री कार्तिक भट्ट
1674.	222015	श्री निरसिम्हाप्रसाद रमेश रेवानकर
1675.	222074	श्री राजेश बापत
1676.	222080	श्री वैकटा सुबा रेड्डी विका
1677.	222081	सुश्री दीप्ति प्रेतला
1678.	222120	श्री कृष्णामोहन एस वी
1679.	222155	श्री संदीप कुन्वम जे
1680.	222177	श्री दिनेश बाबु एस बी
1681.	222179	श्री विक्रम जोशी
1682.	222205	सुश्री पुर्णिमा पंथुला
1683.	222216	श्री सुरेश कुमार आर एम
1684.	222219	श्री पाटिल नरहरी लक्ष्मणराव
1685.	222226	श्री नसिम्हा मूर्ति के
1686.	222228	श्री प्रवीनकुमार डी एस एस

1687.	222257	श्री मधुकर कांत के
1688.	222273	सुश्री सुमन सुरी
1689.	222285	श्री वुचिडी बलराम
1690.	222290	श्री शिवाराम जी
1691.	222318	श्री सुरेश निमाला
1692.	222330	श्री मिधुन आनंद
1693.	222331	श्री सुरेश कानन पी
1694.	222335	सुश्री राम के
1695.	222338	श्री प्रसाद मामिलापल्ली
1696.	222381	श्री ललित लालवानी
1697.	222407	श्री रामभूपल रेड्डी एम
1698.	222428	सुश्री रीना मैरी जान
1699.	222432	श्री हर्ष वर्धन लोखटिया
1700.	222443	श्री जामी संतोष कुमार
1701.	222467	श्री सत्यम एस
1702.	222468	श्री मोहम्मद अब्दुल कादिर
1703.	222472	सुश्री हमसिनी अमृता एस
1704.	222503	श्री प्रधान नंदन कुमार
1705.	222525	सुश्री बरखा सिंह
1706.	222576	सुश्री सविता प्रमोद वी एम एस
1707.	222577	श्री अजीत कुमार के
1708.	222588	श्री सोनी जोसफ
1709.	222598	सुश्री वी एन एस कुमारी के
1710.	222605	सुरी प्रिया एम
1711.	222785	श्री राघवन जे
1712.	222788	श्री यतीश वी ए
1713.	400235	श्री शर्मा विवेक
1714.	400575	श्री जैन मुकेश कुमार
1715.	400899	श्री अरोरा जितेन्द्र
1716.	401038	श्री पांडेय रविन्द्र कुमार
1717.	401318	श्री जैन प्रफुल
1718.	401567	श्री नाथ कार्तिकेय वाई
1719.	401604	श्री माहेश्वरी शांडिल्य
1720.	401624	श्री अमित कुमार
1721.	402323	श्री गर्ग अभिषेक
1722.	402721	श्री परशुरामपुरिया सोमेश
1723.	403402	श्री प्रणव कुमार सी
1724.	403661	सुश्री गिनीता शाह

1725.	404003	श्री राज अभिषेक
1726.	404168	सुश्री जिंदल मनीषा
1727.	404244	श्री मोदी आकाश
1728.	404497	श्री जैन उमंग
1729.	404610	सुश्री गौरी सुनंदा
1730.	406244	श्री वैभव सुरेश जोशी
1731.	407153	सी.ए. विशाल विजय
1732.	407460	श्री मुकुल नरेन्द्र मोगरा
1733.	407556	सी.ए. अंगीमा गुप्ता
1734.	409390	सी.ए. कपिल कुमार गुप्ता
1735.	500051	श्री गुप्ता सत्या प्रकाश
1736.	500885	श्री गुप्ता दुष्यंत
1737.	501970	श्री राजीव कुमार
1738.	502037	श्री अग्रवाल मनोज कुमार
1739.	502045	श्री सराफ अभिषेक
1740.	502170	श्री जालान पंकज कुमार
1741.	503069	श्री माथुर हर्ष
1742.	503323	श्री पंजीता परविन्दर सिंह
1743.	503613	श्री थथोई अंशुमन
1744.	504211	सुश्री गुप्ता ज्योत्सना
1745.	505978	श्री सिंघला नीतिन
1746.	506513	श्री उत्तम कुमार धाकल
1747.	506887	श्री विवेक गुप्ता
1748.	507180	श्री खागेन्द्र भट्टारी
1749.	507712	सुश्री पद्मा गुरुंग
1750.	508410	श्री बिनीत कुमार
1751.	509360	श्री नीरज चौधरी
1752.	509587	श्री मयंक जैन
1753.	509719	श्री बिनु कोशी
1754.	509886	सुश्री स्मिता उमेशन
1755.	510026	सुश्री अश्वती पोडुवल
1756.	510527	श्री सतीश तिरुमला
1757.	511283	श्री मनीष कुमार गर्ग
1758.	511704	श्री प्रसून साहु
1759.	511864	श्री ज्योति प्रकाश आर
1760.	512337	श्री अल्वी सी पी
1761.	513863	श्री नरसिम्हा राजा कोलुकुलुरी ए

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3एससीए(4)/3/2009-2010 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों से सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	रद्द करने की तारीख
1.	001279	श्री सुन्देशन एस एस	12/05/2009
2.	001647	श्री जयरामन सी	05/11/2009
3.	001658	श्री रामचन्द्रा रमैया साईपे	23/07/2009
4.	002074	श्री दीक्षित वाचस्पति	15/10/2009
5.	002194	श्री नंदगोपाल एस	01/01/2009
6.	002456	श्री नरसिंहामूर्ति पीलुतला	26/02/2009
7.	002522	श्री लुकोस इराकुट्टु जोसफ	14/02/2010
8.	002606	श्री जगन्नाथ ए आर	18/09/2009
9.	002672	श्री वैकटरामन एम आर	06/01/2009
10.	002709	श्री वैकोबा रंगनाथनराव	12/07/2009
11.	002786	श्री रामना राव एम वी	05/11/2008
12.	002884	श्री खैरीवाल मोहनलाल	07/01/2010
13.	003351	श्री शिवासुब्रह्मनियन नारायणसामी	20/12/2009
14.	003473	डा. राजागोपालन आर	31/03/2009
15.	003810	श्री राजशेखरन एस आर	06/10/2008
16.	004009	श्री गायटोन्डे नारायण कृष्णा	11/12/2008
17.	004326	डा. पटनायक अप्पलानारायणसाया लायनिल	17/02/2009
18.	004610	श्री नरसिंहम के	30/05/2009
19.	004729	श्री वेद्यनाथन वी एस	03/04/2009
20.	005091	श्री कुलाथु के एल	21/01/2010
21.	005493	श्री थामस अब्राहम इदासेरिल	11/01/2009
22.	006231	श्री रामामूर्ति एस	03/10/2009
23.	006418	श्री रामास्वामी के वी	16/07/2009
24.	006537	श्री सांभाशिव राव एन	31/08/2009
25.	006902	श्री मोहम्मद सलीमुल्ला	17/07/2009
26.	006905	श्री सत्यनारायण यू	13/08/2008
27.	007302	श्री माथरुथम अय्यर बी	10/12/2009
28.	007694	श्री रामाकृष्णा राजथा टी आर के	14/07/2009
29.	007981	श्री जॉन एम मेमन	11/02/2010
30.	008006	श्री सौंदराराजन के	18/12/2009
31.	008290	श्री दत्ता टी एस	14/09/2009

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	रद्द करने की तारीख
32.	008924	श्री सेबस्टियन मैथ्यु वीडोन	06/03/2009
33.	009156	श्री रामा जोगा राव बी एम	22/02/2009
34.	009646	श्री चाको के एम	18/07/2009
35.	010314	श्री राजु वाई	07/04/2009
36.	010962	श्री कृष्णन एस	01/03/2010
37.	013917	श्री रामास्वामी एस	16/05/2009
38.	014336	श्री वैकटरामन वी	24/01/2009
39.	014411	श्री उमा शंकर आर	05/04/2009
40.	014883	श्री रंगराजन श्रीनिवास	01/08/2009
41.	018103	श्री राजा टी एल	10/10/2009
42.	018798	श्री राजन आर वी	26/02/2009
43.	018799	श्री नारायण नामपीथिरी वी	23/01/2010
44.	019277	श्री महाबालेश्वरप्पा आई	19/12/2009
45.	019292	श्री वैकटरंगन के एच	04/11/2009
46.	019472	श्री विजयशंकर एम आर	25/06/2009
47.	019557	श्री कामेश्वरा राव के	30/12/2009
48.	019605	श्री सत्यानारायण मूर्ति बी वी	23/10/2008
49.	019675	श्री हरी प्रसाद बुरले	13/07/2009
50.	019767	श्री नमाशिवयम वी पी	14/04/2009
51.	019849	श्री मिश्रा राघे श्याम	10/04/2009
52.	020008	श्री वेलूवली रामा राव	07/09/2009
53.	020106	श्री पार्था सारथी जी	19/10/2009
54.	020310	श्री शिवन्ना बी एस	16/05/2009
55.	020702	श्री संपत बी	22/06/2009
56.	020706	श्री दुर्गा परमेश्वरन आर	19/03/2007
57.	020871	श्री सुब्बा राव पेन्डेला वैकटा	29/10/2009
58.	020880	श्री रामन मूर्ति के वी	18/07/2009
59.	021413	श्री बालासुब्रमनियन एस वी	22/04/2009
60.	022244	श्री रामासुब्रमनियम एन	19/02/2009
61.	022376	श्री बालाकृष्णन एन	11/10/2009
62.	023537	श्री महादेवन बी	22/10/2009
63.	024370	श्री जॉन टी ओ	25/10/2009
64.	025506	श्री मार्शल डी एस	13/05/2009
65.	025827	श्री मालनीदी श्रीनिवासा राव	23/05/2008

66.	026378	श्री वेरनेकर एन एस	10/01/2009
67.	026518	श्री रमन एम	15/01/2008
68.	050294	श्री आशिम कुमार डे भौमिक	26/01/2009
69.	201742	श्री संतोष बी	27/03/2009

70.	209257	सुश्री रेणुका देवी आर	17/01/2009
71.	209509	श्री शेख अहमद भाषा	27/06/2009
72.	212704	श्री कृष्णन जी	02/04/2009
73.	216145	श्री गणेश एस	10/09/2009
74.	217200	श्री आइला सतीश कुमार	29/01/2010

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3एससीए (8)/1/2009-2010 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 10(i) के खंड (iii) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से रद्द किया जाता है क्योंकि वे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	रद्द करने की तारीख
1.	002679	श्री चेंगलवेरोयन एम टी एफसीएस	01/04/2009
2.	002938	श्री नटराजन जी एस एफसीएस	01/04/2009
3.	004896	श्री सत्यनारायणमूर्ति एन एफसीएस	01/04/2009
4.	005085	श्री रामासामी के एस एफसीएस	12/07/2008
5.	005969	श्री देवनाथन एम डी एसीएस	01/04/2009
6.	005993	श्री राघवचेरयुलु एम एसीएस	01/04/2009
7.	006230	श्री विश्वनाथन गोकुल एफसीएस	01/04/2008
8.	006352	श्री सुब्रमनियन के के एफसीएस	01/04/2009
9.	011642	श्री कृष्णामूर्ति जे एफसीएस	31/05/2009
10.	012417	श्री सुर्यशेखर महादेवन एसीएस	01/04/2009
11.	015531	श्री चन्द्राशेखर थोडला संतानम एसीएस	01/04/2009
12.	018068	श्री शक्तिवेल वी एफसीएस	18/10/2009
13.	018090	श्री अनंथरामन के आर एफसीएस	01/10/2009
14.	019220	श्री रघुवीर नायक पी एफसीएस	01/10/2009

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	रद्द करने की तारीख
15.	019480	श्री विजयकुमार एम एन एफसीएस	01/12/2009
16.	019882	श्री सुकुमार एस एफसीएस	18/02/2010
17.	020190	श्री अशोक के पी एफसीएस	28/01/2010
18.	020554	श्री हेमाकेश्वरप्पा एफसीएस	26/03/2009
19.	020710	श्री सुब्रमनियन वी एफसीएस	15/03/2010
20.	020884	श्री मुरलीकृष्णा सी एफसीएस	27/09/2009
21.	021248	श्री बाबू शंकर एस आर एफसीएस	23/06/2009
22.	022031	श्री श्रीधर आर एफसीएस	15/10/2009
23.	022311	श्री रमेश राजन एन एफसीएस	01/10/2009
24.	022873	श्री मोहम्मद अब्दुल सत्तार एफसीएस	01/04/2009
25.	022905	श्री बाला सुब्रमनिया शर्मा वी वी एफसीएस	01/05/2009
26.	023555	श्री नागराजन वी आर एफसीएस	21/08/2009
27.	024204	श्री शंकर रामाकृष्णन बी एसीएस	17/07/2009
28.	024801	श्री श्रीधरन वी वी एफसीएस	30/06/2009

29.	025240	श्री विद्यानाथन एल एस एफसीए	02/04/2008
30.	025869	सुश्री नीला मरीना गोंजालविस एसीए	10/10/2009
31.	026127	श्री पाल वर्गीस एफसीए	01/04/2009
32.	026546	श्री गुरुराजा राव डब्ल्यू एफसीए	22/09/2009
33.	026664	श्री प्रकाश एस जी एफसीए	02/04/2009
34.	026792	श्री सतीश कुमार दत्त एफसीए	12/09/2009
35.	026910	श्री साई राम बी वी एस एफसीए	01/02/2010
36.	027061	श्री हरा गोपाल टी एसीए	01/12/2009
37.	027304	श्री रेंगाराजन एम आर एफसीए	22/09/2009
38.	027670	श्री रंगनाथन सी के एसीए	18/03/2010
39.	028241	श्री राम प्रसाद डी एसीए	20/10/2009
40.	028384	श्री प्रभाकर बी एफसीए	01/04/2009
41.	028620	श्री वर्धाराजन डी के एफसीए	31/03/2009
42.	028738	श्री गिरीधरन डी के एफसीए	26/02/2010
43.	029001	श्री वीरप्पन एन एफसीए	08/02/2010
44.	029116	श्री बालासुन्दर एस एफसीए	01/10/2009
45.	048996	श्री गोरडिया हीतेन्द्र एसीए	27/08/2009
46.	049637	श्री जीतेन्द्र कुमार एसीए	31/12/2009
47.	059191	श्री नाग अंगशुमन एसीए	16/02/2010
48.	061031	श्री जयसवाल आनंद कुमार एफसीए	01/04/2009
49.	064725	सीए. दीपी गोयल एसीए	22/09/2008
50.	065674	सीए. निखिलाद्री मोहाराना एसीए	25/01/2010
51.	070270	श्री अभिनंदन कुमार पी एसीए	16/07/2009
52.	071328	श्री रामचन्द्रा एफसीए	30/01/2010
53.	085057	श्री शंकरनारायण आर एफसीए	01/04/2009
54.	088124	श्री अरुमुघा मोहन एलनकामोनी एफसीए	21/04/2008

55.	108543	सुश्री लक्ष्मी नारायण एफसीए	01/09/2008
56.	112350	सुश्री श्रुति सुधीरकुमार अग्रवाल एसीए	31/08/2009
57.	113988	सुश्री पुजा पुरुषोत्तम पपरुनिया एसीए	15/12/2009
58.	115664	सुश्री नृपति ओमप्रकाश धनवत एसीए	31/08/2009
59.	200406	श्री वैकटेश्वरा राव कोलुरी एफसीए	25/11/2009
60.	200479	श्री वैकटेश्वरन टी एस एफसीए	01/09/2009
61.	201456	सुश्री सुमती टी एफसीए	01/12/2009
62.	201543	श्री नारायण पी के एफसीए	11/09/2009
63.	202284	श्री वैकटरामन पी एन एसीए	27/10/2009
64.	203506	सुश्री मधुमती एल एफसीए	31/07/2009
65.	203711	श्री श्रीधर आर एफसीए	01/12/2009
66.	204076	श्री शिवा प्रसाद पुलवर्धी एसीए	01/02/2010
67.	204581	श्री श्रीराम एन एफसीए	14/09/2009
68.	204587	श्री श्रीनिवास राव एम एफसीए	01/04/2009
69.	204756	श्री नागनाथन श्रीकांत एफसीए	27/04/2009
70.	204972	श्री राव एस एस एफसीए	31/10/2009
71.	205394	श्री सुनील कुमार अप्पाजी एफसीए	01/05/2009
72.	205577	श्री जगन्नाथा नायडू पी एसीए	10/03/2010
73.	206518	सुश्री प्रभा बी एफसीए	29/12/2009
74.	207027	श्री अकुला वैकटा सुधाकर एफसीए	01/04/2009
75.	207178	सुश्री शारदा प्रसन्ना एस एसीए	03/12/2009
76.	207653	श्री हरीहरण एस एसीए	01/04/2009
77.	208211	श्री वैकटेश्वरन पी एसीए	01/04/2009
78.	208522	श्री प्रशांत के वी एसीए	12/12/2009
79.	208556	श्री नारायण मूर्ति शंका एफसीए	01/12/2009
80.	208577	श्री वीरापाननि मुरली कृष्णा एसीए	01/04/2009

81.	208765	श्री बालाकृष्णन पेड्डी एफसीए	04/02/2010
82.	208777	श्री वैकटरामन एल एफसीए	19/01/2010
83.	208975	श्री रमेश भट्ट के एफसीए	01/03/2009
84.	209217	श्री शिव शंकरा प्रसाद रामीनी एफसीए	01/05/2009
85.	209292	श्री सुरेश वी बी एफसीए	11/11/2009
86.	209374	श्री लोगनाथन एन एसीए	10/09/2009
87.	209491	सुश्री नित्या पी एसीए	01/04/2009
88.	209581	श्री जोय पी पी एसीए	21/01/2010
89.	209841	सुश्री श्रेष्ठा एसीए	24/06/2009
90.	210450	श्री शकराय लांबाडे ईरिशी राव एसीए	31/12/2009
91.	211199	श्री अब्राहम कुरेन एफसीए	31/03/2009
92.	211387	श्री चन्द्रा मोली जी एल एन एसीए	01/12/2009
93.	211413	श्री मियप्पन एफसीए	18/07/2008
94.	211581	श्री वैकटा श्रीनिवास राव के एसीए	09/07/2009
95.	211947	श्री मतलाकुंटा श्याम एसीए	01/12/2009
96.	212242	श्री बद्रीनारायण एस एफसीए	26/03/2010
97.	212485	सुश्री स्वप्नादेवी मांडवा एसीए	01/09/2009
98.	212492	श्री रंगप्पा एस एफसीए	11/09/2009
99.	212581	सुश्री संध्या जी एसीए	17/09/2009
100.	212989	श्री विश्वनाथन वी एसीए	19/10/2009
101.	213338	श्री सुन्दर एन एफसीए	07/09/2009
102.	213639	श्री परशुराम एन एसीए	18/03/2009
103.	213783	श्री नागेश हेगड़े एस एफसीए	31/10/2009
104.	214196	सुश्री उमा देवी पी यू एसीए	30/06/2009
105.	214227	श्री बालासुब्रमनियन एस एफसीए	17/07/2009
106.	214323	सुश्री दीप्ति एम एसीए	06/07/2009
107.	214335	श्री गुरुसुन्दर जी एफसीए	20/10/2009

108.	214422	श्री जोशी मैनुअल एफसीए	20/03/2010
109.	214527	श्री सुधाकर जी एसीए	31/03/2009
110.	214549	श्री श्रीनिवासुलु पाला एसीए	21/07/2009
111.	215136	श्री संतोष कुमार जैन पी एसीए	26/03/2010
112.	215263	श्री बाराणीधरन एस एफसीए	31/08/2009
113.	215368	सुश्री लक्ष्मी के एसीए	21/12/2009
114.	216175	श्री अरुण आनंद एसीए	24/08/2009
115.	216617	श्री चन्दन आंचलिया ए एसीए	01/03/2010
116.	216981	श्री कामेश्वरा शर्मा टी एसीए	10/07/2009
117.	217104	श्री श्रीनिवास वी एसीए	10/01/2010
118.	217213	श्री सतीश कुमार मालवी एसीए	12/08/2009
119.	217250	श्री किरन कुमार वाई एसीए	10/08/2009
120.	217425	श्री संदेश मुलालडाका एसीए	10/03/2010
121.	217746	श्री गुहेशन टी एसीए	31/03/2009
122.	217853	श्री साई प्रसाद ए एसीए	11/11/2009
123.	218039	श्री वीरभाथीरन आर एसीए	01/04/2008
124.	218066	श्री शिवा कुमार जे एसीए	01/04/2009
125.	218276	सुश्री थेरेसा डी एसीए	01/04/2009
126.	218407	श्री राजगोपालन बी एसीए	18/11/2009
127.	218445	श्री सतीश कुमार बी एसीए	02/12/2009
128.	218911	श्री महेन्द्र एम एसीए	20/01/2009
129.	219135	सुश्री ममता पुलागम एसीए	31/12/2009
130.	219149	श्री रामा कृष्णा यू एसीए	29/04/2009
131.	219419	श्री राकेश कुमार अथोता एसीए	31/03/2009
132.	219423	श्री मंजूनाथ टुंगा पी एसीए	12/05/2009
133.	219974	श्री दामोदर जानु एसीए	01/04/2009
134.	220196	श्री वैकटा राव रविपति एसीए	05/12/2009

135.	220529	श्री भारद्वाज डी एसीए	01/03/2010
136.	220609	श्री बिनोज के एस एसीए	31/03/2009
137.	220722	श्री जैनिक बी पांड्या एसीए	01/04/2009
138.	220774	श्री बासवाराज कांथप्पा बालेजर एसीए	22/02/2010
139.	220837	श्री शिवा कुमार एच एसीए	28/05/2009
140.	221128	सुश्री उषा एस एसीए	01/06/2009
141.	221151	श्री सतीश कुमार वी एसीए	01/10/2009
142.	221175	सुश्री गायत्री पी सीएच एसीए	26/06/2009
143.	221242	श्री लोहीत बी एन एसीए	27/08/2009
144.	221341	श्री कानन एम एसीए	09/02/2010
145.	221366	सुश्री चेतन्या कीर्ति एम एसीए	10/11/2009
146.	221476	श्री निम्बालकर नीतिन रमेश एसीए	24/03/2009
147.	221595	श्री शंकर बी एन एसीए	01/04/2009
148.	221896	श्री संतोष कुमार पी एसीए	01/04/2009
149.	222017	श्री श्याम एस आर एसीए	25/02/2009
150.	222172	सुश्री ममता पांडा एसीए	01/01/2010
151.	222311	श्री हरीश एम बी एसीए	19/01/2010
152.	222427	श्री वैकटा रामन ओभिनी एसीए	01/03/2010
153.	222663	श्री संदीप एन एस एसीए	21/10/2009
154.	222716	श्री राजा मोहन वी एस एसीए	25/07/2009
155.	222742	श्री कोटा कृष्णा कांत एसीए	21/08/2009

156.	222859	श्री विश्वास एन प्रभु एसीए	10/10/2009
157.	223093	सुश्री अंबिका एस यू एसीए	22/03/2010
158.	223218	श्री कालाधर राव मडाली एसीए	20/10/2009
159.	223277	श्री सुधीर जैन एसीए	15/12/2009
160.	223331	श्री गोधम भारद्वाज वी एसीए	01/11/2009
161.	223335	सुश्री पुजारी संगीता पुन्डालीक्षा एसीए	10/03/2010
162.	223391	श्री विनोदकुमार आर एसीए	30/12/2009
163.	223402	श्री पवन कुमार पाचीपुलुसु एसीए	28/10/2009
164.	223423	सुश्री सुवासिनी अशोक एसीए	20/11/2009
165.	223433	श्री धरनी विजय कृष्णा एसीए	19/11/2009
166.	223465	श्री कुलकर्णी श्रीनिवास बाबुराव एसीए	03/11/2009
167.	223486	श्री महेश शशिकांत मोरे एसीए	09/01/2010
168.	223644	श्री अतीक अहमद एसीए	27/02/2010
169.	223940	श्री मुनीर अहमद एन एसीए	15/02/2010
170.	224244	श्री आशीष के दोषी एसीए	09/03/2010
171.	409489	सीए. प्रोबल चटर्जी एसीए	30/09/2009
172.	500489	श्री महीपाल विनय कुमार एफसीए	01/04/2009

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3एससीए(8)/2/2009-2010 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 10(2) के साथ पठित विनियम 10(1) के खंड (iv) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जाबू व्यवसाय प्रमाणपत्र को तारीख 1 अक्टूबर, 2009 से रद्द किया जाता है क्योंकि उन्होंने व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक फीस का संदाय नहीं किया है।

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम
1.	002948	श्री गोपीनाथन एन, एफसीए
2.	004576	श्री गांगुली रामेन्द्र चन्द्रा, एफसीए
3.	009240	श्री सीतारामन एम एन, एफसीए
4.	009660	श्री सीतारामन जे, एफसीए
5.	011452	श्री वैयथिस्वर्ण बी आर, एफसीए
6.	011753	श्री सुदर्शन टी के, एसीए
7.	012481	श्री मुरलीकृष्ण वैदादी, एफसीए
8.	013261	श्री शिरीन सी वी, एफसीए
9.	013292	श्री सतीश चन्द्रा खेमचंद के, एफसीए
10.	014425	श्री शंकरन एन पी, एसीए
11.	014799	श्री रामाकृष्णा अनंतनारायण, एफसीए
12.	015038	श्री गोपालकृष्णन एस आर, एसीए
13.	015210	श्री रामा कृष्णन पी एस, एसीए
14.	015772	श्री साई बाबू राव नंदूरी, एफसीए
15.	018311	श्री शशिधरन नायर बी, एसीए
16.	018564	श्री जयारमन पी एल ए, एफसीए
17.	018905	श्री कृष्णा ए जी, एफसीए
18.	019143	श्री गिरजा शंकर जी, एफसीए
19.	019497	श्री राजेन्द्रन सी डी, एफसीए
20.	019727	श्री वेंकटेश्वरलु मेंता, एफसीए
21.	019835	श्री सच्चिदानंदन टी वी, एसीए
22.	019984	श्री सैयद जलालुद्दीन, एसीए
23.	020211	श्री बाबु नटराजन डी, एसीए
24.	020768	श्री ललित कुमार एम, एफसीए
25.	021737	श्री सीतारमय्या सी, एफसीए
26.	022037	श्री रंगन एस वी, एफसीए

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम
27.	022331	सुश्री सुगना कृष्णामूर्ति, एफसीए
28.	022594	श्री श्रीनिवासन एस पी, एसीए
29.	022644	श्री अनंत राव वी, एफसीए
30.	023350	श्री मल्लिकार्जुन बी वी, एफसीए
31.	023416	श्री वेंकटरामन निवार्थी के, एफसीए
32.	023609	श्री रामाकृष्णन एस, एफसीए
33.	024525	सुश्री सावित्री सुरेश, एसीए
34.	024583	श्री श्रीधर जी, एसीए
35.	025148	श्री जयरामन डी, एसीए
36.	025195	श्री द्वारकानाथ एन, एफसीए
37.	025473	श्री स्वामीनाथन ए, एफसीए
38.	025485	श्री लक्ष्मी नारासम्पा वाई, एसीए
39.	025573	श्री धनंजय सी, एफसीए
40.	025860	श्री शण्मुगम डी, एफसीए
41.	026679	श्री मनोहर पी, एसीए
42.	027184	श्री वर्धाराजन आर, एफसीए
43.	027602	श्री नागेन्द्र डी, एफसीए
44.	027924	श्री इअप्पन फिलीप, एफसीए
45.	027996	श्री बेन जैकब जी, एसीए
46.	028042	श्री जैदियर ए एम, एसीए
47.	028627	श्री रविकुमार जी राव, एसीए
48.	028846	श्री बिनोद एन, एसीए
49.	029748	सुश्री साईगीता एन, एसीए
50.	047840	सुश्री पारिख मोनिशा मदनमोहन, एसीए
51.	047868	श्री सुरेन्द्रन एम, एसीए
52.	051096	श्री मोर सुनील कुमार, एफसीए

53.	057985	श्री प्रमोद बंधिया, एफसीए
54.	061895	सुश्री सोनू मुंद्रा, एसीए
55.	088138	श्री रवि कुमार जी, एसीए
56.	088948	श्री कोशी पी जार्ज, एसीए
57.	095415	श्री त्रिपाठी प्रियव्रत एसीए
58.	095829	श्री अग्रवाल कुंज बिहारी, एफसीए
59.	116571	श्री प्रांजल भगवान देशपांडे, एसीए
60.	200110	सुश्री मालती नटराजन, एसीए
61.	200400	सुश्री ओढ़े मिलर, एफसीए
62.	200499	श्री सत्यानारायणन पी वी, एफसीए
63.	200808	श्री बालासुब्रह्मनियन पी सी, एफसीए
64.	200948	श्री कानन बी, एसीए
65.	201002	श्री प्रदीप आई आर, एसीए
66.	201702	सुश्री प्रभा दुरैईराजन, एसीए
67.	201867	श्री सुब्बा राव पी वी, एसीए
68.	202009	श्री भोपाल एन, एसीए
69.	202154	श्री ओमप्रकाश एम एस, एसीए
70.	202583	सुश्री जयाश्री श्रीनिवासन, एफसीए
71.	202633	श्री नारायण राव सीएच, एसीए
72.	202816	श्री महालिंगम रामाकृष्णन, एफसीए
73.	203147	श्री मोहम्मद सिद्दिकी के एम, एसीए
74.	203221	श्री अब्राहम ए सी, एसीए
75.	203527	सुश्री सुदर्शना डी, एफसीए
76.	203546	श्री सुधीर आर, एसीए
77.	203619	श्री श्रीनिवास मूर्ति बी एस, एसीए
78.	203753	श्री राम कुमार भाटी, एसीए
79.	204042	सुश्री श्रिया आर, एसीए
80.	204404	श्री श्रीवास राव सीएच, एसीए
81.	204460	श्री हरिहरन जी, एफसीए
82.	204499	श्री बालाचन्द्रन एस, एसीए
83.	204741	श्री श्रीधर एस, एफसीए
84.	204811	सुश्री लक्ष्मी रमेश, एसीए
85.	204837	सुश्री नीरजा वी जे, एफसीए
86.	205111	श्री यादला मोहन रेड्डी, एसीए
87.	205127	श्री थॉमस पी जार्ज, एसीए
88.	206100	श्री श्रीनिवासन के टी, एसीए
89.	206395	श्री मधु प्रसाद बी वी, एसीए
90.	206400	सुश्री वसुंधरा जीवन गुजराती, एफसीए
91.	207112	श्री बारानीधरन बी, एफसीए
92.	207147	श्री बिजोय जोसफ, एसीए
93.	207319	श्री मार्टिन थॉमस पी, एसीए
94.	207849	श्री श्रीकांत जी, एसीए
95.	208151	श्री श्रीनिवास एम, एफसीए

96.	208458	श्री रामा कृष्णा डी, एसीए
97.	208812	श्री धर्मेन्द्र आर, एसीए
98.	208869	सुश्री विनोदिनी मानीवनन, एसीए
99.	209002	श्री निरंजन सत्यपति, एसीए
100.	209244	श्री रवि शंकर परवेला, एसीए
101.	209454	श्री बालामुरगन आर, एफसीए
102.	209529	सुश्री सुब्बा बालाजी, एसीए
103.	209650	श्री विष्णु वर्धन रेड्डी के, एसीए
104.	209727	श्री प्रदीप ए, एसीए
105.	209758	सुश्री दीपा सेतुमन, एसीए
106.	209811	सुश्री कविता नाहर, एफसीए
107.	209878	श्री शणमुगासुन्दरम एस, एसीए
108.	209885	श्री सोनी अब्राहम, एसीए
109.	210073	श्री पलती राजा रंगा सुधीर, एसीए
110.	210091	श्री मनदीप मल्होत्रा, एसीए
111.	210176	श्री संपत्त कुमार एस, एसीए
112.	210789	श्री वेंकटा नागा साई सत्या विश्वनाथ कूची, एफसीए
113.	210807	श्री शशिकांत आर, एसीए
114.	210964	श्री वेंकटेश्वरा राव सुनकारा, एफसीए
115.	211025	श्री अनिल कुमार शारदा, एसीए
116.	211097	श्री अंजीरेड्डी के, एसीए
117.	211303	सुश्री कविता एस, एसीए
118.	211307	श्री हबीब नजीर ए, एसीए
119.	211382	सुश्री राधा श्री हरी राव वी, एफसीए
120.	211782	श्री कानना जे, एसीए
121.	211876	सुश्री श्रीदेवी आर, एसीए
122.	212007	श्री विनय के स्वामी, एफसीए
123.	212179	श्री आनंद के, एसीए
124.	212989	श्री विश्वनाथन वी, एसीए
125.	213022	सुश्री पुलावर्थी रुक्मणी देवी, एसीए
126.	213027	श्री रमेश गुंडा, एसीए
127.	213143	श्री श्रीनिवास कुमार तथवर्थी, एसीए
128.	213294	श्री देवकी लीला नागा श्रीनिवास, एसीए
129.	213699	सुश्री मलिका जीवन, एसीए
130.	214564	श्री रेनी पी चेरियन, एसीए
131.	216070	श्री रामा नागा वारा प्रसाद राव पुली, एसीए
132.	216289	श्री श्रीनिवासु चेका, एसीए
133.	216367	सुश्री रेवती, एसीए
134.	217013	सुश्री अंजली एस राव, एसीए
135.	217244	श्री श्रीरक्ष प्रकाश, एसीए
136.	217373	श्री वेंकटरामन जी, एसीए
137.	217903	श्री अभिषेक जैन, एसीए
138.	217928	सुश्री रेणुका चन्द्रा श्रीयन, एसीए

139.	218383	श्री मनाफ पी के, एसीए
140.	218976	श्री वर्गीस सी पी, एसीए
141.	219197	श्री बद्रीनारायण एस, एसीए
142.	219354	श्री देवल्ला वीरा वेकटा अप्पा राव, एसीए
143.	219779	सुश्री सुनयना तमराकर, एसीए
144.	219862	सुश्री अनु जोस, एसीए
145.	220025	सुश्री प्रतिभा लोहानी, एसीए
146.	220955	श्री भास्कर जी, एसीए

147.	221095	श्री पोथी माधवन टी, एसीए
148.	221188	सुश्री दीप्ति माथूर, एसीए
149.	221293	श्री बोगावरप्पु रामा कृष्णा सुब्रह्मनियम, एसीए
150.	221806	सुश्री मीना नारायणन, एसीए
151.	222163	श्री विपिन के के, एसीए
152.	222216	श्री सुरेश कुमार आर एम, एसीए
153.	222472	सुश्री हंसिनी अमृता एस, एसीए
154.	404168	सुश्री जिंदल मनीषा, एसीए

टी. कार्तिकेयन
सचिव

3एससीए(4)/4/2009-2010 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनके अनुरोध पर, उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों को सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है :--

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	रद्द करने की तारीख
1.	001806	श्री जयरामन पोनुस्वामी	01/04/2009
2.	002451	श्री राय अनुपम चन्द्रा	31/03/2009
3.	002859	श्री सत्यानारायण सी एस	31/03/2009
4.	022374	श्री गिरीधर एम वी	31/03/2009
5.	023786	श्री गोपालकृष्णन वी	30/12/2009

टी. कार्तिकेयन
सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 मार्च 2011

मा.सं.प्र./सी-1(3)/2010/आर.आर./ - कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 के अधिनियम 19) की धारा 5(डी) की उपधारा 7 (ए) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बहु-कार्य परिचारक स्टाफ की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

- (1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहु-कार्य परिचारक स्टाफ) भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण एवं इससे संबंधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन इन नियमों की अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताएं

भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यताएं
कोई व्यक्ति,

- (1) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पत्नी / पति जीवित हो, अथवा
- (2) जिसने स्वयं की पत्नी / पति के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो।

उक्त पद के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे

यदि केन्द्रीय बोर्ड संतुष्ट है कि विवाह के दूसरे पक्ष अथवा उनकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं जो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करते हैं।

5. शिथिल करने की शक्ति

जहाँ केन्द्रीय बोर्ड की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति के संदर्भ में इन नियमों के किसी उपबंध में राहत देने के लिए कारण सहित लिखित में आदेश दिया जाए ताकि उसका रिकार्ड रहे।

6. प्रतिबंध

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिए गए आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता तथा अन्य छूट पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. **निरस्तीकरण**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहु कार्य परिचारक स्टाफ) भर्ती नियम, 2011 के लागू होने पर निम्नलिखित नियम निरस्त किए जाते हैं :-

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहुकार्य परिचारक) भर्ती नियम, 2004 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(5)/91/एमटीए दिनांक 13.03.2004 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहुकार्य परिचारक) संशोधित भर्ती नियम, 2006 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/एमटीए दिनांक 17.06.2006 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बाइंडर) भर्ती नियम, 1986 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(3)/86/आर.आर. दिनांक 31.01.1987 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (iv) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ गेस्टेटर प्रचालक (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/91 दिनांक 18.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (v) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रिकार्ड सॉर्टर (व0) (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(6)/91/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सॉर्टर (क) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (vii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सॉर्टर (क) संशोधित भर्ती नियम, 2006 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी/पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 17.06.2006 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- (viii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हैल्पर/फराश/वाटर कैरियर एवं स्वीपर (सफाईवाला) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

एस. चटर्जी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

अनुसूची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बहु कार्य परिचारक स्टाफ पद हेतु भर्ती नियम

कॉलम संख्या	विवरण	निबंधन और शर्तें
1.	पद का नाम	बहु कार्य परिचारक स्टाफ
2.	पदों की संख्या	(2349) (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	वर्ग - 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	वेतन बैंड-1 में रु. 5200-20200 में रु. 1800 ग्रेड वेतन के साथ
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है ?	लागू नहीं
6.	क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जुड़े वर्षों का लाभ देय है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 वर्ष से 25 वर्ष नोट : भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि होगी (एवं यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं काश्मीर की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीती जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप से आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती की स्थिति में आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक अंतिम तिथि वहीं होगी जब तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया हो।
8.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	आवश्यक दसवीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण वांछनीय 1. होमगार्ड अथवा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा एवं होमगार्ड / नागरिक सुरक्षा में मूल तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण। 2. भूतपूर्व सेनानी 3. मान्यता प्राप्त संस्थान से कैटरिंग (गृह व्यवस्था) हाऊस कीपिंग, पाक कला में प्रमाणपत्र। 4. प्रतिष्ठित फर्मों के गेस्ट हाऊस / मालीगिरी / वॉच एंड वार्ड में दो साल का अनुभव। 5. चार पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस।

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं ।
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(02) दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा एवं विभिन्न विधियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती प्रारम्भिक गठन विधि बहु कार्य परिचारक, बाइंडर, कनिष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय), रिकार्ड सॉर्टर (वरिष्ठ), (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय), जमादार, दफ्तरी, रिकार्ड सॉर्टर (कनिष्ठ), हैलपर, फराश, वाटर कैरियर एवं स्वीपर (सफाईवाला) पदों पर कार्यरत सभी वर्तमान पदधारियों को इन नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से बहु कार्य परिचारक के रूप में पुनः पदनामित माना जाएगा ।
12.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन के माध्यम से भर्ती के मामले में ऐसे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाएगा ।	लागू नहीं ।
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है तो इसके संघटक क्या हैं ?	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति 1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्र का प्रभारी / मुख्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग)) - अध्यक्ष 2. सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन प्रभारी) - सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के विभागों / संगठन से एक समुचित ग्रेड का अधिकारी - सदस्य
14.	ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना होगा ।	लागू नहीं ।

नोट :-

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहु कार्य परिचारक स्टाफ) भर्ती नियम, 2011 के लागू होने पर निम्नलिखित नियम निरस्त किए जाते हैं :-

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहुकार्य परिचारक) भर्ती नियम, 2004 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(5)/91/एमटीए दिनांक 13.03.2004 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहुकार्य परिचारक) संशोधित भर्ती नियम, 2006 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/एमटीए दिनांक 17.06.2006 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बाइंडर) भर्ती नियम, 1986 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(3)/86/आर.आर. दिनांक 31.01.1987 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ गेस्टेटर प्रचालक (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/91 दिनांक 18.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रिकार्ड सॉर्टर (व0) (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(6)/91/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

- (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सॉर्टर (क) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया।
- (vii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सॉर्टर (क) संशोधित भर्ती नियम, 2006 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी/पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 17.06.2006 द्वारा प्रकाशित किया गया।
- (viii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हैल्पर/फराश/वाटर कैरियर एवं स्वीपर (सफाईवाला) भर्ती नियम, 1992 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी-IV/1(4)/89/आर.आर. दिनांक 31.07.1992 द्वारा प्रकाशित किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2011

संख्या: एन-15/14/17/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 फरवरी, 2010** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील व जिला
1	जस्सर	लुधियाना
2	पद्दी	लुधियाना
3	भगवानपुरा	लुधियाना
4	डुगरी	लुधियाना
5	टिब्बा	लुधियाना
6	उमेदपुर	लुधियाना
7	धरौंड	लुधियाना
8	लाडवाल	लुधियाना
9	आलोवाल	लुधियाना
10	मानेवाल	लुधियाना
11	बोंकर-डोगरां	लुधियाना
12	नूरपुर बेट	लुधियाना
13	नूरवाला	लुधियाना
14	पहारुवाल	लुधियाना
15	लाटो दाना	लुधियाना
16	कटानी कलां	लुधियाना
17	लाटों जोगा	लुधियाना
18	पंगलियां	लुधियाना
19	कुमकलां	लुधियाना
20	भामा कलां	लुधियाना
21	कुब्बा	लुधियाना
22	लक्खोवाल	लुधियाना

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 10 फरवरी 2011

संख्या: एन-15/13/1/13/2010-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य)विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01.02.2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

' आंध्र प्रदेश राज्य के वरंगल ज़िले के हनमकोण्डा मण्डल में तिममापुर हवेली और गोपालपुर, गीसुगोण्डा मण्डल में गीसुगोण्डा और उकल, हसनपती मण्डल में मुच्चेर्ला और येल्लापुर राजस्व गाँव के सीमा के अंतर्गत स्थित सभी क्षेत्र ।'

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/8/2009-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य)विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01.01.2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

' आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले के पूसपाटिरेगा मण्डल के जी0 चोडवरम् (छोडा गाँव पोरम को मिलाकर), चोडम्मा अग्रहारम कोव्वाडा, कंदिवलसा (छोटे गाँव नक्कनिपेटा, मादवय्यपेटा, बोड्डुवानिकल्लालु) तथा कनिमल्ला (छोटा गाँव कामवरम को मिलाकर) राजस्व गाँव के सीमा के अंतर्गत स्थित सभी क्षेत्र ।'

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/9/2009-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01.02.2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

' आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम् जिले के श्रीकाकुलम् नगर के सीमा में स्थित सभी राजस्व गाँव तथा श्रीकाकुलम् मण्डल के सिंगुपुरम् पेद्धपाडु, कुसेलपुरम्, केशवरावपेटा राजस्व गाँव तथा श्रीकाकुलम् जिले के गारा मण्डल के अच्छन्नापालेम । "

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/5/2006-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01.01.2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

' आंध्र प्रदेश राज्य के नलगोण्डा जिले के मेल्लचेरुवु मण्डल के मेल्लचेरुवु, रामापुरम् तथा मेल्लचेरुवु मण्डल के चिन्तापालेम् राजस्व गाँव के सीमा के अंतर्गत स्थित सभी क्षेत्र । "

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/6/6/2007-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा **केरल** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **केरल** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :

" जिला इडुक्की के तोडुपुषा तालुक में मुट्टम राजस्व गाँव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/16/3/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा **हरियाणा** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **हरियाणा** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रम संख्या	राजस्व भाग	हदबस्त संख्या	जिला
1	कावरा	156	फरीदाबाद
2	भुपानी	143	फरीदाबाद
3	वजीरपुर	137	फरीदाबाद
4	बुदैन	124	फरीदाबाद
5	नचौली	155	फरीदाबाद
6	पलवाली	138	फरीदाबाद
7	कबुलपुर	169/170	फरीदाबाद
8	जासना	110	फरीदाबाद
9	मोहना	204	फरीदाबाद
10	खेरीकला	113	फरीदाबाद
11	छायसा	202	फरीदाबाद
12	फरीदपुर	99	फरीदाबाद
13	बथोला	115	फरीदाबाद
14	बरोली	116	फरीदाबाद
15	चौदपुर	187	फरीदाबाद
16	औरंगाबाद	81	पलवल
17	रेहराना	83	पलवल

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/7/11/2010 – यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

" नरसापुर ग्राम, होबली बेटगेरी, तालूक गदग, जिला गदग, के राजस्व ग्राम के क्षेत्र। "

आर. सी. शर्मा

निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 14 फरवरी 2011

संख्या: एन-15/14/17/1/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	उप-तहसील	जिला
1.	सियालवामाजरी	147	सियालवामाजरी	मोहाली

आर. सी. शर्मा

निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/14/17/3/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	भगवानपुर	288	जालंधर-II	जालंधर
2.	लोहारां	264	जालंधर-II	जालंधर
3.	करतारपुर	370	जालंधर-II	जालंधर
4.	सूरा	325	जालंधर-II	जालंधर
5.	सरायखास	326	जालंधर-II	जालंधर
6.	विश्रामपुर	391	जालंधर-II	जालंधर
7.	कहलवां	327	जालंधर-II	जालंधर

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/14/17/4/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	पलाही	60	फगवाड़ा	कपूरथला
2.	नंगल	102	फगवाड़ा	कपूरथला
3.	खोतरां	01	बंगा	शहीद भगत सिंह नगर

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/14/17/5/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2011** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	पंगोली	351	पठानकोट	गुरदासपुर
2.	कियारी	350	पठानकोट	गुरदासपुर
3.	सियून्टी	376	पठानकोट	गुरदासपुर

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/14/17/8/2010-यो0 एवं वि0

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2010** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्:-

क्रमांक	गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	शमशेर नगर	139	फतेहगढ़साहिब	फतेहगढ़साहिब
2.	फतेहगढ़ साहिब	110	फतेहगढ़साहिब	फतेहगढ़साहिब

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2011

संख्या : ए-1/1/2/2009-स्था. I. — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ. — (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2011 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 (इसके बाद मूल विनियम कहा गया है) में विनियम 5 के पैराग्राफ (3) में 'बीमा निरीक्षक' शब्दों को 'सामाजिक सुरक्षा अधिकारी' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

3. मूल विनियम में, प्रथम अनुसूची में "ग्रुप ग" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित पद के सामने, कालम 2 के अधीन प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :-

"1. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड- II/अधीक्षक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी(लेखा परीक्षा)"

4. मूल विनियम में, पांचवी अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित पद के सामने, कालम 2 के अधीन, 'बीमा निरीक्षक' शब्दों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा अधिकारी' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(ii) टिप्पणी के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामतः:-

"टिप्पणी : "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड-II" पदनाम में उसी संवर्ग में "कार्यालय अधीक्षक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी(विधि), आदि अन्य सभी पद भी शामिल हैं।"

पाद टिप्पणी:- भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 दिनांक 26 दिसम्बर, 1959 में अधिसूचना संख्या 2-2/1/56-स्था. दिनांक 16 दिसम्बर, 1959 द्वारा प्रकाशित मूल विनियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व में संशोधित किए गए थे:-

1. अधिसूचना सं. 1(1)2/62-स्था.1 दिनांक 25.08.1965
2. अधिसूचना सं. 1(1)-1/66-स्था.1 दिनांक 16.08.1969
3. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.1 दिनांक 13.10.1973
4. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.1 दिनांक 24.08.1974
5. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.1 दिनांक 31.07.1976
6. अधिसूचना सं. सतर्कता 2(5)-1/74 दिनांक 23.07.1977
7. अधिसूचना सं. ए-40(11)-2/77-स्था.4 दिनांक 05.02.1980
8. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.1 संग्रह 2 दिनांक 16.05.1981
9. अधिसूचना सं. सतर्कता 8(1)/74 दिनांक 27.05.1983
10. अधिसूचना सं. ए-32(11)-1/84,स्था.1(क) दिनांक 16.06.1990
11. अधिसूचना सं. सतर्कता 9(1)/74- दिनांक 18.01.1992

सी. एस. केदार
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्नाटक एवं गोवा राज्य, बैंगलूर, दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. कभनिस/अर्केका (क व गो) निसबी-छू(रद्द)/1488/2010-11--

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17(2 ए) के अंतर्गत मेसर्स डिस्क टेक्नालोजी सर्विस प्र. लि (KN/25548) को ई डी एल आई योजना के प्रावधानों से दिनांक 22.11.2009 के पत्र सं. ए पी/क भ नि सं/अ के आ/ट ऑ /एफ सं. 240/2009/7-19 के अंतर्गत 24.11.2007 से 23.11.2010 तक की अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट प्रदान किया गया था तथा दिनांक 21.2.2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था ।

दिनांक 22.11.2009 के अधिसूचना के अनुसूची II के शर्त 10 के अनुसार, ' किसी भी कारण से यदि नियोक्ता ने संबंधित जीवन बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित देय तिथियों के अंदर प्रीमियम आदि का भुगतान करने में असमर्थ है तथा पालिसी को व्यपगत होने देता है तो, प्रदान किया गया छुट को रद्द कर दिया जाएगा ।

जबकि मेसर्स डिस्क टेक्नालोजी सर्विस प्र. लि का नियोजक, दिनांक 1.11.2009 से आई एन जी वैश्या जीवन बीमा के साथ सामूहिक जीवन बीमा योजना पर रोक लगने के कारण उक्त दिनांक से कर्मचारी भविष्य निधि निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अंतर्गत अनुपालन करने के उत्तरदायी होंगे ।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17(4)(सी) के अधिकार को चलाते हुए सक्षम प्राधिकारी मेसर्स डिस्क टेक्नालोजी सर्विस प्र. लि को दिनांक 1.11.2009 से भविष्य निधि निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों से अधिनियम की धारा 17(2ए) के अंतर्गत प्रदान किया गया छुट को एतद्वारा रद्द करते हैं , तथा तद्वारा

- 1 नियोजक, कर्मचारी भविष्य निधि निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के प्रावधानों को 1.11.2009 से अनुपालन करेंगे ।
- 2 नियोजक, अधिनियम की धारा 17(2ए) के अंतर्गत प्रदान किए गए छुट की अवधि के लिए भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.2.2009 के अनुसूची II में विनिर्दिष्ट शर्तों का, पालन करेंगे ।

पी. सुधाकर बाबू
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कर्नाटक एवं गोवा राज्य
बैंगलूर

UCO BANK

Kolkata-700001, the 10th March 2011

IN exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Govt. propose to make the following amendments to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, namely :

1. **Short Title and commencement** – (i) These Regulations may be called the amendments to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (2) they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Amendments of Regulations 2 and 4** – in the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003,
 - (i) in Regulation 2, for clause (p) the following clause shall be substituted namely,

“(p) The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Scheme, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank of in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of the sub-section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be.”
 - (ii) after Regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely,

4(A) (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of equity shares or preference shares.

(2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.

(3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such preference shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by Reserve Bank of India in pursuant to the provisions contained in the Proviso to Clause (c) of sub-section 2(B) of section 3 of the Act.

(4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.

(5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Govt. for its sanction and the Central Govt. may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.

(6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Govt."

By Order of the Board of Directors

ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Chennai-600034, the 3rd January 2011

3SCA(4)/2/2009-2010 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st October 2009 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1	001236	MR. KRISHNASWAMI P V	31	009956	MR. VENKATAKRISHNAN V K
2	002504	MR. THAKUR RAMESHWAR	32	009970	MR. VIJAYA KUMARA L
3	002948	MR. GOPINATHAN N	33	010085	MR. KUKILLAYA S SURESH
4	003014	MR. KAMESWARARAO BULUSU	34	011452	MR. VAITHISWARAN B R
5	003544	MR. PADMANABHAN S	35	011610	MR. JOSHI NARAYAN VISHWANATH
6	004215	MR. TAVKAR BHALCHANDRA GOVIND	36	011705	MR. BHANDARI RAMENDRA
7	004389	MR. VARGHESE JOHN T	37	011753	MR. SUDHARSAN T K
8	004680	MR. DWARKANATHAN IYYATIL	38	011989	MR. RAJAN VAIDYANATHAN
9	005098	MR. SYAMALA RAO C V	39	012234	MR. VIJAYA KUMAR RAO I
10	005147	MR. NARASIMHAMURTY N	40	012410	MR. KRISHNAN P
11	005191	MR. VENKATARAMAN R	41	012462	MR. RAMANATHAN RAMANATHAN
12	006556	MR. POOVANNA K C	42	012481	MR. MURALIKRISHNA VADDADI
13	006694	MR. SUBBARAO TURLAPATY VENKATA	43	012643	MR. GOPINATH SONNANAHALLI
14	006843	MR. JAGANNATHAN A	44	013261	MR. SHERIN C V
15	007140	MR. RONALD IVOR SALVADORE TELLIS	45	013281	MR. VENKATAPPAIH J
16	007208	MR. KRISHNA G A	46	013292	MR. SATISH CHANDRA KHEMCHAND K
17	007301	MR. NATARAJAN C	47	013438	MR. SUBRAMANYAN K
18	007356	MR. RAGHAVIAH P	48	013503	MR. THANGASAMY S
19	007695	MR. SHUNMUGHAM V	49	013554	MR. VASUDEVAN P K
20	007716	MR. SHASHI KUMAR K	50	013677	MR. KRISHNAMURTHY K V
21	007741	MR. SEETHARAMAN A	51	014112	MR. LAKSHMI KANTHAN T V
22	008631	MR. MALANI RAMESH CHAND	52	014425	MR. SANKARAN N P
23	009240	MR. SEETHARAMAN M N	53	014485	MR. PRAKASH RAO T
24	009400	MR. RATNAIAH RAJA	54	014558	MR. MURUGAN C A
25	009565	MR. ANANTHAPADMANABHA SHENOY Y	55	014631	MS. ANJANI S VAKIL
26	009660	MR. SEETHARAMAN J	56	014799	MR. RAMAKRISHNA ANANTHANARAYAN
27	009726	MR. NARAYANA N	57	015038	MR. GOPALAKRISHNAN S R
28	009763	MR. BADRI NARAYANAN N	58	015184	MR. SUBRAMANIAN T R
29	009903	MR. JAYARAMAN T V	59	015210	MR. RAMA KRISHNAN P S
30	009910	MR. VASUDEVAN NARAYANAN	60	015346	MR. RAMADASS T

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
61	015714	MR. RANGAMANI KOTI THATHACHARI	101	019947	MR. RAMANATHAN R
62	015772	MR. SAI BABU RAO NANDURI	102	019979	MR. KANNAN S
63	015804	MR. SRIDHARAN D R	103	019984	MR. SYED JALALUDDIN
64	016029	MR. NIRMAL KUMAR A	104	020036	MR. NARAYANAN NAMBIAR N R
65	016148	MR. KRISHNAN V	105	020047	MR. VAIDYANATHAN S
66	016439	MR. RAGHU G	106	020211	MR. BABU NATARAJAN D
67	016458	MR. VISHWANATHAN V	107	020236	MR. ALAGIRISWAMY M
68	016656	MR. BIRINCHANDRA JAMNADAS AMBANI	108	020257	MR. GOPALAKRISHNAMACHARYULU G
69	018016	MR. ANAND RAO C	109	020384	MR. NAGESH K S
70	018020	MR. SRIMAN NARAYANA CHOWDARY K	110	020433	MR. JAYADEVA B R
71	018065	MR. JHANWAR M L	111	020447	MR. BALAKRISHNAN K
72	018182	MR. SIVARAMAKRISHNAN N	112	020518	MR. BALASUBRAMANIAN R
73	018311	MR. SASIDHARAN NAIR B	113	020556	MR. VIJAYARAGHAVAN V K
74	018366	MR. SUBBA RAO V V K	114	020567	MR. RAMANATHAN R V
75	018383	MR. SRINIVASAN V	115	020704	MR. SARANAM VENKATA RAO
76	018435	MR. NITHYANANDAN T K	116	020715	MR. SELVARAJ S
77	018529	MR. SUDHIR KUMAR	117	020764	MR. SRIVATHSAN C S
78	018550	MR. VENKATA RAO U	118	020768	MR. LALITH KUMAR M
79	018564	MR. JEYARAMAN P L A	119	020810	MR. AGRAWAL INDER RAJ
80	018718	MR. SOMASEKHARAN P S	120	020817	MR. RAMAKRISHNA V
81	018778	MR. RAGHUNATHAN R	121	020833	MR. SINGHVI P C
82	018825	MR. JAYAPRAKASH M	122	020843	MR. BADRINATH Y S
83	018905	MR. KRISHNA A G	123	020852	MR. GOVIND GURU R
84	018959	MR. MOHAN REDDY A	124	020916	MR. SELVA KUMAR M K
85	018981	MR. SHEKER V	125	021030	MR. KUMAR G
86	018985	MR. KUMAR R	126	021056	MR. SRIRAM S
87	019033	MR. SUBBA RAO G S V K	127	021149	MR. RAVEENDRANADH REDDY P
88	019054	MR. JAYAKUMAR R	128	021227	MR. SUNDARARAJAN V
89	019077	MR. RAGHAVENDRA MAIYA U	129	021257	MR. RAJA B
90	019143	MR. GIRIJA SANKAR G	130	021349	MR. PARAMESWARAN C A
91	019253	MR. PALANISWAMY M	131	021355	MR. RAMANAN S
92	019255	MR. THANIGARAJU S	132	021362	MR. SRINIVASAN R
93	019497	MR. RAJENDRAN C D	133	021392	MR. SIVASANKARA RAO S
94	019549	MR. RAJASHEKAR K V	134	021410	MR. NAGARAJAN R
95	019582	MR. AJIT KUMBHAT	135	021450	MR. DHANDAPANI T G
96	019690	MR. RAMAMOORTHY C	136	021451	MR. BALAKUMAR G
97	019727	MR. VENKATESWARLU MENTA	137	021496	MR. ITTICHERIA P JOSHUA
98	019746	MR. LOGANATHAN R	138	021505	MR. RAMACHANDRAN C N
99	019803	MR. RAJASEKHARAN A S	139	021542	MR. KRISHNAN SARATHI
100	019835	MR. SATCHIDANANDAN T V	140	021601	MR. VENKATA RAMANA D

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
141	021644	MR. SESHAGIRI RAO M	181	023079	MR. ANANTHA KRISHNA VARMA S
142	021721	MR. RAMESH S	182	023157	MS. LAKSHMI VIDYASAGAR
143	021737	MR. SITHARAMAYYA C	183	023175	MR. RAJAN P B
144	021758	MS. SUCHARITA MAITRA	184	023220	MR. VENKATESAN R
145	021825	MR. SRIDHAR S	185	023227	MR. ANTONY JOSEPH P
146	021878	MR. SASIKUMAR C P	186	023274	MR. HARIKRISHNA RAO K
147	021917	MR. ALBERT A	187	023284	MR. VARADHAN V
148	021970	MR. ALAGA RAJA T V	188	023339	MR. ACHIAH N D ALIAS LOKESH
149	022037	MR. RANGAN S V	189	023350	MR. MALLIKARJUNA B V
150	022054	MR. MALLIKARJUNA G	190	023359	MR. DATTATRY
151	022085	MR. LALIT NAYAK	191	023370	MR. RAM PRAKASH
152	022153	MR. SATISH RAMNANE	192	023378	MR. PARTHASARATHY S
153	022178	MR. SUDARSHAN M K	193	023380	MR. SRIDHAR N
154	022203	MR. PALANI ALAGAPPAN	194	023416	MR. VENKATARAMAN NIVARTHI K
155	022209	MR. SURYANARAYANA B S N	195	023484	MR. CHANDRA SEKHAR REDDY T
156	022247	MR. JOSEPH VARGHESE M	196	023539	MR. SIVA RAM C
157	022319	MR. VENKAT V S	197	023553	MR. VENKATESWARA RAO M
158	022331	MS. SUGUNA KRISHNAMURTHY	198	023582	MR. SANJAYA SARATHY T P
159	022365	MS. SWARNA S V	199	023585	MR. MOHIDDIN KHAJA BASHA
160	022367	MR. GAUTHAM P	200	023594	MR. REDDY P SREENIVASULU
161	022449	MR. SUBRAMANIAN M	201	023601	MR. BASIL MIRANDA
162	022512	MR. PADMANABHAN N	202	023609	MR. RAMAKRISHNAN S
163	022526	MR. RAVINDRANATH V	203	023620	MR. KESAVAN R
164	022538	MR. CHANDRAN T	204	023658	MS. RAJARAJESWARI DEVI A
165	022594	MR. SRINIVASAN S P	205	023660	MR. RAJA GOPALAN S
166	022644	MR. ANANT RAO V	206	023700	MR. GANESAN N
167	022689	MS. LATHA R	207	023765	MR. LAKSHMI RATAN H
168	022695	MR. GULATI SANJEEV	208	023817	MR. MARIMUTHU R
169	022747	MR. NARASIMHAN W K	209	023868	MR. SAMSON SATHYANATHAN T
170	022786	MR. DURGA SHANKAR S	210	023908	MR. VENUGOPAL B
171	022815	MR. PATRICK RODRIGO J A	211	023942	MR. VENKATESWAR RAO T
172	022842	MR. VENKATARAMANA MURTHY V	212	023975	MR. RAJASEKAR V
173	022850	MR. PRASAD P V L N	213	023978	MR. SHRIVASTAVA AJAY
174	022888	MR. GUPTA CHANDRA SEKHAR B	214	024085	MR. RAMASESHAN S
175	023004	MR. MURALI S	215	024117	MR. MURALI R
176	023013	MR. RAVINDRAN N	216	024157	MR. ATCHUTA RAMAYYA K V N R K
177	023015	MR. PETCHIAPPAN K	217	024169	MR. CHANDRA SEKAR V
178	023016	MR. BHARATH P B	218	024277	MR. RAMA MOHAN K
179	023018	MR. VETRIVEL N	219	024299	MR. KASI RAMAN S
180	023049	MR. MD EHSANUDDIN	220	024300	MR. RAGHAVAN M V

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
221	024356	MR. VAIKUNTAM T S	261	025882	MR. SUNDARARAMAN S V
222	024367	MR. GANGADHARAN R	262	025889	MR. BHASKARENDRA RAO R
223	024460	MR. JAYARAJ CHANNAPPA HUBLI	263	025902	MR. GOPINATHA REDDY Y
224	024525	MS. SAVITHRI SURESH	264	025920	MR. HARI KIRAN V
225	024577	MR. NATARAJAN G	265	025986	MR. MUKUNDAN R
226	024583	MR. SRIDHAR G	266	025997	MR. RAJASUNDARAM S
227	024627	MR. RAJAN K P	267	026007	MR. GIRIJAN C
228	024746	MR. KUMAR B K	268	026017	MR. PURUSHOTHAM RATHI H
229	024811	MR. LAKSHMINARAYANAN V R	269	026028	MR. VISWANATHAN S
230	024831	MR. VIJAYAKUMAR N	270	026043	MR. SRIDHAR S
231	024834	MR. KUMARASAMY T K	271	026048	MR. YAGAPPA PHILOMIN RAJ T
232	024870	MR. BALABHADRAPATRUNI LAKSHMI NARAYANA	272	026070	MR. MATHIAZHAGAN K
233	025051	MS. BHAVANI HARAN	273	026072	MR. JYOTHI PRAKASH A
234	025070	MR. MIR HASAN ALI	274	026176	MR. NARAYAN RAGHAVAN
235	025075	MR. MATHIAZHAGAN V	275	026180	MR. SASI K S
236	025077	MR. KRISHNAN S	276	026249	MR. SATISH KUMAR V
237	025103	MR. NARAYANA RAO D N	277	026259	MR. GOPAL J
238	025105	MR. RAMAKRISHNAN THAMPI N	278	026283	MR. SRIDHARA RAO P
239	025121	MR. SURU RAGHURAMA	279	026311	MR. RAMBABU B
240	025148	MR. JAYARAMAN D	280	026316	MR. RAMALINGAM P M
241	025149	MR. KRISHNAMOORTHY T	281	026338	MR. PADMAPRABHA N
242	025168	MR. BENNET G NAZARETH	282	026349	MR. MADAN MOHAN KUPPA
243	025175	MR. VEMURU VENKATA KRISHNA PRASAD	283	026367	MR. PRASAD S
244	025187	MR. VENKATESWARA SRIDHAR L N P	284	026423	MR. CHACKO I C
245	025195	MR. DWARAKANATH N	285	026474	MR. SREEDHAR S
246	025216	MR. RAMESH GUPTA S	286	026499	MR. GURUSEKARAN V
247	025364	MR. VIJAYA BHASKAR RAO P	287	026621	MR. RAMESH P
248	025380	MR. PAULPANDI JEYASINGH L	288	026679	MR. MANOHAR P
249	025391	MR. PARTHA SARATHY J	289	026774	MR. VENKATA RAGHAVAN V
250	025473	MR. SWAMINATHAN A	290	026776	MR. RIYAAZ AHAMED KHAN P
251	025485	MR. LAXMI NARASAPPA Y	291	026790	MR. BALAJI S
252	025512	MR. SELVAM J K	292	026908	MR. RANGAN V
253	025540	MR. JAYARAMAN M	293	026931	MR. SRINIVASAN A
254	025573	MR. DHANANJAYA C	294	026965	MR. SATYA VISWANATHA SASTRY K
255	025696	MR. SUNDARAM R	295	027065	MR. SRIRAM P V
256	025743	MR. SHASHIKANTH N	296	027071	MR. KRISHNA Y
257	025769	MR. JAISHANKAR S	297	027072	MR. NAGESWARA RAO K
258	025786	MR. SURESH C	298	027075	MR. SURESH N
259	025821	MR. SETHURAMAN N	299	027082	MR. SAI KRISHNAN R
260	025860	MR. SHANMUGAM D	300	027095	MR. THOMSON SAM

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
301	027098	MR. IYER SUNDARAM SUBRAMANIAM	341	028300	MR. RAMESH S
302	027124	MR. SRIKANTH T	342	028303	MS. BHUVANA SWAMINATHAN
303	027158	MR. AZEEZULLAH SIDDIQUI M	343	028329	MS. KARPAGAVALLI S
304	027178	MR. GANESAN VISWANATHAN	344	028334	MR. VENKATARAMAN B
305	027179	MR. PARAMASHIVAIAH M C	345	028347	MR. RAMA SHARMA YAMARTHI
306	027184	MR. VARADHARAJAN R	346	028369	MR. NATARAJAN S
307	027205	MR. VENKATA RAMANAN V N	347	028411	MR. ANAND R
308	027220	MR. RAMADURAI C	348	028422	MR. RAJAMANNAR S
309	027272	MR. SRIRAM K V	349	028479	MS. GAYATHRI R MALLYA
310	027340	MR. RAVISHANKAR T	350	028528	MS. SUDHA MADHAVAN
311	027352	MR. PADMANABAN P	351	028608	MR. ANTO M P
312	027401	MR. BASKER V V	352	028627	MR. RAVIKUMAR G RAO
313	027496	MR. DAMODARA REDDY B	353	028655	MS. CHAMPAKALATHA T V
314	027537	MR. MAHESH REDDY R	354	028673	MR. BASIL ANTONY
315	027558	MR. PERAREDDY M	355	028706	MR. MANOHARAN R
316	027602	MR. NAGENDAR D	356	028796	MR. SHAIK MOULALI
317	027695	MR. KRISHNA SWAMY K	357	028834	MR. SATYA SURYA SRINIVAS V
318	027754	MR. THYAMPANNA HEGDE	358	028846	MR. BINOD N
319	027757	MR. SIVAKUMAR T S	359	028976	MR. DHAVALA VENKATA SURYA PRAKASH
320	027796	MR. KRISHNA MOHAN L	360	028990	MR. ANANDAKUMAR R
321	027924	MR. EAPPAN PHILIP	361	029017	MR. RAVINDRA NATH R
322	027929	MR. VISWANATHAN S	362	029092	MR. PRAVEEN SHENOY K
323	027939	MR. RAMESH BABU S V	363	029128	MR. BALAGOPAL C M
324	027967	MR. SUBRAMANYA A	364	029155	MR. KANNAN S R
325	027983	MR. BRAHMAIAH K	365	029185	MR. RAMACHANDRAN S
326	027996	MR. BEN JACOB G	366	029228	MR. ALAVALA KOTI REDDY
327	028001	MR. SURESH K	367	029326	MR. RATHAN KUMAR
328	028042	MR. ZAVIER A M	368	029335	MS. MAYA S
329	028067	MR. NARAYAN V RAMANAN	369	029355	MR. SHIVARAM KAMATH V
330	028069	MR. THOMAS GEORGE P	370	029388	MR. ABBAVARAM MOHAN REDDY
331	028114	MR. SRIKANTH N	371	029419	MR. SREENIVASAN JAGANATH
332	028119	MR. JAYAKUMAR C	372	029436	MR. SOUNDARARAJAN V
333	028127	MR. KRISHNA KUMAR CH	373	029438	MS. BHARATHI SHAH
334	028166	MR. RAMAKRISHNAN S	374	029479	MR. LAXMI PRASAD P
335	028175	MR. SATISH N R	375	029489	MR. MAHESH M
336	028176	MR. VENKATESWARA RAO N	376	029515	MR. CHAKRADHAR V
337	028210	MR. GOPAKUMAR K	377	029527	MR. VENNIMALAI R
338	028215	MR. SREEKANTH A	378	029554	MR. VENKATA CHANDRA GUPTA A
339	028222	MR. ELANGO S	379	029657	MR. NARAYANA RAO C
340	028265	MR. VENKATESHWARA RAO V	380	029659	MR. SAMUEL RAJ G

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
381	029743	MR. HEMASUNDAR N	421	047115	MR. SURESH KUMAR RAMAMURTHY JANDHYALA
382	029748	MS. SAIGEETHA N	422	047595	MR. WADHWA BIPIN
383	029757	MR. MILTON G	423	047840	MS. PARIKH MONISHA MADANMOHAN
384	029821	MR. MAWOZ HASSAN S	424	047868	MR. SURENDHREN M
385	029871	MR. RAMANATHAN R	425	047905	MS. MAYA BHASKAR
386	029893	MR. MADDALA GALISWARA RAO	426	048055	MR. JACOB MANI KALLUPURACKAL
387	029897	MR. JAYARAMAN V	427	048501	MR. MISHRA VINAYKUMAR V
388	029947	MR. MANI S	428	048826	MR. PUROHIT LAXMINARAYAN KRISHNACHARYA
389	029952	MS. KOHILA R	429	048901	MR. DARIYAW SINGH RAJ P
390	029967	MR. KRISHNAN V	430	050199	MR. SANDIP KUMAR
391	029974	MR. RAJAGOPALAN R	431	050661	MR. TAPAN KUMAR DAS
392	029977	MR. RAVICHANDRAN K	432	050967	MR. RAMACHANDRAN P K
393	030251	MR. RAMACHANDRAN NATESAN	433	051096	MR. MOR SUNIL KUMAR
394	030355	MR. THANDA KRISHNA RAO GUPTA GUDLA	434	051963	MR. MADHAVAN W K
395	030429	MR. MEHTA DHARAM CHAND	435	052272	MR. SUBRAMANIAM S B
396	031462	MR. JACOBE G EBENEZER VIJAY	436	052545	MR. SRIKRISHNAN V
397	032044	MR. PARAMESWARAN V	437	052850	MR. RAJA DILIP KUMAR N
398	033412	MR. MOHAN PARMESWARAN	438	053408	MR. PRADEEP KUMAR SHRESTHA
399	033879	MR. SUDHARSANAM C R	439	053966	MR. HARI MENON
400	034627	MR. VIJAYKUMAR HARIVALLABH SHARMA	440	053991	MR. DEY PALASH KUMAR
401	035911	MR. BOLAR ASHIT JAYANTH	441	054082	MR. MITRA SAIBAL
402	036508	MR. MANI G C S	442	054097	MS. ANINDITA SEN
403	037134	MR. RAVI S	443	054585	MR. SREEDHAR N
404	037349	MR. SHIVAKUMAR M K	444	054895	MR. DURGAVAJJULA SIVAJEE
405	037985	MR. NARASAIAN MALEMPATI	445	055061	MR. RAJIV KUMAR CHATURVEDI
406	038668	MR. RAVIKUMAR RAMANAN	446	055070	MR. KARTIK J
407	038695	MS. JAYASHREE BALAKUMAR	447	055241	MR. HARIHARAN ANAND
408	039314	MR. BHATIA NIPUN BHUPENDRANATH	448	055289	MR. RAMAKRISHNAN S
409	039594	MR. DEVENDRA PRASAD AMETA	449	055717	MR. SAJU K S
410	042615	MR. SRINIVASARAGHAVAN S	450	055738	MR. MAHESHWARY ALOK
411	043431	MR. KRISHNA PRASAD GANNE	451	056022	MR. NEOGI SANDIP
412	043596	MR. LOKAPUR SANJAY GUNDERAO	452	056225	MR. BISWAS ARIJIT
413	043729	MR. LAKSHMANAN C	453	056291	MR. HRUDANANDA KAR
414	043814	MR. ADIL BEHRAM PATEL	454	056675	MR. CHOWDHARY RAVI KUMAR
415	043880	MR. RAJARAM V VENKATRAMAN	455	056844	MR. GANDHI SUNDEEP
416	044790	MR. GOPALAKRISHNAN A V	456	056854	MS. CHOWDHARY MAMTA
417	044840	MR. VISHWANATHAN T V	457	056966	MR. RAMACHANDRAN V
418	044933	MR. VALLUVAN M	458	057045	MR. JAIN SANJAY KUMAR
419	046523	MR. KRISHNAN K V	459	057075	MR. PARTH SARTHI NARAYAN
420	046640	MR. RAM KUMAR K	460	057109	MR. DAS SUMANTA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
461	057113	MR. KRISHNAN SADANANDAN	501	067072	CA. ASHA P PILLAI
462	057218	MR. CHAKRABARTI RAHUL	502	067347	MS. MANJARI SENGUPTA
463	057648	MR. PATRO T PRASANNA KUMAR	503	067379	MR. DIPANKAR ROY
464	057985	MR. PRAMOD BANTHIA	504	071502	MR. MEHTA RAMESH
465	058119	MR. UDAY PRAKASH	505	077312	MR. AGRAWAL VIKASH
466	058435	MR. PATNAIK RAJSEKHAR	506	077888	MR. VIVEK SAXENA
467	058835	MS. SUDESHNA BANDYOPADHYAY	507	078326	MR. JHAVER ABHISHEK
468	058879	MR. BIBHUTIRAY SAINIK	508	078455	MS. YADAV SHALINI
469	059475	MS. PODDAR DOLA	509	078461	MR. AJAY SINGH
470	059493	MR. VIKAS AGRAWAL	510	079648	MR. BHOJWANI PRAMOD KUMAR
471	060262	MR. RANGWALA MURTAZA JUZER	511	079780	MR. JAIN MANISH
472	060782	MR. KHAN MOHAMMED ASIF	512	079842	MR. MISRA SUYASH
473	060887	MR. DEY SOUVIK	513	080141	MR. SUBRAMANIAN U
474	061384	MR. BHARDWAJ PRAVEEN	514	080143	MR. RAGHUNATHAN K
475	061407	MR. DOKANIA RAMA KANT	515	080771	MR. SUBRAMANYAM G
476	061836	MR. LOHIA KAILASH KUMAR	516	082588	MR. RAMAMURTHY S
477	061895	MS. SONU MUNDRA	517	083211	MR. MANOJ JAIN KUMAR
478	062169	MS. ROY CHOUDHURY SRABANTI	518	083602	MR. RAMANI J V
479	062191	MR. DAS ANAMITRA	519	083622	MR. GONSALVES DEV ANTHONY
480	062319	MR. MEHRA KABIR	520	085296	MR. MALLIKARJUN K V
481	062383	MS. KHANDLWAL SHRUTI	521	087239	MR. VISWANAATHAN K
482	062505	MS. PRITI SARDA	522	088088	MR. VASUDEVAN R
483	062622	MR. SABOO SOURAV	523	088138	MR. RAVI KUMAR G
484	062788	MS. DEORA KAVITA	524	088845	MR. VENKATARAMAN M S
485	063248	MR. AGARWAL DAMODAR PRASAD	525	088888	MR. SIVARAMAKRISHNAN C R
486	063371	CA. UMA SHANKAR KALYANI	526	088948	MR. KOSHY P GEORGE
487	063382	MR. JAIN RITESH	527	089156	MR. KENNEDY RAMU
488	063644	MS. CHHAJER SMITA	528	089233	MR. NARAYANA RAO CHANTHATI
489	063688	MR. SIPANI BIKASH KUMAR	529	089239	MR. JOSE MATHEW
490	063780	MS. YASHODA A N V	530	089408	MR. SAMEER SHARMA
491	063825	MR. MODI MANISH	531	089549	MR. SOMASHEKARA S K
492	064056	MR. BAGREE VISHAL	532	089924	MR. RAJEEV DUA
493	064062	MR. CHATTERJEE AMITABH	533	090112	MS. GULIANI SUMAN
494	064672	MR. SAURABH JAISWAL	534	091807	MR. BALAKRISHNA RAO S
495	065221	CA. VINEET CHATURVEDI	535	092190	MR. CHALAPATI RAO V
496	065423	CA. BINIT KUMAR GUPTA	536	092198	MR. SABHARWAL NAMIT
497	065644	CA. SUMIT KUMAR AGARWAL	537	093072	MS. SANDHYA S
498	065882	CA. NUPUR AGARWAL	538	093256	MR. JOSEPH JOHN
499	066066	MR. PIYUSH SHARMA	539	095232	MR. NATH SUBHASHIS
500	066401	CA. SUNDEEP MITTAL	540	095351	MR. CHIRIMAR LALIT KISHORE

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
541	095415	MR. TRIPATHY PRIYABRATA	581	120152	MR. RAVI BHAT
542	095829	MR. AGBAWAL KUNJ BEHARI	582	120667	MR. DEVESH KUMAR SHARMA
543	096182	MR. AGARWAL HIMANSHU	583	121123	MR. INDERJEET SINGH KISHAN SINGH
544	097840	MR. PANIGRAHI NRUSINGH RANJAN	584	121840	MR. NAVEED ZEYAU KHAN
545	097855	MR. MANGLIK ANKIT	585	123759	MR. ANAND VINAYAK JOSHI
546	098499	MR. GOPAL KRISHNA V B	586	125341	MRS. SHAHEDA TABASSUM MAHEMUD RAZA SOLANKI
547	098856	MR. PRATYUSH	587	126491	MR. VISHAL NIRANJAN BHARUKA
548	098953	MS. RAJINI V RAMAN	588	128721	MS. HARJEET KAUR SALUJA
549	100605	MR. KUMAR P	589	129114	MR. VIVEK ARUN MARNE
550	101162	MS. KASHMIRA KRISHNAKUMAR JOBANPUTRA	590	200001	MR. JOSEPH JACOB
551	101427	MR. GOGTE SHRIDHAR SHRIKANTRAO	591	200029	MR. KRISHNAMURTHY R
552	103009	MR. ANJAKULATH ANIRUDH PANKAJAKSHAN	592	200065	MR. KUMARA KRISHNAN S
553	103074	MR. ARUN KUMAR G R	593	200110	MS. MALATHI NATARAJAN
554	103151	MR. NEERAJ KUMAR JALAN	594	200130	MR. RAMACHANDRAN G
555	105173	MS. UMA KRISHNAN	595	200166	MR. BALAJI R S
556	106478	MR. DHOOT SHARAD SHYAMSUNDER	596	200190	MR. SHUBHAKAR P R
557	106551	MS. MONIKA G SHAHDADPURI	597	200234	MR. ANANDA NAIDU V
558	106598	MR. GIRI VENKATARAMANI	598	200294	MR. RAJNARAYAN S
559	106812	MR. NARAYANAN KRISHNAN	599	200298	MR. RAJAMANI S
560	106822	MR. MENON SUDHIR	600	200341	MR. GOPALA KRISHNA ADDANKI
561	106933	MR. ARUN PRASANNA	601	200377	MR. JAYAKAR SAMUEL
562	107679	MS. VRISHALI NARAYANA BHAT	602	200392	MR. SUBRAMANIAN K
563	107937	MS. CHITLANGIA SHANTI	603	200400	MS. AUDREY MILLER
564	108772	MR. PAWAN KUMAR AGRAWAL	604	200401	MR. BALAJI G V
565	109436	MS. DEEPA RADHAKRISHNAN MAKHIJA	605	200402	MR. PRAKASH RAM LAKSHMINARAYANA
566	109561	MR. SIDDHARTHA SHAMBHUNATH NAG	606	200404	MR. BHASKAR L
567	110166	MS. JAYASHREE S LOKESHWAR	607	200408	MR. JITENDRA PYARELAL GANDHI
568	110189	MR. RADHAKRISHNAN GOVINDAN	608	200440	MR. VISWANATHAN G
569	112696	MRS. PRIYA MITHUN PUTHRAN	609	200499	MR. SATHYANARAYANAN P V
570	112868	MR. HARIISH UPPILI	610	200544	MR. NARAYANAN G S
571	113905	MR. SUNIL BAJAJ	611	200582	MR. GEORGE CHERIAN
572	114647	MS. DIVYA SABHAPATHY	612	200603	MR. VENUGOPAL S
573	115239	MS. ASHWINI DILIP KAUNDINYA	613	200622	MS. RAJESWARI S
574	115603	MS. SHITAL SATISH CHHAJED	614	200645	MR. SRIDHAR NAGABANDI
575	116282	MR. TIWARI DHIRAJ	615	200698	MR. MADIVALAPPA
576	116287	MR. SANJIT H M	616	200709	MR. NAGESH B
577	116571	MR. PRANJAL BHAGWAN DESHPANDE	617	200711	MR. VENKATESWARLU K
578	117089	MR. SRIRAM GOPALAKRISHNAN	618	200722	MR. SEBASTIAN MATHEW
579	119279	MRS. DEEPA DEEPAK LOHANA	619	200723	MR. SAMUEL REJI ABRAHAM
580	120068	MR. NAVIN KUMAR GADIA	620	200748	MR. SIVA NAGESWARA RAO DORADIA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
621	200774	MR. RAMA CHANDRUDU Y	661	201659	MR. MANI VARGHESE
622	200802	MR. ANAND VENKATESWARA IYER	662	201702	MS. PRABHA DURAIRAJAN
623	200804	MR. VENKATARAMANA K	663	201783	MR. NARASIMHAN S
624	200808	MR. BALASUBRAMANIAN P C	664	201807	MR. ABDUL GAFOOR P
625	200823	MR. MADHU MENON K	665	201867	MR. SUBBA RAO P V
626	200837	MR. RAMESH N CHARI	666	201868	MR. VIJAYA KUMAR R
627	200844	MR. SYED JILANI	667	201873	MR. SAJE THOMAS
628	200874	MR. SHAMSUDHIN A	668	201887	MR. CHIDAMBARA R VISVESWARAN
629	200902	MR. PANDURANGARAO B	669	201960	MR. VINCENT K G
630	200912	MR. SOURIRAJAN A	670	202009	MR. BHOOPAL N
631	200933	MR. SRINIVAS G	671	202058	MR. GANAPATHI BHAT
632	200948	MR. KANNAN B	672	202066	MS. LEELAVATHI RAO A
633	200956	MR. MOORTHY P S	673	202110	MR. SRINIVASARAGHAVAN R
634	200966	MR. GURUNATHAN S	674	202111	MR. SHIBU ABRAHAM
635	200994	MR. SUDARSAN M C	675	202115	MR. RAVICHANDRAN L
636	201002	MR. PRADEEP I R	676	202154	MR. OMPRAKASH M S
637	201015	MR. DESHPANDE BALACHANDRA BHIMARAO	677	202177	MR. SRIDHAR H
638	201033	MS. ALAMELU AR	678	202201	MS. DHANLAKSHMI
639	201044	MR. GOPALAKRISHNAN V	679	202207	MR. RAVI CHANDRAN R
640	201115	MR. PAULY STANLY PAYYAPPILLY	680	202233	MR. JUSTIN RAO P
641	201118	MS. SUDHARANI S	681	202236	MR. PADMANABAN K
642	201123	MR. SUMITRA NANDAN SRIVATSA K	682	202266	MS. KALAISELVI M K
643	201127	MS. BHARATHI M V	683	202277	MR. SIDDHARTHAN P
644	201166	MRS. CHETANA NEERCHAL	684	202304	MR. RUTHURUSAMY R
645	201171	MR. BALACHANDRA CHADAGA P R	685	202365	MR. KASA KOTI VENKATA SRIKANTH
646	201175	MR. SUNDARAM K S	686	202435	MR. VAITHYANATHAN R
647	201178	MR. SUNDARRESAN N	687	202454	MR. PRASANNA M V
648	201190	MR. ARAVINDA SHENOY I	688	202494	MR. SELVA MANI V
649	201217	MR. BAHULEYAN S	689	202498	MR. RETHISH P
650	201245	MR. SUNDARRAJAN G	690	202503	MR. GEORGE JOSEPH
651	201264	MS. LATHA RAMAN	691	202583	MS. JAYASREE SRINIVASAN
652	201273	MR. TOMY MATHEW	692	202633	MR. NARAYANA RAO CH
653	201482	MR. ABRAHAM V VARKEY	693	202699	MR. RAVICHANDRAN V
654	201507	MR. RAMESH V S	694	202762	MR. PRADEEP C
655	201556	MR. NARAYANAN K	695	202787	MR. KISHORE KUMAR K
656	201557	MR. OMPRAKASH K V	696	202816	MR. MAHALINGAM RAMAKRISHNAN
657	201572	MR. RAMKUMAR S	697	202838	MR. RAVI S
658	201625	MS. USHA VIJAYAN	698	202857	MR. RAGHOTHAMAN S
659	201636	MR. SANTHIL NATHAN BALA SUBRAMANIAM	699	202866	MR. JAYARAM R
660	201645	MR. MOHANA KRISHNAN K	700	202875	MR. ASHRAF AHMED SHAKIR

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
701	202892	MR. MOHAN RAJAGOPALAN	741	203891	MS. SOBHA RANI MANDAVA
702	202928	MR. JALEEL V P	742	203909	MR. ARJUN ANANTH
703	202959	MR. RABI RAJ BHATTARAI	743	203916	MR. MAHESH G SHENDGE
704	203014	MR. RAMSUNDAR S	744	203945	MR. VENKATESWARAN M V
705	203037	MR. RAJENDRAN M P	745	203959	MR. RADHA KRISHNA KOMARAGIRI V B
706	203061	MR. VENKANNA NALLAMILLI	746	204010	MR. VENKATA KRISHNAN S
707	203066	MR. SATRUGHNA SARMA RACHAPUDI	747	204016	MR. JAGANNADHAN K S
708	203067	MR. RAJAN N	748	204019	MR. SUNDEEP KHANNA
709	203090	MS. AMURTHAVALLI S	749	204023	MR. PRAMOD RAMESH UDAIVER
710	203132	MR. CHANDRA REDDY B	750	204042	MS. SRIPRIYA R
711	203147	MR. MOHAMMED SADIQUE K M	751	204045	MR. LAKSHMINARAYANAN R
712	203171	MR. SUBRAMANIAM M	752	204047	MR. THOMAS T M
713	203221	MR. ABRAHAM A C	753	204069	MR. MARKANDAN T V
714	203258	MR. VENKATA REDDY CH	754	204079	MR. VENU P
715	203329	MR. SUBRAMANIAN K	755	204130	MR. SIVARAMAKRISHNAN C L
716	203367	MR. VISALAKSHAN P	756	204158	MR. ABDUL HAMEED A
717	203378	MR. ANAND RAO T V	757	204162	MR. BENNY THOMAS
718	203390	MR. BALAJI A V	758	204164	MR. TOMY JOSEPH
719	203404	MR. VENKATA LALITHA PRASAD KESIRAJ	759	204188	MR. PETER CLAVER SALDANHA
720	203450	MR. RAVICHANDRAN T	760	204213	MR. MANIKYA PRAKASH B
721	203458	MR. AJIT PAUL	761	204257	MS. UMA MAHESWARI A
722	203469	MR. RENJIT A G	762	204281	MR. VENU MADHAVA K
723	203479	MR. VENKATA RATNAM DHAVEJI C	763	204377	MR. BALAJI R
724	203500	MR. VENKATA RAMANA R	764	204404	MR. SRINIVASA RAO CH
725	203517	MR. LAKSHMINARAYANAN R	765	204440	MR. SRIRAM T
726	203527	MS. SUDHARSANA D	766	204455	MR. RAJASEKAR BALASUBRAMANIAN
727	203531	MR. LUMB DHOJ MAHAT	767	204456	MR. EKAMBARAM M E
728	203546	MR. SRIDHAR R	768	204460	MR. HARIHARAN G
729	203564	MR. PRASHANT M P	769	204477	MR. CHANDRAMOHAN V
730	203596	MR. VENKATA RATHNA KUMAR P	770	204499	MR. BALACHANDRAN S
731	203617	MR. MAHESH N	771	204502	MR. VINOD MATHEW
732	203619	MR. SRINIVASA MURTHY B S	772	204527	MS. SANDHYA K
733	203626	MR. SRINIVASAN A	773	204528	MR. RAVI KUMAR DHARBA
734	203676	MR. DEEPAK S R	774	204548	MR. ANIL JOSEPH
735	203680	MR. RAMASUBRAMANIAN J	775	204554	MR. SIVA REDDY Y V
736	203681	MR. DEVANANDA	776	204597	MR. BELAGUR H H
737	203711	MR. SRIDHAR R	777	204630	MR. PRAVIN RANGANATH N
738	203733	MR. SRINIVASA RAO KORADA	778	204638	MR. GOVINDHARAJAN V G
739	203751	MR. WAVELL L SIMONS	779	204666	MS. GOURI J CHANDER
740	203753	MR. RAM KUMAR BHATTI	780	204694	MS. LAKSHMI KIRAN SWATHY D

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
781	204718	MS. ASHA STANLEY	821	205864	MR. SANDEEP DESHPANDE
782	204741	MR. SRIDHAR S	822	205887	MR. VENKAT RAAMAN R
783	204798	MS. PRABA RAMADAS	823	205905	MR. HARANATH REDDY A
784	204811	MS. LAKSHMI RAMESH	824	205909	MR. VENKATASUBRAMANIAN R
785	204837	MS. NEERAJA V J	825	205918	MR. BALAJI R
786	204839	MR. DEVENDAR T D	826	205923	MS. HEMALATHA R
787	204856	MR. GANESH RAMAN ARAJULA G	827	205924	MR. ANIS T HAIDERI
788	204905	MR. SUNDARAMURTHY K	828	205926	MS. ANU VINDO JOHN
789	204919	MS. JAYANTHI N	829	205933	MR. PADMAKUMAR P
790	204939	MR. MAHALINGAM M	830	205978	MR. SURESH R
791	204996	MR. HARI KUMAR K G	831	205982	MR. RAGHAVENDRA GUPTA
792	205000	MR. BENNY P M	832	206015	MR. SIVAKUMAR M
793	205005	MRS. DEEPA FERDZ	833	206041	MR. ARVIND RAO V N
794	205014	MR. SREENIVAS RAO VEDULA	834	206070	MR. SRIRAM B
795	205069	MR. SUBRAMANIAN P S	835	206090	MR. PRASADA RAO K V D
796	205092	MR. SHASHIDHAR T	836	206100	MR. SRINIVASAN K T
797	205111	MR. YADLA MOHAN REDDY	837	206101	MR. RAM S PRASAD
798	205127	MR. THOMAS P GEORGE	838	206106	MR. HARINADHA REDDY V
799	205160	MR. GURUNATHAN R	839	206155	MR. RAVI SHANKAR KHANDARE
800	205176	MR. NAGESWARA RAO KATTAMURI	840	206181	MR. RAJIV PHILIP P N
801	205178	MS. HANDATH BICHKATHY MEERA SHENOY	841	206192	MS. KALA SUBRAMANIAN
802	205184	MR. THENAPPAN M	842	206214	MR. BENJAMIN JOHN ABRAHAM
803	205247	MR. CHIDAMBARAM R	843	206228	MR. RAJASEKAR R
804	205294	MR. RAVIKANTH M V	844	206231	MS. DEEPA T B
805	205308	MR. POONACHA P A	845	206237	MS. SHARMILA G
806	205331	MR. SHAH NAWAZ T	846	206249	MR. VENKATESH P A
807	205342	MR. RAVI SRINIVAS PRASAD	847	206289	MR. SRINIVASAN A
808	205387	MR. SHEIK ABDUL FAREED S	848	206293	MS. MARINA ANTHONY PINTO
809	205422	MR. PRASHANTH M P	849	206317	MS. ZEYONA ANN JOSE
810	205485	MR. ANANTHANARAYANAN S	850	206324	MR. SANJEEV A
811	205488	MR. SUNIL T K	851	206356	MS. MADHURI S
812	205595	MS. KAVITHA SUBRAMANIYAN	852	206388	MR. ERIC SALVADO MORRIS
813	205597	MR. RAJESHKHANNA C	853	206395	MR. MADHU PRASAD B V
814	205672	MR. RAMA MOHAN N A	854	206400	MRS. VASUNDRA JIWAN GUJARATHI
815	205673	MR. VENKATA RAMAN K	855	206410	MR. VENKATARAMANA S
816	205720	MR. SALIK M	856	206435	MR. SOMAYAJULU D V S N
817	205730	MR. RAMANATHAN L	857	206471	MS. SHARADA U
818	205759	MR. RAMA KRISHNA B V	858	206480	MR. VEERA NAGA BHASKARA RAO CHOLLAPUNEDI
819	205764	MS. POORNIMA SATHY	859	206511	MS. GEETHA N
820	205840	MR. SESHADRI N	860	206522	MS. SUMA K

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
861	206552	MR. BADYA S S N	901	207562	MR. ROBIN RAMAKRISHNA
862	206560	MR. ANIL KUMAR O M	902	207575	MR. RAJESH T B
863	206613	MR. GANESH P	903	207583	MR. RAM MANOJ KUMAR S S
864	206623	MR. SENTHIL KUMAR R	904	207623	MR. RAGAVENDRA H
865	206627	MR. KRISHNA P S S	905	207633	MR. SATISH K R
866	206644	MS. HEMA S	906	207634	MR. NIKHIL KARAN
867	206707	MR. SURYAPRAKASH S	907	207652	MR. MARUTHI RAGHURAM JONNALAGADDA
868	206726	MR. SRIRAM S	908	207674	MS. MYTHILI D
869	206737	MS. KAVITHA KARNATI LAKSHMI	909	207771	MS. PADMAJA CHOWDARY P
870	206758	MR. SREENIVASA R	910	207775	MR. VARDHA CHARY S
871	206782	MR. PRASHANTH KUMAR H R	911	207777	MS. FAROOKHA ANJUM
872	206813	MR. VIJAYANAND SRINIVASARAGHAVAN	912	207778	MR. MURALIDHARAN R
873	206872	MS. MEERA SHANKAR	913	207788	MR. DINESH KUMAR A K
874	206874	MR. MALLIKARJUNA SETTY NETHI	914	207790	MS. JAYACHITRA R
875	206956	MS. ASHWINI DILIP APTE	915	207798	MR. TOMY JAMES
876	206958	MR. SAPTHARISHI R	916	207849	MR. SHRIKANTH G
877	206981	MS. SUMATHI S	917	207876	MR. TIRUMALA SRINIVASA RAO BALANAGU
878	207003	MR. SRINIVASA RAO DOPPALA PUDI	918	207884	MR. NARAYANAN S
879	207042	MS. ARUNA P	919	207888	MR. SIVARAMAKRISHNAN T P
880	207084	MR. HEMA PRAKASH REDDY K	920	207902	MS. MAMTA SETHIA
881	207111	MR. SATYANARAYANA V V	921	207909	MRS. SUMATI GANESH
882	207112	MR. BARANIDHARAN B	922	207927	MR. SHASHIDHAR N
883	207128	MR. SRIRAMA SRINIVASAN J	923	207963	MR. BALAJI ADISESHAN S
884	207147	MR. BEJOY JOSEPH	924	208049	MR. SIVAPRIYAN N
885	207158	MR. JAMPANI APPARAO	925	208056	MR. SATYANARAYANA MEDA
886	207250	MR. RAJESH R	926	208068	MS. MAMATHA BALLA
887	207264	MR. GUNASHEKAR	927	208070	MS. PRODDATUR SRILATHA
888	207271	MR. SRINIVASA REDDY P	928	208091	MR. SRIDHAR G
889	207298	MS. YAMUNA J	929	208095	MS. MADHAVI B
890	207312	MS. JAYASREE O K	930	208113	MR. RANGAVITTAL K
891	207319	MR. MARTIN THOMAS P	931	208122	MR. DESAI ZULFIKHARHUSSAIN ABDULKARIM
892	207385	MS. SHALINI K S	932	208151	MR. SRINIVAS M
893	207407	MR. SHANMUGASUNDARAM N	933	208153	MR. RAJEEV KAUL
894	207409	MR. NAGASUNDER P	934	208165	MR. NANDEESHA P M
895	207414	MR. KUMAR J S	935	208171	MR. RAAMVATRAVAN R
896	207439	MR. RUPESH R	936	208191	MS. ARUNA M
897	207467	MS. SEEMA R	937	208194	MS. RAJESHWARI BALAKUMAR
898	207479	MS. GOSALA VIJAYA	938	208195	MS. ROOPA N BUNYAN
899	207514	MS. SHILPA G GANATRA	939	208220	MS. BEENAMMA REJI JOSEPH MATTAM
900	207536	MR. RAMA PRASAD V	940	208254	MR. RAMAKRISHNAN V

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
941	208323	MR. BADRINARAYAN S	981	209276	MR. VENKADESWARA PRASAD BULUSU
942	208351	MR. MOHAN R	982	209294	MR. RAMANATHAN N V
943	208373	MR. BELAVENDIRAN V	983	209297	MR. VENUGOPAL P
944	208386	MR. SYLESH BABU O V	984	209312	MR. NAVEEN S JATTI
945	208396	MR. PATNAIK PRASANTA KUMAR	985	209321	MR. MATTA SREENIVAS PEDDA
946	208437	MR. VINU THOMAS	986	209330	MR. NATARAJ P
947	208458	MR. RAMA KRISHNA D	987	209332	MR. AKELLA SRIRAM
948	208503	MR. MEENAKSHISUNDARAM V	988	209342	MR. SUNIL AGNEL JOHN SEQUEIRA
949	208509	MR. RAMESH S	989	209399	MR. SRINIVASA RAO CHAVARAM
950	208524	MR. SUDHAKAR REDDY D	990	209401	MR. MICHAEL STEPHEN
951	208575	MR. RAJA M V	991	209403	MS. GEETHA CHELLAPPA
952	208592	MR. VENKATARAMANA KALIVARAPU	992	209425	MS. VINITHA R
953	208628	MR. SOMANADHAN K	993	209454	MR. BALAMURUGAN R
954	208686	MS. RAMYA J	994	209457	MS. SREE VIDHYA K V
955	208769	MR. KOTHURI RAMESH	995	209529	MS. SUBHA BALAJI
956	208794	MR. SUDHEENDRA J	996	209542	MS. PREETHI JOSEPH
957	208810	MR. KUMAR G	997	209588	MR. GOSALA ANANTA VENKATA RAVIKANTH
958	208812	MR. DHARMENDHAR R	998	209594	MR. PERUMAHANTY BHUJANGA PRASAD
959	208818	MS. VISHAKHA CHHAWCHHARIA	999	209595	MR. JINESH N
960	208825	MR. BINU VARUGHESE	1000	209602	MR. RAGHURAMAN S
961	208869	MS. VINODHINI MANIVANNAN	1001	209610	MS. AARTHI N
962	208873	MR. HARI NARAYANAN G	1002	209624	MR. RAJESH R
963	208910	MR. ALAPATI S P PRASAD	1003	209650	MR. VISHNU VARDHAN REDDY K
964	208944	MR. PAI RAJESH ANANTH	1004	209652	MS. MUTHU MAGESHWARI R
965	208963	MR. VENKATA NARAYANA YAKKANTI	1005	209655	MS. MADHAVI V
966	208986	MR. PADMANABHA C K	1006	209675	MS. SILU JOSE
967	209002	MR. NIRANJAN SATPATHY	1007	209692	MR. RAGHAVENDRA M
968	209034	MR. PRASHANT M SHAH	1008	209706	MR. SHYAM SUNDAR K
969	209041	MR. RAMAKANTH PONNAPALLI	1009	209727	MR. PRADEEP A
970	209062	MR. SHIBU SAMUEL M	1010	209753	MR. ASHOK KUMAR R
971	209068	MR. KALAPPA K K	1011	209755	MR. SURYANARAYANAN S
972	209070	MR. SIMACHAL MOHANTY	1012	209758	MS. DEEPA SETHURAMAN
973	209167	MR. SARAVANAN S	1013	209774	MR. SANJAY KUMAR RATHORE
974	209172	MR. ASHWIN SHANKER	1014	209811	MS. KAVITHA NAHAR
975	209193	MR. BOBY KURIAN	1015	209850	MR. GIRI M S
976	209204	MR. GANAPATHY SUBRAMANIAN V	1016	209864	MR. GAURAV GUPTA
977	209232	MR. VIVEK SRIVATSAN	1017	209868	MR. LASITHANANDAN C
978	209244	MR. RAVI SANKAR PERVELA	1018	209878	MR. SHANMUGASUNDARAM S
979	209266	MR. LAKSHMANAN V	1019	209885	MR. SONY ABRAHAM
980	209270	MR. KUTTY CHANDRASEKHAR K	1020	209896	MR. KALYAN KRISHNAN K

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1021	209898	MR. MOHAMMED AFZAL KHAN	1061	210789	MR. VENKATA NAGA SAI SATYA VISWANADH KUCHI
1022	209935	MR. NARAYANAN R	1062	210807	MR. SHASHIKANTH R
1023	209947	MR. RATNAKARA SASTRY D	1063	210810	MS. PRIYA NARASIMHAN
1024	209952	MR. MADHUSUDHANA RAO PUPPALA	1064	210882	MS. AMOLIKA R PHADKE
1025	210073	MR. PALTI RAJA RANGA SUDHIR	1065	210908	MR. UMESH BABU J
1026	210079	MR. UPPILI S	1066	210947	MS. VEENADHARI SOMISETTI S
1027	210091	MR. MANDEEP MALHOTRA	1067	210950	MR. SUBRAMANIAN K E
1028	210094	MS. NANDINI V	1068	210964	MR. VENKATESWARA RAO SUNKARA
1029	210134	MR. SUBRAMANIAN R	1069	211010	MS. KAJAL GUPTA
1030	210138	MR. SOUNDAR RAJ C	1070	211021	MR. PREM KUMAR K
1031	210139	MS. UMA SANKARI PRAKASH	1071	211025	MR. ANIL KUMAR SARADA
1032	210142	MR. LALIT SHARMA	1072	211027	MR. NARAYANAN R
1033	210145	MR. SUBRAMANIAM V	1073	211031	MR. SUNDARESAN K
1034	210169	MS. PAVITHRA G	1074	211037	MR. SIVAKUMAR C
1035	210176	MR. SAMPATH KUMAR S	1075	211047	MR. ABHISHEK JAIN G
1036	210195	MR. SRIPAL SETHIA	1076	211051	MR. SRINIVAS V
1037	210260	MR. RAKSHITH M V	1077	211065	MR. RAGHAVENDER KUMAR S
1038	210266	MR. RAJESH P B	1078	211066	MR. MADHUSUDHAN RAO G
1039	210274	MR. BABU P	1079	211097	MR. ANJIREDDY K
1040	210306	MR. SRINIVASA RAO POTNURU	1080	211104	MS. SRIVIDHYA V S
1041	210346	MR. SUJIT KUMAR M	1081	211131	MS. SHRUTHI R
1042	210365	MR. RAVI CHANDRA JAIN	1082	211141	MR. GAUTAM AGARWAL
1043	210376	MR. SRIDHAR MUKKA	1083	211165	MR. KARIM KAMALUDDIN RAJANI
1044	210434	MR. ADARSH JALAN	1084	211169	MR. TURLAPATI KIRAN KUMAR
1045	210462	MR. EASWARDAS V	1085	211179	MR. MOHANDASS S
1046	210501	MR. VENKATESWARA RAO D	1086	211189	MR. RENJITH BOBU P
1047	210527	MS. LAKSHMI PRIYA K R S	1087	211195	MS. ANITHA VITTAL
1048	210595	MS. RINKY CHAKRABORTY	1088	211201	MR. VIJAYAKRISHNA R
1049	210609	MR. VENKATESHWARA RAO W D	1089	211234	MR. VENKATESWARAN M
1050	210639	MR. SAMPATHKUMAR P	1090	211235	MR. MADHU GOGULA
1051	210652	MR. SANDEEP KUMAR AGARWAL	1091	211273	MR. JAGANNATH PRASAD R
1052	210686	MR. HARISH V	1092	211303	MS. KAVITHA S
1053	210687	MR. MURALI KRISHNA J S	1093	211307	MR. HABIB NAZEER A
1054	210708	MR. MAHESH J PILLAI	1094	211313	MR. SANATH KUMAR R
1055	210734	MR. ASHWIN PANCHANADAM K A	1095	211321	MR. VIVEK DHARMA SANKARAN R
1056	210742	MR. SRIRAM S	1096	211353	MR. VIKAS PATWA
1057	210753	MR. SAIRAM V	1097	211354	MR. SWAMINATHAN K
1058	210758	MR. KIRAN KUMAR G	1098	211370	MS. SUJATHA RAJKUMAR
1059	210773	MS. NITHIYA PRIYA K	1099	211373	MS. SANDHYA C
1060	210782	MR. ACHARYA NIRANJAN SRISHA	1100	211380	MR. RAGHAVENDRA GUDUR

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1101	211382	MS. RADHA SRI HARI RAO V	1141	212100	MR. ARUN MOHAN
1102	211401	MR. JYOTHI SWAROOP M	1142	212101	MR. SATISH M K
1103	211431	MR. SUDHIR R	1143	212111	MS. KUSUMADEVI R H
1104	211437	MR. GOPAL RANJAN PADHEE	1144	212153	MR. PRAMOD PALLIYATH
1105	211443	MR. RAMPRASAD GATTU	1145	212179	MR. ANAND K
1106	211459	MR. MICHAEL JOSE	1146	212201	MS. ULAGAMMAI M
1107	211462	MR. GOKUL TAPADIA	1147	212223	MS. MEENAKSHI R
1108	211478	MS. NIRUPAMA MURTHY	1148	212267	MS. KELUR SUVARNA SHIDRAMAPPA
1109	211512	MR. LAKSHMI NARASIMHAN L	1149	212288	MR. VISWANATHAN SENTHIL
1110	211548	MR. RAVI THATAVARTHY	1150	212293	MR. JAMES T V
1111	211577	MR. KIRAN T	1151	212305	MR. CHETAN DHANUKA
1112	211578	MS. NISHITA NADELLA	1152	212318	MR. DEVAPRASAD A
1113	211618	MR. SURESH KUMAR KOMIRISHETTY	1153	212324	MR. ARVIND S
1114	211630	MR. SANJAY KUMAR JHAWAR	1154	212352	MS. SANDHYA B S
1115	211636	MS. SMITA MODI	1155	212388	MR. GANGAIAH G
1116	211664	MS. KOMATHI K	1156	212439	MR. GOKUL R
1117	211682	MR. KAMESH R	1157	212450	MR. KARTHIKEYAN S
1118	211683	MR. GANGADHARAN V	1158	212467	MR. POYAMOLI V
1119	211743	MR. MOHAMED ASMAVIL Y S	1159	212479	MR. HARISH C
1120	211761	MS. JESSY JOSEPH	1160	212506	MR. SIDDARTH MOHAN V ANUMUKONDA
1121	211768	MR. BASHYAM A S	1161	212519	MS. ANURADHA R
1122	211769	MR. VENKATRAMAN K P	1162	212522	MR. HARI BABU KUNAPANENI
1123	211782	MR. KANNA J	1163	212524	MR. RAJVIR SINGH
1124	211792	MR. RAHUL A SHAH	1164	212528	MR. VIJAYANAND RAO B
1125	211807	MS. RAJESWARI K M	1165	212545	MS. GNANAPRIYA B
1126	211808	MS. KRUTHIKA B	1166	212585	MR. VENKATA RAMESH BABU NUNNA
1127	211825	MR. VISHAL M SHAH	1167	212606	MR. BENCY JOSEPH
1128	211845	MR. HOTA MANOJ KUMAR	1168	212611	MR. HARISH POOJARY
1129	211852	MS. SARITHA T	1169	212616	MR. RAJ KIRAN AYYAGARI
1130	211871	MR. ROHIT NARAYAN KADNI	1170	212624	MR. ARUNAGIRINATHAN S
1131	211874	MR. SHYAM SUNDAR S	1171	212648	MR. GEORGE K MATHEW
1132	211876	MS. SRIDEVI R	1172	212668	MR. MOHAMED RAFFIQUE S
1133	211911	MR. BIXAM REDDY CHINTHA KUNTALA	1173	212743	MS. LAKSHMI G A
1134	211912	MR. SIREESH S	1174	212751	MR. SRINIVAS KALYAN CHAKRAVARTHY PUVVADA
1135	211971	MR. DHARMENDRA PANI	1175	212764	MR. SHRADDHESH H DOSHI
1136	211992	MR. SURESH S	1176	212772	MS. TRIPTI AGARWAL
1137	212007	MR. VINAY K SWAMY	1177	212789	MR. HARISH K S
1138	212048	MR. SAHAJANANDA REDDY T	1178	212809	MS. PADMAKSHI K V
1139	212061	MR. SUMESH V S	1179	212819	MR. CHANDRASEKARAN N
1140	212070	MR. LAWRENCE S	1180	212854	MR. VASUDEV NATHAN L

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1181	212861	MR. PANDIA RAJAN R	1221	213327	MR. NANI ARAVIND NALLAMOTHU
1182	212863	MR. HUNAGUND MALLIKARJUN PARAPPA	1222	213368	MR. RAJESH SHARMA
1183	212896	MR. HARISH KUMAR D	1223	213393	MS. ANJALI PRABHU
1184	212930	MR. RAJESH R K	1224	213407	MS. SUDHA M N
1185	212942	MS. ANUSHKA SANJAY KATARA	1225	213415	MS. ANUPAMA LAKSHMI YENAMANDRA
1186	212977	MR. MUPPALA SRIDHAR	1226	213432	MR. VENKATA RAMANA RAO NEERELLA
1187	212986	MS. MADHU KANKARIA S	1227	213433	MR. BHAT SANTOSH SHANKAR
1188	212988	MS. SANGEETHA A	1228	213450	MR. SURESH K
1189	212989	MR. VISWANATHAN V	1229	213454	MR. ANUJ JAIN
1190	212991	MR. AKHIL A KAPADIYA	1230	213493	MS. FIRDAUS KEHKASHAN
1191	212994	MR. RAGHAVENDRA KUMAR KOTLA	1231	213581	MR. DINESH KUMAR S
1192	212999	MR. KRISHNAN V	1232	213585	MR. CHANDRAKANTH PEDDADA
1193	213009	MR. SANTOSH NAIR R	1233	213612	MR. JAYAKRISHNA P
1194	213022	MS. PULAVARTHY RUKMINI DEVI	1234	213655	MR. MATHEW THOMAS
1195	213024	MR. SAMEER AHMED KHAN	1235	213665	MR. NARASIMHA REDDY B
1196	213027	MR. RAMESH GUNDA	1236	213672	MR. SEBY JOSE
1197	213032	MR. MOHAN KRISHNA J N V	1237	213699	MS. MALIKA JIVAN
1198	213040	MR. VISHAL VIJ	1238	213721	MR. BHASKAR KUMAR B
1199	213047	MR. SANTHANAM T R	1239	213729	MR. JIBY MATHEW ZACHARIAH
1200	213052	MR. LALATENDU MAHARANA	1240	213739	MR. KISHORE KUMAR CHALUVADI
1201	213054	MR. RANJAK KUMAR S	1241	213750	MS. UMADEVI T
1202	213085	MR. UMA RAGHAVENDRA RAO S	1242	213766	MR. VIJAYA PRATAP MANDAVA
1203	213087	MS. NANDINI TOSHNIWAL	1243	213778	MR. HARISHANKAR R
1204	213121	MR. GUNTIREDDY RAMESH CHANDRA	1244	213805	MR. PRADEEP KUMAR GUNDERAO
1205	213143	MR. SRINIVASA KUMAR THATAVARTHI	1245	213830	MR. SRIDHAR ANDHAVARAPU
1206	213165	MR. SUBHASH KUMAR TIBREWAL	1246	213845	MR. SIVAKUMAR R
1207	213175	MS. SRIVIDYA S	1247	213846	MR. VIJAY K R
1208	213182	MR. VENKATESH K	1248	213857	MS. GAYATHRI S
1209	213218	MS. GOURI VIJAY DEO	1249	213902	MR. RANGANATHAN R
1210	213219	MS. LALITHA S	1250	213909	MR. RANGANATH K
1211	213250	MR. GOPINATH MISHRA	1251	213940	MS. SUCHARITHA BANALA
1212	213254	MS. CHITRA M	1252	213944	MR. TRILOK LALIT RAHEJA
1213	213267	MS. ANJANA MARY PERUMAL	1253	213971	MR. DUSHYANT V MEHTA
1214	213269	MR. VIJAY KAUSHIK P R	1254	213996	MR. VIKAS KOTHARI
1215	213292	MR. KOMMURI VENKATA SUDHIR KUMAR	1255	214000	MR. DARAK GIRIDHARGOPAL VENUGOPAL
1216	213294	MR. DEVAKI LEELA NAGA SRINIVAS	1256	214003	MR. ANILKUMAR NAKIRIKANTI
1217	213301	MR. YELLA REDDY A	1257	214019	MR. PRASANNA K
1218	213311	MR. KALLEPALLI RAVINDRA VARMA	1258	214025	MS. ANITHA D SHENOY
1219	213315	MS. PRATHIBHA B	1259	214028	MS. MAMATHA A PANDYA
1220	213324	MS. RAJALAKSHMI C	1260	214044	MR. SUDHEER SATYAPAL S

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1261	214059	MS. SHREEVIDYA K	1301	214849	MR. SATISH MANDAVALLI
1262	214072	MR. NAGESWARA REDDY BOMMAVARAM	1302	214940	MR. DOMMETI RATNAKER RAO
1263	214143	MR. VINOD R	1303	214998	MR. RAIKAR VINAY SURENDRA
1264	214148	MR. CHAITANYA LINGAMALLU V R K	1304	215000	MS. SUHASINI RANGANATHAN
1265	214150	MR. SUDHAKAR K	1305	215043	MR. DEEPAK J S
1266	214158	MR. RAMA KRISHNA V V	1306	215055	MRS. SANDHIYA V PATHANGE
1267	214210	MS. RADHIKA B	1307	215061	MR. SATISH CH V V JADDU
1268	214225	MR. SUBRAMANYA PURANIK B N	1308	215070	MS. ANUSHA R
1269	214387	MS. SHRADDHA AGRAWAL	1309	215071	MR. MURALI KRISHNAIAH C V M
1270	214391	MR. KARTHIK BHAT	1310	215075	MR. SREENIVASA KUMAR RAVURI
1271	214400	MR. ROBIN K PAUL	1311	215077	MR. SELVAVINAYAGAM P
1272	214403	MS. AARATHI CHELLAMMAL N	1312	215086	MR. UGANDHAR NETTYAM
1273	214441	MR. SUNIL RAO A	1313	215092	MS. MEERA A S
1274	214449	MR. RAMA KRISHNA K	1314	215100	MS. LISHA JOHN
1275	214475	MR. RAMA KRISHNA BATHINENI	1315	215110	MR. ANIL POUDEL
1276	214508	MR. KULKARNI SANGRAM SUDHIR	1316	215124	MR. KASTHURI RANGAN B
1277	214511	MR. SYED SIRAJ	1317	215187	MR. DEEPAK KUMAR A
1278	214514	MR. GAURAV R SINGHVI	1318	215198	MR. HANS VARGHESE
1279	214564	MR. REGI P CHERIAN	1319	215219	MS. REKHA K
1280	214583	MR. SIVALANKA KALYANARAM	1320	215290	MR. UMESH HEGDE K
1281	214584	MS. MITU SURANA	1321	215299	MR. MATHEW AUGUSTINE
1282	214585	MS. ASHWINI S	1322	215302	MS. NITHYA NARAYAN
1283	214588	MR. BANDARU RAMBABU	1323	215334	MR. ARAI VISHWANATH CHANDRAKANT
1284	214624	MR. SAURABH AGARWAL	1324	215342	MR. MOHANTY SANTOSH KUMAR
1285	214629	MR. RAJESHA G	1325	215351	MR. SREEVATSA S
1286	214646	MR. JOLLY K S	1326	215372	MR. DEV DEEP M
1287	214649	MR. RAMA CHANDRA RAO P	1327	215399	MR. RAVI KUMAR BELDI
1288	214655	MS. DEBANSHI BASU	1328	215401	MR. VINU E JOMY
1289	214665	MS. KRISHNA PRIYA D	1329	215416	MR. UMA SHANKAR PATRO K
1290	214668	MR. SURESH VEMULA	1330	215454	MR. JOHAR ALI BATTERYWALA
1291	214683	MR. UMA SHANKAR K	1331	215456	MS. RANI S
1292	214698	MR. NARAYANA VEMULURI A L L	1332	215472	MR. ABHAY SHANKAR V
1293	214710	MR. JAGAN MOHAN K J	1333	215512	MR. SURENDRA KUMAR PAUDEL
1294	214712	MR. KAMLESH SINGH	1334	215522	MS. CHAITHRA K URAL
1295	214719	MR. PRERNA SACHDEV	1335	215593	MR. HARI KRISHNA DESU
1296	214745	MS. REKHA B	1336	215606	MR. SANNIDHI SIVA SUDHEER
1297	214754	MR. NAZEEL A	1337	215607	MR. RAGHAVA CHARY T
1298	214762	MR. VISHNU KUMAR SHARMA	1338	215614	MR. SANTHOSH A C
1299	214764	MR. RAMPRASAD T O	1339	215666	MR. SATEESH PASUPULETI
1300	214795	MR. SURESH K	1340	215682	MS. PRAPTI G

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1341	215745	MS. DHANYA AJAYKUMAR	1381	216515	MS. PRAVEENA K R
1342	215765	MR. VENKATA SURESH APPALA	1382	216599	MR. KARTHIK KOLLURI
1343	215768	MR. KRISHNAMURTHY SHIBARAYA	1383	216612	MR. UMESH B G
1344	215779	MR. SESHADRI V	1384	216633	MR. TARINI PRASAD RATNAIK
1345	215918	MR. SRIRAM P S	1385	216634	MR. SAURAV RAJ THAPALIYA
1346	215942	MS. NITHYA GOVIND	1386	216659	MS. MADHAVEE LATHA RACHAPALLY
1347	215969	MS. ASHWINI J KHATAVATE	1387	216665	MR. SHYAM PRASAD A
1348	215989	MS. CHAYA GOKHALE	1388	216668	MR. PRABHAKARAN V
1349	216020	MR. BALAMURUGAN B	1389	216678	MR. RAMACHANDRA RAO TUMMALA
1350	216044	MR. SURYANARAYANA MADALA	1390	216689	MR. ROHIT MATTHAN
1351	216050	MR. KAPUGANTY RAMESH	1391	216711	MR. JOBIN SEBASTIAN M
1352	216057	MR. RAVI PRAKASH PRATURI	1392	216750	MR. PRAMOD KUMAR T
1353	216070	MR. RAMA NAGA VARA PRASADA RAO PULI	1393	216762	MS. SONALI VENKATESH
1354	216073	MS. KRISHNA PRASHANTHI K	1394	216767	MR. AMITH ACHUTHA PRABHU
1355	216106	MS. SURYA KUMARI Y	1395	216779	MR. ADARSHA K G
1356	216110	MR. ANAND RAO	1396	216790	MS. SHEREEN MARY CHERIAN
1357	216129	MR. SATYANARAYANA K V S S N P	1397	216798	MR. GURUDUTT U PAI
1358	216143	MS. RAJESWARI R	1398	216818	MR. VENKATA RAMANA D
1359	216146	MS. ANUSHA RAGHUNATHAN	1399	216846	MR. RAGHAVENDRA RAO POGULA
1360	216151	MR. SANJAY MAHESHWARI	1400	216858	MR. PRAKASH ADIGA B
1361	216158	MR. VISHAL P AGARWAL	1401	216866	MS. MEENAKSHI AN
1362	216162	MR. SURAJ LAMICHHANE	1402	216900	MR. PERIYASAMY S
1363	216227	MR. RAMESH BAFNA	1403	216942	MR. RAJESHA B
1364	216242	MR. ANU ABRAHAM	1404	216954	MS. SRUJANA SHANKAR POLAVARAPU
1365	216269	MS. MAHALAKSHMI A	1405	217011	MR. RAJENDRA PRASAD TALLURI
1366	216289	MR. SRINIVASU CHEKKA	1406	217013	MS. ANJALI S RAO
1367	216304	MR. DHARMANSU ROUT	1407	217025	MS. RANJANI R
1368	216366	MR. SHIHABUDEEN THANGAL C A	1408	217028	MS. SARANYA V
1369	216367	MS. REVATHI	1409	217059	MS. CHITRA C
1370	216379	MR. VEERASEKARAN P	1410	217080	MR. KARTHIKEYAN K
1371	216382	MR. AMPURAN J K	1411	217114	MR. PREMKUMAR S
1372	216387	MS. KALPANA T	1412	217195	MS. UMAVALLI M
1373	216400	MR. SUBRAMANIAN K S	1413	217220	MR. ANEESH GEORGE
1374	216443	MS. NANDINI M	1414	217236	MR. AJO KANNOTH JOSEPH
1375	216470	MR. PATRO BENUDHAR	1415	217241	MR. SRIDHAR BABU G
1376	216471	MR. VINAY GULATI	1416	217244	MR. SREERESH PRAKASH
1377	216474	MR. SHANTILAL C	1417	217261	MR. SENTHIL KUMAR S
1378	216485	MR. THANGARAJ P	1418	217285	MR. SAMBATH KUMAR E M
1379	216494	MR. SUBHANKAR DAS	1419	217295	MR. VANJINATHAN M
1380	216509	MR. SURESH GOPAL PATIL	1420	217301	MS. BHARATHY K

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1421	217305	MS. PRIYANKA MANPURI	1461	218073	MR. SRINADH BARATAM
1422	217313	MS. DEEPA JIVAN	1462	218173	MS. KRITHIKA K
1423	217325	MR. GORAV GUPTA R	1463	218190	MR. BHANDARI ANAND SAREMAL
1424	217368	MR. HASHIR E V	1464	218204	MR. KUNDURU NARSIMHA REDDY
1425	217373	MR. VENKATARAMAN G	1465	218205	MR. PREM KUMAR L
1426	217404	MR. GANESAN S	1466	218226	MR. JENCIL PHIL PHILIP
1427	217407	MS. RADHIKA PRAGALAPATI	1467	218244	MR. ANAND PANICKER N
1428	217450	MR. VARANASI MAHESWAR RAO	1468	218265	MR. MURALI YANDURI
1429	217451	MR. TEJVIR SINGH	1469	218272	MR. RAMESH BABU RALLAPALLI
1430	217456	MR. SATHISH KUMAR R	1470	218285	MR. KHALID KHAN A
1431	217475	MS. SUKANYA NATH	1471	218290	MR. RAMBABU VARANASI
1432	217480	MR. NAGAPPAN M	1472	218303	MR. RAMESH KUMAR A
1433	217487	MS. BINDUGAYATHRI Y	1473	218383	MR. MANAF P K
1434	217493	MR. MOHANAKRISHNAN T	1474	218424	MR. MANOJ KUMAR SAHOO
1435	217494	MR. VENKATESH PRABHU	1475	218466	MR. YOGEESEA K J
1436	217542	MR. NAVEEN KUMAR VADDI	1476	218474	MR. JEEVAN KUMAR
1437	217555	MS. KRIPA BHATTAD	1477	218496	MR. SYED VIQUARUDDIN HUSSAIN
1438	217563	MR. ROSHAN POKHREL	1478	218501	MR. NAGA RAJU KUNDAKARLA
1439	217585	MR. SUBBARAYUDU C	1479	218509	MR. VISHNU VARDHAN REDDY R
1440	217588	MS. MANASI TRIPATHI	1480	218537	MR. VINAY N S
1441	217604	MR. MADAN MOHAN REDDY S	1481	218540	MR. ABDUL KHAYYUM SHAIK
1442	217613	MR. VENKATA NEHRU KUMAR T	1482	218546	MR. MATHEW P M
1443	217622	MS. PAYAL KOTHARI	1483	218556	MR. GANESH R
1444	217639	MR. AJIT KUMAR DHIR	1484	218564	MR. RISHI KOTHARI
1445	217647	MR. AMIT KUMAR TATER	1485	218640	MS. MAHALAKSHMI P
1446	217658	MS. AMNIK TALWAR	1486	218662	MR. SAJID RAZVI L M
1447	217707	MR. JAIRISHNAN G	1487	218672	MS. LAKSHMY V
1448	217780	MR. UPAYA KUMAR GATTY M	1488	218683	MR. SRIVATHSAN R
1449	217825	MS. JACQUILIN PREETHI Y	1489	218687	MR. LAKSHMI NARAYANAN S
1450	217844	MR. RAJENDRA KOIRALA	1490	218692	MR. ANUJ JAIN
1451	217884	MR. SUTHAKAR D	1491	218700	MR. PRAVEEN KUMAR JALLAN
1452	217903	MR. ABHISHEK JAIN	1492	218734	MR. ATTALURI V PHANI KISHORE
1453	217905	MR. AHMED HASHIM	1493	218741	MR. DEEPAK AVTAR GUPTA
1454	217918	MR. NISHIT KUMAR M MEHTA	1494	218759	MR. RAGAVAN C N V
1455	217928	MS. RENUKA CHANDRA SHRIYAN	1495	218765	MS. SREE RASHMI
1456	217930	MR. SANIL CHACKO	1496	218784	MR. JANARDHAN RAMACHANDRA HEBBAR
1457	217992	MR. GOPAL REDDY S	1497	218796	MR. ARAVIND KUMAR V A
1458	218030	MS. PRADEEPA K	1498	218855	MS. ARCHANA KOMANDURU
1459	218051	MR. GEORGEKUTTY KOLADY	1499	218892	MR. JAVED PARVEZ
1460	218061	MS. ABIRAMASUNDARI P	1500	218935	MR. SRINIVASAN S

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1501	218965	MR. NAVIN KUMAR A	1541	219701	MR. TEK NATH ACHARYA
1502	218967	MR. NATARAJ SEKHAR THUNUGUNTALA	1542	219736	MR. LOKESH BACHU
1503	218976	MR. VARGHESE C P	1543	219779	MS. SUNAYNA TAMRAKAR
1504	219027	MS. JABEENA BABOO	1544	219814	MR. RAMA PRASAD JAMI
1505	219033	MR. GURU SANTHANAM G	1545	219825	MR. KALYAN CHAKRAVARTHY K
1506	219039	MR. CALEB SHIREESH JACOBS	1546	219847	MR. KOLLIPARA SRINIVAS N V
1507	219041	MR. VENKATA PAVAN KUMAR MALLELA	1547	219862	MS. ANU JOSE
1508	219045	MR. SAI PRAVEEN P	1548	219869	MR. ANIL D'SOUZA
1509	219098	MR. RAMESH A	1549	219891	MR. AJEETH NARASIMHAN V
1510	219108	MR. BAIDIK SARKAR	1550	219962	MR. PRADHAN PRIYA DASS
1511	219118	MR. KOTESWARA RAO M	1551	219992	MR. SUBBA RAO CHINTA
1512	219134	MS. PREETHY MARY JOHNSON	1552	219994	MR. SRINIVASA RAO P
1513	219144	MR. VIJAY KUMAR BOYINA	1553	220010	MR. MURALI KRISHNA BONAGIRI
1514	219197	MR. BADRINARAYAN S	1554	220025	MS. PRATIBHA LOHANI
1515	219203	MS. ASIFA BANU SHAIK	1555	220035	MR. MUKESH GUPTA
1516	219206	MR. RAMACHANDRA REDDY K	1556	220061	MR. VAIDYANATHAN J
1517	219243	MS. RATHNAVANI K	1557	220071	MR. KISHORE KUMAR B
1518	219246	MS. MADHUCHANDA S CHOUGULA	1558	220078	MS. ASHWINI J
1519	219254	MR. PRATAP R	1559	220086	MS. LAKSHMI V S
1520	219298	MR. TENNETI SUDHAKAR	1560	220132	MR. ILAIAH DONGARI
1521	219301	MR. JOTHILINGAM S	1561	220149	MR. ASHRAF ALI MUSBA
1522	219306	MR. PEDDI REDDY T	1562	220172	MR. SOMA SEKHAR GOLLAPUDI
1523	219317	MR. GOPALA RATNAM ATMAKURI	1563	220215	MR. PRABHU C
1524	219354	MR. DEVALLA VEERA VENKATA APPA RAO	1564	220217	MS. SUDHA RANI YARRAPATRUNI
1525	219358	MR. KANAKADASS L	1565	220232	MR. AYINAPUDI BOBBY
1526	219405	MR. UGRASEN MUDULI	1566	220237	MR. VIKRAM KONDURU
1527	219436	MS. SATHIYA PRIYA B	1567	220255	MR. SKANDAPRASAD SEETHARAMAN
1528	219440	MR. SIDDARTH S	1568	220260	MS. ADITI ASHWIN KOTNIS
1529	219502	MR. ABDUL KALEEM B H	1569	220284	MS. RAMADEVI KHAREEDU
1530	219552	MR. PRADEEP V	1570	220287	MR. PRAKASH RAO M V S
1531	219577	MR. VENKATESWARA RAO KONDAVEETI	1571	220313	MR. RAJESHKUMAR K
1532	219585	MR. NEERAJ KUMAR MADDI	1572	220342	MR. KAMALESH K
1533	219595	MR. PAVAN K P	1573	220387	MR. MANNAVA RAMPRASAD
1534	219626	MR. NAGARAJA CHARY P	1574	220413	MR. SIRISH ANAND G
1535	219627	MR. RAVI H S	1575	220487	MR. ANIL KUMAR ARE
1536	219635	MR. RAJENDRA GADDE	1576	220488	MS. VIJAYA LAKSHMI GUMPENA
1537	219663	MS. DHIVYA	1577	220492	MR. RAMAKRISHNA REDDY BORRA
1538	219664	MR. SRIDHAR KUNDETI	1578	220518	MR. PRINCE K ABRAHAM
1539	219675	MS. NEENU SARA CYRIAC	1579	220535	MR. NAVEEN KUMAR M
1540	219676	MR. ROHIT NAIR R	1580	220585	MR. MALLIKARJUNA M S

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1581	220588	MR. SACHIN C	1621	221240	MR. AMAR ABRAHAM
1582	220618	MR. SRINIVASAN V R	1622	221274	MR. THAMMAIAH M K
1583	220633	MR. SURENDRA KUMAR K V P S N	1623	221290	MR. RAJESH BABU JAISWAL
1584	220673	MR. KARTHIK KUMAR K V	1624	221291	MR. ARAVINDHAN D
1585	220717	MS. VIJAYALAKSHMI A	1625	221293	MR. BOGGAVARAPU RAMA KRISHNA SUBRAMANYAM
1586	220725	MR. MAHESH MANICKHAM K	1626	221304	MR. GOVINDA RAJU J
1587	220728	MR. SASIDHARAN T	1627	221305	MR. SUDHEER KUMAR P
1588	220729	MS. SONU JAIN	1628	221321	MR. RAMESH REDDY ANAM
1589	220755	MR. DASH SABYASACHEE	1629	221338	MR. KRISHNA KISHORE NAMA
1590	220801	MR. RANJAN KUMAR PATI	1630	221342	MS. CHANDRAKALA H H
1591	220816	MS. POONAM SAHU	1631	221392	MR. LAKSHMI PURNA CHANDRA RAO CHELLA
1592	220852	MR. VENKATESWARA RAO THOTAKURA	1632	221394	MR. SUNIL KUMAR BILLAPATI
1593	220865	MR. KRISHNA SWAROOP D G V G	1633	221431	MR. SAURABH NOLAKHA
1594	220875	MS. UNNAMALAI AR	1634	221434	MR. VENKATARAMANA T
1595	220894	MR. KOLLA BHASKAR RAO	1635	221486	MR. KALIPRASAD PATNANA
1596	220904	MR. PARIKH JIMI RAJNIKANT	1636	221523	MR. PARAG KISHORE HERWADKAR
1597	220911	MS. NEELAM HARIKISHAN SHARMA	1637	221544	MR. LALIT MASKARA
1598	220951	MR. RAJAGOPALAN V	1638	221554	MR. MALADI KRISHNA MOHAN
1599	220955	MR. BHASKAR G	1639	221615	MR. KUMUDA CHANDRA MAHARANA
1600	220956	MR. RAVI KUMAR T	1640	221616	MR. ADRIAN LASRADO
1601	220972	MS. SUJATHA B	1641	221626	MR. RAJANEESH R
1602	220975	MR. NAGENDRA JANAPA REDDY V	1642	221660	MR. GOPALAKRISHNAN S
1603	221011	MR. JOHN SAMUEL C	1643	221662	MS. JEENA ELIZABETH GEORGE
1604	221024	MS. RANJITHA MUNAGALA	1644	221679	MR. SUNIL DIGAMBER PANTAWANE
1605	221061	MR. UMESH	1645	221727	MS. SUJA NAIR
1606	221073	MS. ALMITRA G REGO	1646	221738	MR. DINESH J
1607	221084	MS. SOWMYA ANAND	1647	221747	MR. KIRAN N
1608	221088	MS. SUBHA V MENON	1648	221756	MR. SIVA KRISHNA I V S N
1609	221091	MR. VENKATESWARAN M	1649	221762	MR. GUNASEKAR N
1610	221095	MR. POTHI MADHAVAN T	1650	221780	MR. NAVEEN KUMAR P
1611	221117	MR. RAMU JAMI	1651	221793	MR. SUSHIL KUMAR CHITGOPKAR
1612	221127	MR. KIRAN KUMAR KARAMSETTY	1652	221806	MS. MEENA NARAYANAN
1613	221132	MR. GUHAN V	1653	221811	MS. SAILAJA C
1614	221139	MR. MOHD HAMED ALI	1654	221826	MS. SIVAKAMI S
1615	221153	MR. EPARI VIKASH	1655	221829	MR. SURESH KUMAR RACHAPUDI
1616	221182	MS. MARY KAVITHA KATAKAM	1656	221837	MR. NAVAL KISHORE SASMAL
1617	221188	MS. DEEPTI MATHUR	1657	221841	MS. MEENA BALA DEVI KUMARI V
1618	221200	MS. MEGHANA T HINDOCHA	1658	221887	MR. SASANAPURI GURUNADHA RAO
1619	221207	MS. ANN JOE MAMPILLY	1659	221894	MR. SIVA NAGESWARA RAO GUMMADILLI
1620	221237	MR. SEBASTIAN PHILIP	1660	221908	MR. RAMA KRISHNA M

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1661	221909	MR. SACHENDRA DEWAN	1701	222467	MR. SATYAM S
1662	221919	MR. YOGANAND TAMMANA	1702	222468	MR. MOHD ABDUL QADER
1663	221922	MR. MANOHAR BABU ARVAPALLI	1703	222472	MS. HAMSINI AMRITHA S
1664	221927	MR. NAGAMALLIKARJUN POTLURI	1704	222503	MR. PRADHAN NANDAN KUMAR
1665	221932	MS. PRAVALLIKA YENDAMURI	1705	222525	MS. BARKHA SINGH
1666	221951	MR. RASHMIKANTA SWAIN	1706	222576	MS. SAVITHA PRAMOD V M S
1667	221971	MS. HIMA BINDU KANCHARLA	1707	222577	MR. AZEET KUMAR K
1668	221972	MR. THIRUKUMARAN V	1708	222588	MR. SONY JOSEPH
1669	221981	MS. ARUNA B	1709	222598	MS. V N S KUMARI K
1670	221983	MS. ASHA VINCENT	1710	222605	MS. PRIYA M
1671	221985	MR. VINOD H N	1711	222785	MR. RAGHAVAN J
1672	221997	MR. ROHITH RAVI	1712	222788	MR. YATHISH V A
1673	222004	MR. KARTHIK BHAT	1713	400235	MR. SHARMA VIVEK
1674	222015	MR. NARASHIMHAPRASAD RAMESH REVANKAR	1714	400575	MR. JAIN MUKESH KUMAR
1675	222074	MR. RAJESH BAPAT	1715	400899	MR. ARORA JITENDRA
1676	222080	MR. VENKATA SUBBA REDDY BIKKA	1716	401038	MR. PANDEY RAVINDRA KUMAR
1677	222081	MS. DEEPTHI PERATLA	1717	401318	MR. JAIN PRAFUL
1678	222120	MR. KRISHNAMOHAN S V	1718	401567	MR. NATH KARTIKEYA Y
1679	222155	MR. SANDEEP KUNCHAM J	1719	401604	MR. MAHARISHI SHANBILYA
1680	222177	MR. DINESH BABU S B	1720	401624	MR. AMIT KUMAR
1681	222179	MR. VIKRAM JOSHI	1721	402323	MR. GARG ABHISHEK
1682	222205	MS. POORNIMA PANTHULA	1722	402721	MR. PARASHURAMPURIA SOMESH
1683	222216	MR. SURESH KUMAR R M	1723	403402	MR. PRANAV KUMAR C
1684	222219	MR. PATIL NARAHARI LAXMANRAO	1724	403661	MS. GINITA SHAH
1685	222226	MR. NARASIMHA MURTHY K	1725	404003	MR. RAJ ABHISHEK
1686	222228	MR. PRAVEENKUMAR D S S	1726	404168	MS. JINDAL MANISHA
1687	222257	MR. MADHUKAR KAMATH K	1727	404244	MR. MODI AAKASH
1688	222273	MS. SUMANA SOORI	1728	404497	MR. JAIN UMANG
1689	222285	MR. VUCHIDI BALARAM	1729	404610	MS. GHORUI SUNANDA
1690	222290	MR. SIVARAM G	1730	406244	MR. VAIBHAV SURESH JOSHI
1691	222318	MR. SURESH NIMMALA	1731	407153	CA. VISHAL VIJAY
1692	222330	MR. MIDHUN ANAND	1732	407460	MR. MUKUL NARENDRA MOGRA
1693	222331	MR. SURESH KANNAN P	1733	407556	CA. ANGIMA GUPTA
1694	222335	MS. RAMA K	1734	409390	CA. KAPIL KUMAR GUPTA
1695	222338	MR. PRASAD MAMILLAPALLI	1735	500051	MR. GUPTA SATYA PRAKASH
1696	222381	MR. LALIT LALWANI	1736	500885	MR. GUPTA DUSHYANT
1697	222407	MR. RAMBHUPAL REDDY M	1737	501970	MR. RAJEEV KUMAR
1698	222428	MS. REENA MARY JOHN	1738	502037	MR. AGRAWAL MANOJ KUMAR
1699	222432	MR. HARSH VARDHAN LAKHOTIA	1739	502045	MR. SARAF ABHISHEK
1700	222443	MR. JAMI SANTOSH KUMAR	1740	502170	MR. JALAN PANKAJ KUMAR

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1741	503069	MR. MATHUR HARSH	1752	509587	MR. MAYANK JAIN
1742	503323	MR. PANJETA PARVINDER SINGH	1753	509719	MR. BINU KOSHY
1743	503613	MR. THATOI ANSHUMAN	1754	509886	MS. SMITHA UMESAN
1744	504211	MS. GUPTA JYOTSNA	1755	510026	MS. ASHWATI PODUVAL
1745	505978	MR. SINGLA NITIN	1756	510527	MR. SATISH TIRUMELA
1746	506513	MR. UTTAM KUMAR DHAKAL	1757	511283	MR. MUNISH KUMAR GARG
1747	506887	MR. VIVEK GUPTA	1758	511704	MR. PRASUN SAHU
1748	507180	MR. KHAGENDRA BHATTARAI	1759	511864	MR. JYOTHI PRAKASH R
1749	507712	MS. PADMA GURUNG	1760	512337	MR. ALAVI C P
1750	508410	MR. BINIT KUMAR	1761	513863	MR. NARASIMHA RAJU KOLUKULURI A
1751	509360	MR. NIRAJ CHOUDHARY			

T. KARTHIKEYAN
Secy.

3SCA(4)/3/2009-2010 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:-

S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
1	001279	MR. SUNDHARESAN S S	12/05/2009	21	005493	MR. THOMAS ABRAHAM IDASERIL	11/01/2009
2	001647	MR. JAYARAMAN C	05/11/2009	22	006231	MR. RAMAMURTHY S	03/10/2009
3	001658	MR. RAMACHANDRA RAMAIA CYPE	23/07/2009	23	006418	MR. RAMASWAMY K V	16/07/2009
4	002074	MR. DIKSHIT VACHASPATI	15/10/2009	24	006537	MR. SAMBASIVA RAO N	31/08/2009
5	002194	MR. NANDAGOPAL S	01/01/2009	25	006902	MR. MOHAMMAD SALEEMULLA	17/07/2009
6	002456	MR. NARASIMHAMURTY PILLUTLA	26/02/2009	26	006905	MR. SATYANARAYANA U	13/08/2008
7	002522	MR. LUKOSE ERIKATTU JOSEPH	14/02/2010	27	007302	MR. MATHRUBHOOTHAM IYER B	10/12/2009
8	002606	MR. JAGANNATHAN A R	18/09/2009	28	007694	MR. RAMAKRUSHNA RAJHA T R K	14/07/2009
9	002672	MR. VENKATARAMANAN M R	06/01/2009	29	007981	MR. JOHN M MAMMEN	11/02/2010
10	002709	MR. VENKOBA RANGANATHARAO	12/07/2009	30	008006	MR. SOUNDARARAJAN K	18/12/2009
11	002786	MR. RAMANA RAO M V	05/11/2008	31	008290	MR. DUTTA T S	14/09/2009
12	002884	MR. KHARIWAL MOHANLAL	07/01/2010	32	008924	MR. SEBASTIAN MATHEW VEEDON	06/03/2009
13	003351	MR. SIVASUBRAMANIAN NARAYANASAMI	20/12/2009	33	009156	MR. RAMA JOGA RAO B M	22/02/2009
14	003473	DR. RAJAGOPALAN R	31/03/2009	34	009646	MR. CHACKO K M	18/07/2009
15	003810	MR. RAJASEKARAN S R	06/10/2008	35	010314	MR. RAJU Y	07/04/2009
16	004009	MR. GAITONDE NARAYAN KRISHNA	11/12/2008	36	010962	MR. KRISHNAN S	01/03/2010
17	004326	DR. PATNAIK APPALANARASAYYA LIONEL	17/02/2009	37	013917	MR. RAMASWAMY S	16/05/2009
18	004610	MR. NARASIMHAM K	30/05/2009	38	014336	MR. VENKATARAMAN V	24/01/2009
19	004729	MR. VAIDYANATHAN V S	03/04/2009	39	014411	MR. UMA SHANKAR R	05/04/2009
20	005091	MR. KULATHU K L	21/01/2010	40	014883	MR. RANGARAJAN SRINIVASA	01/08/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
41	018103	MR. RAJA T L	10/10/2009	58	020880	MR. RAMANA MURTHY K V	18/07/2009
42	018798	MR. RAJAN R V	26/02/2009	59	021413	MR. BALASUBRAMANIAN S P	22/04/2009
43	018799	MR. NARAYANAN NAMPIATHIRI V	23/01/2010	60	022244	MR. RAMASUBRAMANIAM N	19/02/2009
44	019277	MR. MAHABALESWARAPPA I	19/12/2009	61	022376	MR. BALAKRISHNAN N	11/10/2009
45	019292	MR. VENKATARANGAN K H	04/11/2009	62	023537	MR. MAHADEVAN B	22/10/2009
46	019472	MR. VIJAYASHANKAR M R	25/06/2009	63	024370	MR. JOHN T O	25/10/2009
47	019557	MR. KAMESWARA RAO K	30/12/2009	64	025506	MR. MARSHALL D S	13/05/2009
48	019605	MR. SATYANARAYANA MURTI B V	23/10/2008	65	025827	MR. MALNEEDI SREENIVASA RAO	23/05/2008
49	019675	MR. HARI PRASAD BURLE	13/07/2009	66	026378	MR. VERNEKAR N S	10/01/2009
50	019767	MR. NAMASIVAYAM V P	14/04/2009	67	026518	MR. RAMAN M	15/01/2008
51	019849	MR. MISHRA RADHE SHYAM	10/04/2009	68	050294	MR. ASHIM KUMAR DEY BHOWMICK	26/01/2009
52	020008	MR. VELUVALI RAMA RAO	07/09/2009	69	201742	MR. SANTHOSH B	27/03/2009
53	020106	MR. PARTHA SARATHY G	19/10/2009	70	209257	MS. RENUKA DEVI R	17/01/2009
54	020310	MR. SHIVANNA B S	16/05/2009	71	209509	MR. SHEAK AHAMED BASHA	27/06/2009
55	020702	MR. SAMPATH B	22/06/2009	72	212704	MR. KRISHNAN G	02/04/2009
56	020706	MR. DURGA PARAMESWARAN R	19/03/2007	73	216145	MR. GANESH S	10/09/2009
57	020871	MR. SUBBA RAO PENDELA VENKATA	29/10/2009	74	217200	MR. AILA SATEESH KUMAR	29/01/2010

T. KARTHIKEYAN
Secy.

3SCA(8)/1/2009-2010: In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
1	002679	MR. CHENGALVAROYAN M T FCA	01/04/2009	26	023555	MR. NAGARAJAN V R FCA	21/08/2009
2	002938	MR. NATARAJAN G S FCA	01/04/2009	27	024204	MR. SHANKER RAMAKRISHNAN B ACA	17/07/2009
3	004896	MR. SATYANARAYANAMURTHY N FCA	01/04/2009	28	024801	MR. SRIDHARAN V V FCA	30/06/2009
4	005085	MR. RAMASAMY K S FCA	12/07/2008	29	025240	MR. VAIDYANATHAN L S FCA	02/04/2008
5	005969	MR. DEVANATHAN M D ACA	01/04/2009	30	025869	MS. NEELA MARINA GONSALVES ACA	10/10/2009
6	005993	MR. RAGHAVACHARYULU M ACA	01/04/2009	31	026127	MR. PAUL VARGHESE FCA	01/04/2009
7	006230	MR. VISWANATHAN GOKUL FCA	01/04/2008	32	026546	MR. GURURAJA RAO W FCA	22/09/2009
8	006352	MR. SUBRAMANIAN K K FCA	01/04/2009	33	026664	MR. PRAKASH S G FCA	02/04/2009
9	011642	MR. KRISHNAMURTHY J FCA	31/05/2009	34	026792	MR. SATISH KUMAR DUTT FCA	12/09/2009
10	012417	MR. SURYASEKHAR MAHADEVAN ACA	01/04/2009	35	026910	MR. SAI RAM B V S FCA	01/02/2010
11	015531	MR. CHANDRASEKHAR THODLA SANTANAM ACA	01/04/2009	36	027061	MR. HARA GOPAL T ACA	01/12/2009
12	018068	MR. SAKTHIVEL V FCA	18/10/2009	37	027304	MR. RENGARAJAN M R FCA	22/09/2009
13	018090	MR. ANANTHARAMAN K R FCA	01/10/2009	38	027670	MR. RANGANATHAN C K ACA	18/03/2010
14	019220	MR. RAGHUVEER NAYAK P FCA	01/10/2009	39	028241	MR. RAM PRASAD D ACA	20/10/2009
15	019480	MR. VIJAYKUMAR M N FCA	01/12/2009	40	028384	MR. PRABAKAR B FCA	01/04/2009
16	019882	MR. SUKUMAR S FCA	18/02/2010	41	028620	MR. VARADHARAJAN D N FCA	31/03/2009
17	020190	MR. ASHOK K P FCA	28/01/2010	42	028738	MR. GIRIDHARAN D K FCA	26/02/2010
18	020554	MR. HEMAKESHWARAPPA FCA	26/03/2009	43	029001	MR. VEERAPPAN N FCA	08/02/2010
19	020710	MR. SUBRAMANIAN V FCA	15/03/2010	44	029116	MR. BALASUNDARAM S FCA	01/10/2009
20	020884	MR. MURALIKRISHNA C FCA	27/09/2009	45	048996	MR. GORADIA HITENDRA ACA	27/08/2009
21	021248	MR. BABU SHANKAR S R FCA	23/06/2009	46	049637	MR. JITENDRA KUMAR ACA	31/12/2009
22	022031	MR. SREEDHAR R FCA	15/10/2009	47	059191	MR. NAG ANGSHUMAN ACA	16/02/2010
23	022311	MR. RAMESH RAJAN N FCA	01/10/2009	48	061031	MR. JAISWAL ANAND KUMAR FCA	01/04/2009
24	022873	MR. MOHAMMED ABDUL SATTAR FCA	01/04/2009	49	064725	CA. DIPPI GOYAL ACA	22/09/2008
25	022905	MR. BALA SUBRAHMANYA SARMA V V FCA	01/05/2009	50	065674	CA. NIKHILADRI MOHARANA ACA	25/01/2010

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
51	070270	MR. ABINANDAN KUMAR P ACA	16/07/2009	81	208765	MR. BALAKRISHNA PEDDI FCA	04/02/2010
52	071328	MR. RAMACHANDRA FCA	30/01/2010	82	208777	MR. VENKATARAMANAN L FCA	19/01/2010
53	085057	MR. SANKARANARAYANAN R FCA	01/04/2009	83	208975	MR. RAMESHA BHAT K FCA	01/03/2009
54	088124	MR. ARUMUGHA MOHAN ALANKAMONY FCA	21/04/2008	84	209217	MR. SIVA SANKARA PRASAD RAMINENI FCA	01/05/2009
55	108543	MS. LAKSHMI NARAYANAN FCA	01/09/2008	85	209292	MR. SURESH V B FCA	11/11/2009
56	112350	MS. SHRUTI SUDHIRKUMAR AGRAWAL ACA	31/08/2009	86	209374	MR. LOGANATHAN N ACA	10/09/2009
57	113988	MS. PUJA PURUSHOTTAM PAPRUNIA ACA	15/12/2009	87	209491	MS. NITHYA P ACA	01/04/2009
58	115664	MS. TRUPTI OMPRAKASH DHANNAWAT ACA	31/08/2009	88	209581	MR. JOY P P ACA	21/01/2010
59	200406	MR. VENKATESWARA RAO KOLLURI FCA	25/11/2009	89	209841	MS. SRISATHYA ACA	24/06/2009
60	200479	MR. VENKATESWARAN T S FCA	01/09/2009	90	210450	MR. SAKARAY LAMBADAY ERESHI RAO ACA	31/12/2009
61	201456	MS. SUMATHY T FCA	01/12/2009	91	211199	MR. ABRAHAM KURIAN FCA	31/03/2009
62	201543	MR. NARAYANAN P K FCA	11/09/2009	92	211387	MR. CHANDRA MOULI G L N ACA	01/12/2009
63	202284	MR. VENKATARAMAN P N ACA	27/10/2009	93	211413	MR. MEIYARPHAN SP FCA	18/07/2008
64	203506	MS. MADHUMATHI L FCA	31/07/2009	94	211581	MR. VENKATA SREENIVASA RAO K ACA	09/07/2009
65	203711	MR. SRIDHAR R FCA	01/12/2009	95	211947	MR. MATLAKUNTA SHYAM ACA	01/12/2009
66	204076	MR. SIVA PRASAD PULAVARTHI ACA	01/02/2010	96	212242	MR. BADRINARAYAN S FCA	26/03/2010
67	204581	MR. SRIRAM N FCA	14/09/2009	97	212485	MS. SWAPNADEVI MANDAVA ACA	01/09/2009
68	204587	MR. SRINIVASA RAO M FCA	01/04/2009	98	212492	MR. RANGAPPA S FCA	11/09/2009
69	204756	MR. NAGANATHAN SHRIKANTH FCA	27/04/2009	99	212581	MS. SANDHYA G ACA	17/09/2009
70	204972	MR. RAO S S FCA	31/10/2009	100	212989	MR. VISWANATHAN V ACA	19/10/2009
71	205394	MR. SUNEEL KUMAR APPAJI FCA	01/05/2009	101	213338	MR. SUNDAR N FCA	07/09/2009
72	205577	MR. JAGANNADHA NAIDU P ACA	10/03/2010	102	213639	MR. PARASHURAM N ACA	18/03/2009
73	206518	MS. PRABHA B FCA	29/12/2009	103	213783	MR. NAGESH HEGDE S FCA	31/10/2009
74	207027	MR. AKULA VENKATA SUDHAKAR FCA	01/04/2009	104	214196	MS. UMA DEVI P U ACA	30/06/2009
75	207178	MS. SHARADA PRASANNA S ACA	03/12/2009	105	214227	MR. BALASUBRAMANIAN S FCA	17/07/2009
76	207653	MR. HARIHARAN S ACA	01/04/2009	106	214323	MS. DEEPTHI M ACA	06/07/2009
77	208211	MR. VENKATESVARAN P ACA	01/04/2009	107	214335	MR. GURUSUNDARAM G FCA	20/10/2009
78	208522	MR. PRASHANT K V ACA	12/12/2009	108	214422	MR. JOSHY MANUEL FCA	20/03/2010
79	208556	MR. NARAYANA MURTHY SANKA FCA	01/12/2009	109	214527	MR. SUDHAKAR G ACA	31/03/2009
80	208577	MR. VEERAPANENI MURALI KRISHNA ACA	01/04/2009	110	214549	MR. SREENIVASULU PALLA ACA	21/07/2009

S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE	S NO	MRN	MEMBER NAME	CANCEL DATE
111	215136	MR. SANTOSH KUMAR JAIN P ACA	26/03/2010	142	221175	MS. GAYATRI P CH ACA	26/06/2009
112	215263	MR. BARANIDHARAN S FCA	31/08/2009	143	221242	MR. LOHITH B N ACA	27/08/2009
113	215368	MS. LAKSHMI K ACA	21/12/2009	144	221341	MR. KANNAN M ACA	09/02/2010
114	216175	MR. ARUN ANAND ACA	24/08/2009	145	221366	MS. CHAITHANYA KEERTHY M ACA	10/11/2009
115	216617	MR. CHANDAN ANCHALIA A ACA	01/03/2010	146	221476	MR. NIMBALKAR NITIN RAMESH ACA	24/03/2009
116	216981	MR. KAMESHWARA SHARMA T ACA	10/07/2009	147	221595	MR. SHANKAR B N ACA	01/04/2009
117	217104	MR. SRINIVAS V ACA	10/01/2010	148	221896	MR. SANTHOSH KUMAR P ACA	01/04/2009
118	217213	MR. SATISH KUMAR MALLADI ACA	12/08/2009	149	222017	MR. SHYAM S R ACA	25/02/2009
119	217250	MR. KIRAN KUMAR Y ACA	10/08/2009	150	222172	MS. MAMATA PANDA ACA	01/01/2010
120	217425	MR. SANDESH MULALDAKA ACA	10/03/2010	151	222311	MR. HARISH M B ACA	19/01/2010
121	217746	MR. GUHESAN T ACA	31/03/2009	152	222427	MR. VENKATA RAMANA OBHINNI ACA	01/03/2010
122	217853	MR. SAI PRASAD A ACA	11/11/2009	153	222563	MR. SANDEEP N S ACA	21/10/2009
123	218039	MR. VEERABATHIRAN R ACA	01/04/2008	154	222716	MR. RAJA MOHAN V S ACA	25/07/2009
124	218066	MR. SIVA KUMAR J ACA	01/04/2009	155	222742	MR. KOTA KRISHNA KANTH ACA	21/08/2009
125	218276	MS. THERESA D ACA	01/04/2009	156	222859	MR. VISHWAS N PRABHU ACA	10/10/2009
126	218407	MR. RAJAGOPALAN B ACA	18/11/2009	157	223093	MS. AMBICA S U ACA	22/03/2010
127	218445	MR. SATHISH KUMAR B ACA	02/12/2009	158	223218	MR. KALADHAR RAO MADDALI ACA	20/10/2009
128	218911	MR. MAHENDRA M ACA	20/01/2009	159	223277	MR. SUDHIR JAIN ACA	15/12/2009
129	219135	MS. MAMATHA PULAGAM ACA	31/12/2009	160	223331	MR. GOWTHAM BHARADWAJ V ACA	01/11/2009
130	219149	MR. RAMA KRISHNA U ACA	29/04/2009	161	223335	MS. PUJARI SANGEETA PUNDALEEKASA ACA	10/03/2010
131	219419	MR. RAKESH KUMAR ATHOTA ACA	31/03/2009	162	223391	MR. VINOTHKUMAR R ACA	30/12/2009
132	219423	MR. MANJUNATHA TUNGA P ACA	12/05/2009	163	223402	MR. PAVAN KUMAR PATCHIPULUSU ACA	28/10/2009
133	219974	MR. DAMODHAR JANNU ACA	01/04/2009	164	223423	MS. SUVASINY ASHOK ACA	20/11/2009
134	220196	MR. VENKATA RAO RAVIPATI ACA	05/12/2009	165	223433	MR. DHARANI VIJAY KRISHNA ACA	19/11/2009
135	220529	MR. BHARADHWAJ D ACA	01/03/2010	166	223465	MR. KULKARNI SRINIVAS BABURAO ACA	03/11/2009
136	220609	MR. BINQJ K S ACA	31/03/2009	167	223486	MR. MAHESH SHASHIKANT MORE ACA	09/01/2010
137	220722	MR. JAINIK B PANDYA ACA	01/04/2009	168	223644	MR. ATHEEQ AHMED ACA	27/02/2010
138	220774	MR. BASAVARAJ KANTHEPPA BALEGER ACA	22/02/2010	169	223940	MR. MUNEER AHAMED N ACA	15/02/2010
139	220837	MR. SHIVA KUMAR H ACA	28/05/2009	170	224244	MR. ASHISH K DOSHI ACA	09/03/2010
140	221128	MS. USHA S ACA	01/06/2009	171	409489	CA. PROBAL CHATTERJEE ACA	30/09/2009
141	221151	MR. SATISH KUMAR V ACA	01/10/2009	172	500489	MR. MAHIPAL VINAY KUMAR FCA	01/04/2009

T. KARTHIKEYAN

Secy.

3SCA(8)/2/2009-2010: In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 1st October 2009, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
1	002948	MR. GOPINATHAN N, FCA	26	022037	MR. RANGAN S V, FCA
2	004576	MR. GANGULI RAMENDRA CHANDRA, FCA	27	022331	MS. SUGUNA KRISHNAMURTHY, FCA
3	009240	MR. SEETHARAMAN M N, FCA	28	022594	MR. SRINIVASAN S P, ACA
4	009660	MR. SEETHARAMAN J, FCA	29	022644	MR. ANANT RAO V, FCA
5	011452	MR. VAITHISWARAN B R, FCA	30	023350	MR. MALLIKARJUNA B V, FCA
6	011753	MR. SUDHARSAN T K, ACA	31	023416	MR. VENKATARAMAN NIVARTHI K, FCA
7	012481	MR. MURALIKRISHNA VADDADI, FCA	32	023609	MR. RAMAKRISHNAN S, FCA
8	013261	MR. SHERIN C V, FCA	33	024525	MS. SAVITHRI SURESH, ACA
9	013292	MR. SATISH CHANDRA KHEMCHAND K, FCA	34	024583	MR. SRIDHAR G, ACA
10	014425	MR. SANKARAN N P, ACA	35	025148	MR. JAYARAMAN D, ACA
11	014799	MR. RAMAKRISHNA ANANTHANARAYAN, FCA	36	025195	MR. DWARAKANATH N, FCA
12	015038	MR. GOPALAKRISHNAN S R, ACA	37	025473	MR. SWAMINATHAN A, FCA
13	015210	MR. RAMA KRISHNAN P S, ACA	38	025485	MR. LAXMI NARASAPPA Y, ACA
14	015772	MR. SAI BABU RAO NANDURI, FCA	39	025573	MR. DHANANJAYA C, FCA
15	018311	MR. SASIDHARAN NAIR B, ACA	40	025860	MR. SHANMUGAM D, FCA
16	018564	MR. JEYARAMAN P L A, FCA	41	026679	MR. MANOHAR P, ACA
17	018905	MR. KRISHNA A G, FCA	42	027184	MR. VARADHARAJAN R, FCA
18	019143	MR. GIRIJA SANKAR G, FCA	43	027602	MR. NAGENDAR D, FCA
19	019497	MR. RAJENDRAN C D, FCA	44	027924	MR. EAPPAN PHILIP, FCA
20	019727	MR. VENKATESWARLU MENTA, FCA	45	027996	MR. BEN JACOB G, ACA
21	019835	MR. SATCHIDANANDAN T V, ACA	46	028042	MR. ZAVIER A M, ACA
22	019984	MR. SYED JALALUDDIN, ACA	47	028627	MR. RAVIKUMAR G RAO, ACA
23	020211	MR. BABU NATARAJAN D, ACA	48	028846	MR. BINOD N, ACA
24	020768	MR. LALITH KUMAR M, FCA	49	029748	MS. SAIGEETHA N, ACA
25	021737	MR. SITHARAMAYYA C, FCA	50	047840	MS. PARIKH MONISHA MADANMOHAN, ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
51	047868	MR. SURENDHREN M, ACA	81	204460	MR. HARIHARAN G, FCA
52	051096	MR. MOR SUNIL KUMAR, FCA	82	204499	MR. BALACHANDRAN S, ACA
53	057985	MR. PRAMOD BANTHIA, FCA	83	204741	MR. SRIDHAR S, FCA
54	061895	MS. SONU MUNDRA, ACA	84	204811	MS. LAKSHMI RAMESH, ACA
55	088138	MR. RAVI KUMAR G, ACA	85	204837	MS. NEERAJA V J, FCA
56	088948	MR. KOSHY P GEORGE, ACA	86	205111	MR. YADLA MOHAN REDDY, ACA
57	095415	MR. TRIPATHY PRIYABRATA, ACA	87	205127	MR. THOMAS P GEORGE, ACA
58	095829	MR. AGRAWAL KUNJ BEHARI, FCA	88	206100	MR. SRINIVASAN K T, ACA
59	116571	MR. PRANJAL BHAGWAN DESHPANDE, ACA	89	206395	MR. MADHU PRASAD B V, ACA
60	200110	MS. MALATHI NATARAJAN, ACA	90	206400	MS. VASUNDRA JIWAN GUJARATHI, FCA
61	200400	MS. AUDREY MILLER, FCA	91	207112	MR. BARANIDHARAN B, FCA
62	200499	MR. SATHYANARAYANAN P V, FCA	92	207147	MR. BEJOY JOSEPH, ACA
63	200808	MR. BALASUBRAMANIAN P C, FCA	93	207319	MR. MARTIN THOMAS P, ACA
64	200948	MR. KANNAN B, ACA	94	207849	MR. SHRIKANTH G, ACA
65	201002	MR. PRADEEP I R, ACA	95	208151	MR. SRINIVAS M, FCA
66	201702	MS. PRABHA DURAIRAJAN, ACA	96	208458	MR. RAMA KRISHNA D, ACA
67	201867	MR. SUBBA RAO P V, ACA	97	208812	MR. DHARMENDHAR R, ACA
68	202009	MR. BHOOPAL N, ACA	98	208869	MS. VINODHINI MANIVANNAN, ACA
69	202154	MR. OMPRAKASH M S, ACA	99	209002	MR. NIRANJAN SATPATHY, ACA
70	202583	MS. JAYASREE SRINIVASAN, FCA	100	209244	MR. RAVI SANKAR PERVELA, ACA
71	202633	MR. NARAYANA RAO CH, ACA	101	209454	MR. BALAMURUGAN R, FCA
72	202816	MR. MAHALINGAM RAMAKRISHNAN, FCA	102	209529	MS. SUBHA BALAJI, ACA
73	203147	MR. MOHAMMED SADIQUE K M, ACA	103	209650	MR. VISHNU VARDHAN REDDY K, ACA
74	203221	MR. ABRAHAM A C, ACA	104	209727	MR. PRADEEP A, ACA
75	203527	MS. SUDHARSANA D, FCA	105	209758	MS. DEEPA SETHURAMAN, ACA
76	203546	MR. SRIDHAR R, ACA	106	209811	MS. KAVITHA NAHAR, FCA
77	203619	MR. SRINIVASA MURTHY B S, ACA	107	209878	MR. SHANMUGASUNDARAM S, ACA
78	203753	MR. RAM KUMAR BHATTI, ACA	108	209885	MR. SONY ABRAHAM, ACA
79	204042	MS. SRIPRIYA R, ACA	109	210073	MR. PALTU RAJA RANGA SUDHIR, ACA
80	204404	MR. SRINIVASA RAO CH, ACA	110	210091	MR. MANDEEP MALHOTRA, ACA

S NO	MRN	MEMBER NAME	S NO	MRN	MEMBER NAME
111	210176	MR. SAMPATH KUMAR S, ACA	133	216367	MS. REVATHI, ACA
112	210789	MR. VENKATA NAGA SAI SATYA VISWANADH KUCHI, FCA	134	217013	MS. ANJALI S RAO, ACA
113	210807	MR. SHASHIKANTH R, ACA	135	217244	MR. SREERESH PRAKASH, ACA
114	210964	MR. VENKATESWARA RAO SUNKARA, FCA	136	217373	MR. VENKATARAMAN G, ACA
115	211025	MR. ANIL KUMAR SARADA, ACA	137	217903	MR. ABHISHEK JAIN, ACA
116	211097	MR. ANJIREDDY K, ACA	138	217928	MS. RENUKA CHANDRA SHRIYAN, ACA
117	211303	MS. KAVITHA S, ACA	139	218383	MR. MANAF P K, ACA
118	211307	MR. HABIB NAZEER A, ACA	140	218976	MR. VARGHESE C P, ACA
119	211382	MS. RADHA SRI HARI RAO V, FCA	141	219197	MR. BADRINARAYAN S, ACA
120	211782	MR. KANNA J, ACA	142	219354	MR. DEVALLA VEERA VENKATA APPA RAO, ACA
121	211876	MS. SRIDEVI R, ACA	143	219779	MS. SUNAYNA TAMRAKAR, ACA
122	212007	MR. VINAY K SWAMY, FCA	144	219862	MS. ANU JOSE, ACA
123	212179	MR. ANAND K, ACA	145	220025	MS. PRATIBHA LOHANI, ACA
124	212989	MR. VISWANATHAN V, ACA	146	220955	MR. BHASKAR G, ACA
125	213022	MS. PULAVARTHY RUKMINI DEVI, ACA	147	221095	MR. POTHU MADHAVAN T, ACA
126	213027	MR. RAMESH GUNDA, ACA	148	221188	MS. DEEPTI MATHUR, ACA
127	213143	MR. SRINIVASA KUMAR THATAVARTHI, ACA	149	221293	MR. BOGGAVARAPU RAMA KRISHNA SUBRAMANYAM, ACA
128	213294	MR. DEVAKI LEELE NAGA SRINIVAS, ACA	150	221806	MS. MEENA NARAYANAN, ACA
129	213699	MS. MALIKA JIVAN, ACA	151	222163	MR. VIPIN K K, ACA
130	214564	MR. REGI P CHERIAN, ACA	152	222216	MR. SURESH KUMAR R M, ACA
131	216070	MR. RAMA NAGA VARA PRASADA RAO PULI, ACA	153	222472	MS. HAMSINI AMRITHA S, ACA
132	216289	MR. SRINIVASU CHEKKA, ACA	154	404168	MS. JINDAL MANISHA, ACA

T KARTHIKEYAN
SECRETARY

3SCA(4)/4/2009-2010 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:-

S.NO.	MRN	MEMBER NAME	REMOVAL DATE
1	001806	MR. JAYARAMAN PONNUSWAMY	01/04/2009
2	002451	MR. RAY ANUPAM CHANDRA	31/03/2009
3	002859	MR. SATYANARAYANA C S	31/03/2009
4	022374	MR. GIRIDHAR M V	31/03/2009
5	023786	MR. GOPALAKRISHNAN V	30/12/2009

T KARTHIKEYAN
SECRETARY

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 4th March 2011

HRD/C-1 (3) 2010/RR/MTS - In exercise of the powers delegated by the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund under Sub-section 7(a) of section 5(D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952), the Central Provident Fund Commissioner, after consultation and with the approval of Govt. of India, hereby amends the Employees' Provident Fund Organisation (Multitask Attendant) Recruitment Rules, 2004 notified vide Gazette Notification HRD-P-IV/1(5) 91/RR/MTA dated 13.03.2004, namely;

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT;

- (1) These Rules may be called the Employees Provident Fund Organisation (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION, PAY BAND AND GRADE PAY;

The number of the posts, its classification and the pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICATIONS;

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters attached thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATIONS:

No person,

- (1) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or;
- (2) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. POWER TO RELAX;

Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. SAVINGS;

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

7. REPEAL:

On the coming into force of Employees' Provident Fund Organisation (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011, the following rules shall stand repealed: -

- (i) Employees' Provident Fund Organisation (Multi Task Attendant) Recruitment Rules, 2004 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(5)91/MTA dated 13.03.2004.
- (ii) Employees' Provident Fund Organisation (Multi Task Attendant) Amendment Recruitment Rules, 2006 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(4)89/MTA dated 17.06.2006.
- (iii) Employees' Provident Fund Organisation (Binder) Recruitment Rules, 1986 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(3)/86/RR dated 31.01.1987.
- (iv) Employees' Provident Fund Organisation, Junior Gestetner Operator (Hqrs. & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(4) 91 dated 18.07.1992.
- (v) Employees' Provident Fund Organisation, Record Sorter (Sr.) (Hqrs. & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV/1 (6)/91/RR dated 31.07.1992.
- (vi) Employees' Provident Fund Organisation, Jamadar/Daftry/Record Sorter (Jr.) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV /1 (4)/89/RR dated 31.07.1992.
- (vii) Employees' Provident Fund Organisation, Jamadar/Daftry/Record Sorter (Jr.) Amendment Recruitment Rules, 2006 published in Gazette of India vide Notification no. HRD/P-IV/1 (4)89/RR dated 17.06.2006.
- (viii) Employees' Provident Fund Organisation, Helper, Farash, Water Carrier & Sweeper (Safaiwala) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV /1 (4)89/RR dated 31.07.1992.

S. CHATTERJEE

Central P. F. Commissioner and
Secy. Central Board of Trustees,
Employees' Provident Fund

THE SCHEDULE**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI-TASKING STAFF IN THE
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**

Col. No	Particulars	Terms and Conditions
1.	Name of the Post	MULTI-TASKING STAFF
2.	Number of Posts	(2349) (2011) Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay	₹5200-20200 in PB-1 with Grade Pay of ₹1800/-
5.	Whether selection post or Non-selection post.	Not Applicable
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Not Applicable
7.	Age limit for Direct Recruitment	Between 18 and 25 years of age NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahual & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: Matriculation or equivalent pass. Desirable: 1. 3 years service as Home Guard or as Civil Defence Volunteer and Training in basic and refresher course in Home Guard/Civil Defence. 2. Ex-Servicemen. 3. Certificate from Recognized Institute in catering, House Keeping, cookery. 4. Work experience for two years in Gardening/Watch and Ward / Guest House of reputed firms. 5. Possessing valid 4 wheeler driving license.

9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Not Applicable
10.	Period of probation, if any.	(02) Two Years
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% By direct recruitment. <u>Initial Constitution Clause:</u> All the existing incumbents working in the posts of Multi-Task Attendant, Binder, Junior Gestetner Operator(Hqrs. & Regional Offices) Record Sorter (Senior) (Hqrs. & Regional Offices), Jamadar, Daftry, Record Sorter (Junior), Helper, Farash, Water Carrier and Sweeper(Safaiwala) shall be deemed to have been re-designated as Multi-Tasking Staff and shall be deemed to have been appointed under these rules as on date of notification of these rules.
12.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	Not Applicable
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	<u>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation</u> 1) Regional P.F. Commissioner (In-Charge of the Region) / Regional P.F. Commissioner (ASD) in Headquarters – Chairman 2) Assistant P.F. Commissioner (In-Charge of Administration) – Member 3) An officer of appropriate grade from Central Govt. Departments / Organisation outside Employees' Provident Fund Organisation – Member
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

NOTE: On the coming into force of Employees' Provident Fund Organisation (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011, the following rule shall stand repealed: -

- (i) Employees' Provident Fund Organisation (Multi Task Attendant) Recruitment Rules, 2004 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(5)91/MTA dated 13.03.2004.
- (ii) Employees' Provident Fund Organisation (Multi Task Attendant) Amendment Recruitment Rules, 2006 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(4)89/MTA dated 17.06.2006.
- (iii) Employees' Provident Fund Organisation (Binder) Recruitment Rules, 1986 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(3)/86/RR dated 31.01.1987.
- (iv) Employees' Provident Fund Organisation, Junior Gestetner Operator (Hqrs. & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India, vide Notification no. P-IV/1(4) 91 dated 18.07.1992.

- (v) Employees' Provident Fund Organisation, Record Sorter (Sr.) (Hqrs. & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV/1 (6)/91/RR dated 31.07.1992.
- (vi) Employees' Provident Fund Organisation, Jamadar/Daftry/Record Sorter (Jr.) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV /1 (4)/89/RR dated 31.07.1992.
- (vii) Employees' Provident Fund Organisation, Jamadar/Daftry/Record Sorter (Jr.) Amendment Recruitment Rules, 2006 published in Gazette of India vide Notification no. HRD/P-IV /1 (4)89/RR dated 17.06.2006.
- (viii) Employees' Provident Fund Organisation, Helper, Farash, Water Carrier & Sweeper (Safaiwala) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide Notification no. P-IV /1 (4)89/RR dated 31.07.1992.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th February 2011

No. N-15/14/17/2010-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st February, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely.

Sr. No.	Name of the Revenue village	Tehsils	District
1.	Jassar	Ludhiana	Ludhiana
2.	Paddi	Ludhiana	Ludhiana
3.	Bhagwanpura	Ludhiana	Ludhiana
4.	Dugri	Ludhiana	Ludhiana
5.	Tibba	Ludhiana	Ludhiana
6.	Umedpur	Ludhiana	Ludhiana
7.	Dharour	Ludhiana	Ludhiana
8.	Lauduwal	Ludhiana	Ludhiana
9.	Allowal	Ludhiana	Ludhiana
10.	Manewal	Ludhiana	Ludhiana
11.	Bonker-Dogran	Ludhiana	Ludhiana
12.	Nurpur Bet	Ludhiana	Ludhiana
13.	Nurwala	Ludhiana	Ludhiana
14.	Paharuwal	Ludhiana	Ludhiana
15.	Laton Dana	Ludhiana	Ludhiana
16.	Katani Kalan	Ludhiana	Ludhiana
17.	Laton joga	Ludhiana	Ludhiana
18.	Panglian	Ludhiana	Ludhiana
19.	Kum Kalan	Ludhiana	Ludhiana
20.	Bhama kalan	Ludhiana	Ludhiana
21.	Kubba	Ludhiana	Ludhiana
22.	Lakhowal	Ludhiana	Ludhiana

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

The 10th February 2011

No.N-15/13/1/13/2010-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st February, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGES OF THIMMAPUR HAVELI AND GOPALPUR OF HANAMKONDA MANDAL, GEESUGONDA AND OOKAL OF GEESUGONDA MANDAL AND MUCHERLA AND YELLAPUR OF HASANPARTHY MANDAL IN WARANGAL DISTRICT OF ANDHRA PRADESH. "

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No.N-15/13/1/8/2009-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st January, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE REVENUE VILLAGES OF G.CHODAVARAM (INCLUDING HAMLET VIZ., PORAM) CHODAMMA AGRAHARAM, KOVVADA, KANDIVALASA (INCLUDING HAMLETS VIZ., NAKKANIPETA, MADAVAYYPETA, BODDUVANIKALLALU AND KANIMALLA (INCLUDING HAMLET VIZ., KAMAVARAM) OF PUSAPATIREGA MANDAL OF VIZIANAGARAM DISTRICT OF ANDHRA PRADESH "

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No.N-15/13/1/9/2009-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st February, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF SRIKAKULAM TOWN AND THE REVENUE VILLAGES OF SINGUPURAM, PEDDAPADU, KUSELAPURAM, KESAVARAOPETA OF SRIKAKULAM MANDAL AND ATCHANNAPALEM OF GARA MANDAL IN SRIKAKULAM DISTRICT OF ANDHRA PRADESH. "

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. N-15/13/1/5/2006-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st January, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely.

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGES OF MELLACHERUVU, RAMAPURM AND CHINTHAPALEM OF MELLACHERUVU MANDAL IN NALGONDA DISTRICT OF ANDHRA PRADESH."

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. N-15/13/6/6/2007-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 01.02.2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.

" Muttom in Thodupuzha taluk in Idukki District. "

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. N-15/13/16/3/2010-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st February, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Haryana** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Haryana** namely:-

SI.NO	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1.	KANWRA	156	FARIDABAD
2.	BHUPANI	143	FARIDABAD
3.	WAZIRPUR	137	FARIDABAD
4.	BUDAINA	124	FARIDABAD
5.	NACHAULI	155	FARIDABAD
6.	PALWALI	138	FARIDABAD
7.	KABULPUR	169/170	FARIDABAD
8.	JASANAA	110	FARIDABAD
9.	MOHNA	204	FARIDABAD
10.	KHERI KALAN	113	FARIDABAD
11.	CHHAINSA	202	FARIDABAD
12.	FARIDPUR	99	FARIDABAD
13.	BATHOLA	115	FARIDABAD
14.	BAROLI	116	FARIDABAD
15.	CHANDPUR	187	FARIDABAD
16.	AURANGABAD	81	PALWAL
17.	REHRANA	83	PALWAL

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. **N-15/13/7/11/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Karnataka** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely.

" Areas Comprising of Revenue village of Narasapur, Hobli Betageri, Taluk Gadag, District of Gadag. "

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

New Delhi, the 14th February 2011

No. **N-15/14/17/1/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st **March, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely:-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Sub-Tehsil	District
1.	Syalwamazri	147	Syalwamazri	Mohali

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. **N-15/14/17/3/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st March, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely:-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Bhagwanpur	288	Jalandhar-II	Jalandhar
2.	Loharan	264	Jalandhar-II	Jalandhar
3.	Kartarpur	370	Jalandhar-II	Jalandhar
4.	Sura	325	Jalandhar-II	Jalandhar
5.	Sarai Khas	326	Jalandhar-II	Jalandhar
6.	Bishrampur	391	Jalandhar-II	Jalandhar
7.	Kahlwan	327	Jalandhar-II	Jalandhar

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. **N-15/14/17/4/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st March, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely:-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Plahi	60	Phagwara	Kapurthala
2.	Nangal	102	Phagwara	Kapurthala
3.	Khotran	01	Banga	Shahid Bhagat Singh Nagar

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. **N-15/14/17/5/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st March, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely:-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Pangoli	351	Pathankot	Gurdaspur
2.	Kiari	350	Pathankot	Gurdaspur
3.	Siunti	376	Pathankot	Gurdaspur

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

No. **N-15/14/17/8/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st March, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Punjab** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Punjab** namely:-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Shamsher Nagar	139	Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib
2.	Fatehgarh Sahib	110	Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib

R. C. SHARMA
Dir. (P&D)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 23rd February 2011

No. A-1/1/2/2009-Estt. I. — In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations further to amend the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 (hereafter referred to as the principal regulations), in regulation 5, in paragraph (3), for the words "Insurance Inspector", the words "Social Security Officer" shall be substituted.
3. In the principal regulations, in the First Schedule, under the heading "Group C", against the post at S. No. 1, for the entry under column 2, the following entry shall be substituted, namely:-

"1. Social Security Officer/Manager Grade-II/Superintendent/Social Security Officer (Audit)".

4. In the principal regulations, in the Fifth Schedule, —

(i) against the post at S. No.3, under column 2, for the words "Insurance Inspector", the words "Social Security Officer" shall be substituted.

(ii) for the Note, the following shall be substituted, namely: —

"Note: The term 'Social Security Officer/Manager Grade II' shall include all other posts like Office Superintendent/Social Security Officer (Legal), etc., in the same cadre."

Foot Note: - The principal regulations, published vide notification No. 2-2/1/56-Estt. dated the 16th December, 1959 in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 26th December 1959, were earlier amended by the following notifications:-

1. Notification No. 1(1)2/62-Estt. I dated 25-08-1965.
2. Notification No. 1(1)-1/66-Estt. I dated 16-08-1969.
3. Notification No. 1(1)-1/72-Estt. I dated 13-10-1973
4. Notification No. 1(1)-1/72-Estt. I dated 24-08-1974.
5. Notification No. 1(1)-1/72-Estt. I dated 31-07-1976.
6. Notification No. Vig. 2(5)-1/74 dated 23-07-1977.
7. Notification No. A-40(11)-2/77-Estt. IV dated 05-02-1980.
8. Notification No. 1(1)-1/72-E.I Col. II dated 16-05-1981.
9. Notification No. Vig. 8(1)/74 dated 27-05-1983.
10. Notification No. A-32(11)-1/84, E.I (A) dated 16-06-1990.
11. Notification No. Vig. 9(1)/74- dated 18-01-1992.

Dr. C.S. KEDAR
DIRECTOR GENERAL

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Karnataka & Goa State, Bangalore, the 25th February 2011

No. EPFO/ACC(K&G)/DLI-Exm (Cancel)/1488/2010-11—

M/s Disc Technology Service Pvt. Ltd. (KN/25546) was granted exemption by the Competant Authority for the period from 24/11/2007 to 23/11/2010 under section 17(2A) of the Employees' Provident Fund Act and Miscellaneous Provisions Act, 1952 from the provisions of the EDLI Scheme, 1976 vide No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2009/719 dated 22/1/2009 and notified in the Gazette of India dated 21/2/2009.

As per condition 10 in Schedule II of the notification dated 22/1/2009, "where for any reason the employer fails to pay the premium etc., within the due dates, as fixed by the respective Life Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption granted shall be liable to be cancelled.

Whereas the employer of M/s Disc Technology Services Pvt. Ltd., by discontinuing the Group Insurance Scheme with ING Vysya Life Insurance with effect from 1/11/2009, is liable to comply under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, with effect from the said date.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 17(4)(c) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, the Competant Authority hereby cancels the exemption granted to M/s Disc Technology Services Pvt. Ltd., under Section 17(2A) of the Act from the provisions of the EDLI Scheme, 1976 with effect from 1/11/2009, and thereby

1. The employer shall comply with the provisions of the EDLI Scheme, 1976 forthwith, w.e.f 1/11/2009.
2. The employer shall abide to the conditions specified in Schedule-II of the Government of India Notification dated 21/2/2009 for the period of exemption granted under Section 17(2A) of the Act.

P. SUDHAKAR BABU
Addl. Central P.F. Commissioner,